



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1374]
No. 1374]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2006/कार्तिक 24, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2006/KARTIKA 24, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2006

का.आ. 1971(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसका पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1674(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 28 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के 52.250 कि.मी. से 90.220 कि.मी. तक के भूखंड (मेरठ-मुजफ्फरनगर सेक्शन) का बाईपास सहित निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाखंड अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 28 जनवरी, 2006 का "दैनिक जागरण" और तारीख 3 फरवरी, 2006 को "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1)-द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 के 52.250 कि.मी. से 90.220 कि.मी. तक (मेरठ-मुजफ्फरनगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	खाला नं०	प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति / भूमि का उपयोग	अर्जित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ	मेरठ	परतापुर बराल	168, 121	355	निजी	कृषिक	95	0.0235	ब्रह्मसिंह, देशवीर सिंह आदि
				304	356	निजी	बंजर	777.4832	0.1921	राजेन्द्र, सुरेन्द्र, सतेन्द्र, वीरेन्द्र आदि
				241	709	निजी	कृषिक	505.8477	0.1250	मदन मोहन शर्मा, राकेश मोहन, गौरव कौशिक
				469	702	सरकारी	नाली	38	0.0094	
				184	700	निजी	कृषिक	2045.3531	0.5054	ब्रह्मसिंह, किशनपाल, सुरेन्द्र, हरेन्द्र, इन्द्रपाल आदि
				374	694	निजी	कृषिक	469.5956	0.1160	सतेन्द्र आदि
				423	695	निजी	कृषिक	1045.3539	0.2583	हरवीर आदि
				131	685	निजी	कृषिक	2.9608	0.0007	अरविन्द श्रीमती मूर्ति देवी
				331	684	निजी	कृषिक	1110.8162	0.2745	रोशनलाल जैन, प्रदीप जैन, राकेश जैन आदि
				287	683	निजी	कृषिक	81.6122	0.0202	अनिल सिंह, विनोद कुमार महेश्वरी
				409	682	निजी	कृषिक	1750.9617	0.4327	डा० नीरज कम्बोज
				491	677	सरकारी	सड़क	585.6631	0.1447	
				472	674	सरकारी	सड़क	291.7128	0.0721	
				204	676	निजी	आबादी	146.8425	0.0363	मंगल सेन आदि
				160412	670	निजी	आबादी	1096.3646	0.2709	सत्य प्रकाश, अग्रवाल, राम कुमार, अशोक कुमार, किशन लाल, वीना रानी, शकुन्तला रानी
				386	576	निजी	कृषिक	122.3757	0.0302	सन्तू वर्मा, दुर्गा
				321, 453	577	निजी	आबादी	910.619	0.2250	राजपाल, वीरचन्द, आर. पी अग्रवाल आदि
				54	580	निजी	आबादी	415	0.1025	कृष्णा वीर आदि
				244	579	निजी	आबादी	161.0469	0.0398	अमरपाल सिंह
				39328	583	निजी	आबादी	1346.5278	0.3327	ओम प्रकाश, सत्यवीर, राकेश लूथरा आदि
				29	585	निजी	कृषिक/ आबादी	549.8147	0.1359	जयवीर, रिलायंस पोली फीड द्वारा, एस के जैन
				219, 364, 72	592	निजी	बंजर	1080.3654	0.2670	अन्जू शर्मा, गीता कुमार, रिलायंस
				378	593	निजी	बंजर	779.433	0.1926	कृष्ण कुमार शर्मा
				433, 271	604	निजी	कृषिक	1394.5961	0.3446	योगेन्द्र राना, मुकेश कुमार, हरवीर सिंह आदि
				78	595		आबादी	339.2977	0.0838	गजेन्द्र अदि कुमार शर्मा
				491	598	सरकारी	ग्राम सभा	1299.3113	0.3211	राज कुमार सिंह, रोहित जैन, वरुन जैन आदि
				301, 302	597	निजी	आबादी	1801.7565	0.4452	मै० दीवान इन्ड. विद्या सागर दीवान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				209	681	निजी	आबादी	248.4661	0.0614	मै० दीयान इन्ड. विद्या सागर दीयान
				209	680	निजी	आबादी	140.6279	0.0347	मै० दीयान इन्ड. विद्या सागर दीयान
				209	673	निजी	आबादी	6.8185	0.0017	मै० दीयान इन्ड. विद्या सागर दीयान
				376	671	निजी	आबादी	256.1515	0.0633	सतीश कुमार, गिरिश कुमार
				160, 309, 412	670	निजी	आबादी	432.2206	0.1068	सत्य प्रकाश, अग्रवाल, राम कुमार, अशोक कुमार, किशन लाल, धीना रानी, शकुन्तला रानी
				54	580	निजी	आबादी	148.8365	0.0368	कृष्णवीर आदि
				326	582	निजी	आबादी	173.8454	0.0430	राकेश लूथरा, केवल लूथरा
				472	581	सरकारी	सड़क	105.6896	0.0261	-
				39	583	निजी	आबादी	266.7272	0.0659	ओम प्रकाश, सत्यवीर, राकेश लूथरा आदि
				29	585	निजी	कृषिक /आबादी	88.0246	0.0218	जयवीर, रिलायंस पोली फीड द्वारा, एस के जैन
				219, 364, 72	592	निजी	बंजर	298.9177	0.0739	अंजू शर्मा, गीता कुमारी, मै० रिलायंस
				378	593	निजी	बंजर	197.3678	0.0488	कृष्ण कुमार शर्मा
				433, 271, 422	604	निजी	कृषिक	352.7225	0.0872	योगेन्द्र राना, मुकेश कुमार, हरवीर सिंह आदि
				131	598	निजी	आबादी	658.4099	0.1627	मास्टर अमन सिंह
				301, 302	597	निजी	आबादी	191.4603	0.0473	राज कुमार सिंह, रोहित जैन, वरून जैन आदि
				328	582	निजी	आबादी	192	0.0474	राकेश लूथरा, केवल लूथरा
				80	699	निजी	बंजर	168	0.0415	छोटेला
			(2) कुण्डा	138	140	निजी	आबादी	1828.2247	0.4517	मै० राजकमल फर्नी. प्रकाश चन्द बंसल
				190	139	निजी	बंजर	400.6207	0.0990	विश्वनाथ पाइप उद्योग - सुरेन्द्र अग्रवाल
				138	140	निजी	आबादी	760.9764	0.1880	मै० राजकमल फर्नी. प्रकाश चन्द बंसल
				233	138	सरकारी	बंजर	8.2532	0.0020	-
				250	137	सरकारी	ग्राम सभा	17.5704	0.0043	-
				233	136	सरकारी	ग्राम सभा	118.382	0.0293	-
			(3) हुगरावली	190	334	निजी	बंजर	97.0849	0.0240	इस्पारा रिसर्च और टेक्नोलॉजी फंडेशन वैरिटेबल ट्रस्ट - शरद कुमार जैन
				77	325	निजी	बंजर	1145.1343	0.2830	तिरखा, मानचन्द आदि
				33	324	निजी	कृषिक	259.0744	0.0640	कोरी आदि
				2	319/1	निजी	ग्राम सभा	450.3232	0.1113	अशोक कुमार, सुभाष, कजान आदि
				204	319/2	सरकारी	बंजर	1321.6796	0.3266	-
				107, 49, 155	318	निजी	कृषिक	385.2461	0.0952	कजान सिंह, श्रीमती लीलावती, छोटे, ब्रिजी आदि
				102	282	निजी	कृषिक	455.8687	0.1126	बुद्ध

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				57, 27, 151, 3	274	सरकारी	आबादी	1316.3663	0.3253	अशोक कुमार, सुभाष, कजान आदि
				122	271	निजी	कृषिक	496.4879	0.1227	सत्या प्रकाश अग्रवाल, राम कुमार आदि
				179, 6	269	निजी	कृषिक	339.7368	0.0839	सविता, अन्नू आदि
				64	268	निजी	बंजर	5.1816	0.0013	चरन सिंह
				125, 182, 28, 139	100	निजी	कृषिक	1145.2423	0.2830	श्रीमती मीना कु., रनजीत सिंह, बिशन सिंह आदि
				70	123/3	निजी	कृषिक	350	0.0865	मंगत सिंह, तारा सेन, जी राज सिंह आदि
				70	123	निजी	कृषिक	712.1358	0.1760	जी राज सिंह, धनराज सिंह आदि
				134	126/2	सरकारी	बंजर	11.212	0.0028	-
				80	161	निजी	कृषिक	128	0.0316	दयाराम, दीपक, गजराज आदि
				26	330	निजी	कृषिक	180	0.0445	श्रीमती सुमीया सिंह, हरबीर सिंह आदि
				33	329	निजी	कृषिक	480	0.1186	हरबीर सिंह आदि
				136, 55, 115, 117, 206	331	निजी	कृषिक	420	0.1038	गरीबा, भूप सिंह, हरबीर, धर्मपाल, जयपाल, राजपाल, सत्यापाल आदि
				24	132	निजी	बंजर	789.6715	0.1951	ईश्वर सिंह आदि
				24, 102	131	निजी	बंजर	158.6189	0.0392	बधलू, ओमप्रकाश, ईश्वर आदि
				90	137	निजी	बंजर	65.4388	0.0162	ननू आदि
				81	136	निजी	बंजर	263.7385	0.0652	दौलत आदि
				190	135	सरकारी	ग्रामसभा/ आबादी	416.7647	0.1030	दिनेश, नौशाद, नूरजहां आदि
				116	152	निजी	कृषिक	671.2432	0.1659	मुकेश कुमार
				70	153	निजी	बंजर	417.8108	0.1032	जी राज सिंह
				70	166	निजी	कृषिक	372.7326	0.0921	जी राज सिंह और धीरज सिंह
				80	161	निजी	कृषिक	325	0.0803	दयाराम, दीपक, गजराज आदि
				80	163	निजी	कृषिक	99.6411	0.0246	दाताराम आदि
				80	162	निजी	कृषिक	266.0696	0.0657	दाताराम आदि
				70	2	निजी	कृषिक	627.496	0.1551	जी राज सिंह और धीरज सिंह
				174	328	निजी	बंजर	250	0.0618	सवीला आदि
				196	327	सरकारी	ग्राम सभा	204.9277	0.0506	-
				174	326	निजी	बंजर	56.2338	0.0139	सवीला आदि
				77	325	निजी	बंजर	170.9425	0.0422	ठीकरा, मानचन्द आदि
				179, 6	269	निजी	बंजर	177.3566	0.0438	सवीला, हूड, विजयपाल, कृष्णपाल, महेन्द्र आदि
				141, 51	103	निजी	बंजर	309.5497	0.0765	महेन्द्र, राजेन्द्र, गोपाल आदि और सुमन चोहान, दयाचन्द और लक्ष्मण सिंह आदि
				82	103/2	निजी	बंजर	288.9282	0.0714	दयाचन्द, लक्ष्मण आदि
				206	101	सरकारी	ग्राम सभा	116.9585	0.0289	-
				206	89	निजी	ग्राम सभा	111.3726	0.0275	-
				122	95	निजी	बंजर	42.381	0.0105	मंगत, ताराचन्द आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				185	125	निजी	कृषिक	55.6409	0.0137	हसीम अली, यासीन, असगर, घासी, बाबू, जुम्मा, इलयास, शाहबीर, अजमेद, इस्लाम, मंगत, शरीफ, शाहजाब, इरशद आदि
				81	127	निजी	कृषिक	49.7465	0.0123	दौलत आदि
				24	132	निजी	बंजर	184.0282	0.0455	ईश्वर सिंह आदि
				24	133	निजी	कृषिक	211.3091	0.0522	ईश्वर आदि
				24	134	निजी	कृषिक	80.641	0.0199	ईश्वर आदि
				108, 24	148	निजी	कृषिक	125.5832	0.0310	बघलू
				6	78	निजी	कृषिक	328	0.0810	अगनू आदि
				108	149	निजी	कृषिक	285.2142	0.0705	बघलू आदि
				102	151	निजी	कृषिक	149.6846	0.0370	ओमप्रकाश आदि
				102	151	निजी	कृषिक	297.3103	0.0735	ओमप्रकाश आदि
				70	153	निजी	कृषिक	293.4457	0.0725	जी राज
				70	7	सरकारी	बंजर	150	0.0371	एम डी ए
				70	2	निजी	कृषिक	370	0.0914	जी राज सिंह, धनराज सिंह आदि
				195	1	निजी	कृषिक	825.1103	0.2039	उमर मौ0, इकबार, मोहिम आदि
			(4) घाट	108	1016	निजी	कृषिक	1902.4972	0.4701	चेतराम, महेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह, धर्मवीर सिंह आदि
				292	1011	निजी	कृषिक	2398.1757	0.5926	भागवत, जगदीश कुमार, मुकेश कुमार आदि
				121, 558	1010	निजी	आबादी	1505.6201	0.3720	चन्दूलाल, अशोक कुमार, राकेश कुमार, गयान चन्द, अनूप आदि
				494	1009	निजी	कृषिक	1465.6987	0.3622	भागवत, जगदीश कुमार, मुकेश कुमार, पंकज गोयल, सुरेन्द्र सिंह, महीपाल सिंह आदि
				307	1007	निजी	कृषिक	1541.9923	0.3810	महेश, दिनेश, सुरेश आदि
				535, 359, 26	1004	निजी	आबादी / कृषिक	3490.4783	0.8625	ऑल इण्डिया इन्स्टिट्यूट मैनेजमेंट और रिसर्च व सोसाईटी - मन्जू गोयल, सन्दीप गोयल, राजेन्द्र सिंह, सन्तोष कुमार आदि
				2	971	निजी	कृषिक	116.3427	0.0287	राजेन्द्र सिंह आदि
				476	966	निजी	बंजर	279.7929	0.0691	शिव कुमार, विनोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार आदि
				476	965	निजी	कृषिक / बंजर	248.1819	0.0613	शिव कुमार, विनोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार आदि
				292	1011	निजी	कृषिक	223.1922	0.0552	भागवत, जगदीश कुमार, मुकेश कुमार आदि
				292	1011	निजी	कृषिक	396.6526	0.0980	भागवत, जगदीश कुमार, मुकेश कुमार आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				121, 558	1010	निजी	आबादी	98.045	0.0242	चन्दूलाल, अशोक कुमार, राकेश कुमार, गयान चन्द, अनूप आदि
				494	1009	निजी	कृषिक	407.7911	0.1008	भागवत, जगदीश कुमार, मुकेश कुमार, पंकज गोयल, सुरेन्द्र सिंह, महीपाल सिंह आदि
				455	1002	निजी	कृषिक	258.9044	0.0640	विजयपाल, मेजर, एम एस यादव आदि
				359	1000	निजी	कृषिक	1197.6541	0.2959	राजेन्द्र सिंह, रमेशचन्द, रामपाल आदि
				578	999	मन्दिर	ग्राम सभा	390.4881	0.0965	-
				476	966	निजी	बंजर	223.3145	0.0552	शिव कुमार, विनोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार आदि
				2	969	निजी	कृषिक	200	0.0494	राजेन्द्र सिंह, अखिलेश आदि
				570	1008	सरकारी	ग्राम सभा	38	0.0094	-
			558 डंसपलदं	298, 465	1656	निजी	बंजर	271.9046	0.0672	मै0 सुभारती क. के0वी0 चैरिटेबल ट्रस्ट - अतुल कृष्ण, राजाराम कृष्ण, राजाराम भारती आदि
				200	1657	निजी	बंजर	189.1656	0.0467	जसवीर सिंह आदि
				554	1652	निजी	बंजर	185.8034	0.0459	राज दास, हरनाम दास, लाल सिंह, गणेश आदि
				139	1651	निजी	बंजर	55.9397	0.0138	सुनील कुमार, नवीन कुमार, सचिन शर्मा आदि
				126	1650	निजी	बंजर	2468.8112	0.6100	गुरु प्रसाद, मै0 सुभारती के0के0वी0 चैरिटेबल ट्रस्ट - अतुल कृष्ण
				795	1639	सरकारी	ग्राम सभा	22.02	0.0054	-
				245	1642	निजी	बंजर	222.7143	0.0550	दर्शन आदि
				215	1640	निजी	बंजर	13.043	0.0032	जगत सिंह आदि
				555	1606	निजी	बंजर	26.0424	0.0064	राजेन्द्र सिंह, ओमी, पूरन आदि
				555	1606	निजी	बंजर	144.862	0.0358	रोशनलाल जैन, प्रदीप जैन, राकेश जैन आदि
				185	1612	निजी	बंजर	146.2098	0.0361	जय दयाल आदि
				212	1616	निजी	बंजर	267.7958	0.0662	जनक राज, नरेश कुमार, सतीश कुमार, दर्शन लाल, निशान्त कुमार आदि
				212	1620	निजी	आबादी	100.9118	0.0249	जनक राज, नरेश कुमार
				603, 795	1661	सरकारी	बंजर	318.5391	0.0787	एम डी ए, विमला देवी, देविन्द्र सिंह आदि
				29	1662	निजी	बंजर	1106.1866	0.2733	अतर सिंह, राम सिंह आदि
				485	1664	निजी	बंजर	354.9747	0.0877	राधेश्याम, कृष्ण कुमार आदि
				147	1667	निजी	बंजर	297.1808	0.0734	गंगा राम, गंगासरन, श्रीचन्द आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				147	1668	निजी	बंजर	646.8626	0.1598	गंगा राम, गंगासरन, श्रीचन्द आदि
				124	1669	निजी	बंजर	479.7625	0.1185	खचैदू आदि
				38	1648	निजी	बंजर	1397.7986	0.3454	अन्शू देवी आदि
				126	1650	निजी	बंजर	2025.9432	0.5006	गुरु प्रसाद, मै० सुभारती के०के०पी० चैरिटेबल ट्रस्ट - अतुल कृष्णा
				823	1645	सरकारी	बंजर	14.0924	0.0035	-
				572	1644	निजी	बंजर	1402.6427	0.3466	एम डी ए, भूप आदि
				572	1643	सरकारी	बंजर	48	0.0119	-
				452	1601	निजी	बंजर	610.7814	0.1509	मुलखराज, ओमप्रकाश नाराय आदि
				795	1604	सरकारी	बंजर	517.2365	0.1278	-
				185	1612	निजी	बंजर	512.1751	0.1266	जय दयाल आदि
				579, 271	1615	निजी	बंजर	883.8774	0.2184	धर्मवीर एडवोकेट, होटीलाल शर्मा, अनिल कुमार, राजेन्द्र सिंह, विजय कुमार शर्मा आदि
				212	1616	निजी	बंजर	1104.2855	0.2729	जनक राज, नरेश कुमार, सतीश कुमार, दर्शन लाल, निशान्त कुमार आदि
				212	1581	निजी	बंजर	1787.2485	0.4416	जनक राज, नरेश कुमार, सतीश कुमार, दर्शन लाल, निशान्त कुमार आदि
			(6) रामपुर पौटी	185	423	निजी	बंजर	234.284	0.0579	भूपेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, श्रीराम आनन्द, सतीश कुमार आदि
				118	424	निजी	कृषिक	60.4336	0.0149	बेगराज सिंह, मूलचन्द आदि
				118	425	निजी	कृषिक	173.8951	0.0430	बेगराज सिंह, मूलचन्द आदि
				69	441	निजी	कृषिक	45.5867	0.0113	शम्भूनाथ आनन्द, सतीश कुमार आनन्द आदि
				118	438	निजी	कृषिक	2366.035	0.5846	संदीप कुमार, यादव, बेगराज सिंह, मूलचन्द, प्रताप आदि
				60, 140, 139	430	निजी	कृषिक / आबादी	1447.6186	0.3577	रमेश अलीयास, रामाश्री, अशोक, महेश, झम्बर आदि
				63	315	निजी	कृषिक	200	0.0494	देवेन्द्रजीत, चरनजीत सिंह, दीपराज सिंह आदि
				63	316	निजी	कृषिक	632.7899	0.1564	देवेन्द्रजीत, चरनजीत सिंह, दीपराज सिंह आदि
				2	322	निजी	बंजर	1000	0.2471	अनिल कुमार आदि
				14	338	निजी	आबादी / बंजर	1296.2168	0.3203	इकबाल सिंह, चमन सिंह आदि
				63	317	निजी	कृषिक	2388.7208	0.5902	देवेन्द्रजीत, चरनजीत सिंह, दीपराज सिंह आदि
				83	344	निजी	बंजर	339.3363	0.0838	श्रीमती दुगा देवी, नन्दन सिंह, संदीप कुमार, प्रवीण कुमार आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7	345	निजी	आबादी	57.2272	0.0141	अनिल कुमार, भोरा, सुनील कुमार भोरा आदि
				138	346	निजी	बंजर	23.7091	0.0059	नरेश चन्द, मै० सरल मोटर एवं जनरल फाइनेंस लि० - गगन गोपाल, अतुल बंसल
				185	426	निजी	बंजर	91.928	0.0227	श्रीराम आनन्द, सतीश कुमार आनन्द, शम्भूनाथ आनन्द आदि
				118	425	निजी	कृषिक	1159.025	0.2864	बैगराज सिंह, मूलचन्द आदि
				118	427	निजी	बंजर	23.7346	0.0059	बैगराज सिंह, मूलचन्द आदि
				185	423	निजी	बंजर	463.7953	0.1146	भूरुद सिंह, जितेन्द्र सिंह, श्रीराम आनन्द, सतीश कुमार आदि
				118	442	निजी	आबादी	547.1433	0.1352	बैगराज सिंह, मूलचन्द आदि
				118	438	निजी	कृषिक	145.2239	0.0359	संदीप कुमार, यादव, बैगराज सिंह, मूलचन्द, प्रदीप आदि
				2	322	निजी	बंजर	1567.2717	0.3873	अनिल कुमार, जगदीश आदि
				141	320	निजी	कृषिक	145.8074	0.0360	रेखा गोयल आदि
				2	321	निजी	बंजर	472.8713	0.1168	अनिल कुमार, जगदीश आदि
				169	318	निजी	आबादी	311.584	0.0770	विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार, श्रीमती सुखवीरी आदि
				14	338	निजी	आबादी / बंजर	366.6187	0.0906	इकबाल सिंह, चमन सिंह आदि
				82	341	निजी	कृषिक	267.2186	0.0660	नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, श्रीमती मनोरमा कुमारी आदि
				7	345	निजी	आबादी	403.9161	0.0998	अनिल कुमार, भोरा, सुनील कुमार भोरा आदि
				138	346	निजी	बंजर	261.0522	0.0645	नरेश चन्द, मै० सरल मोटर एवं जनरल फाइनेंस लि० - गगन गोपाल, अतुल बंसल
				100	309	निजी	कृषिक	536	0.1324	बब्बू, आनन्द कुमार आदि
			(7) खड़ीली	10	620	निजी	कृषिक	332.2825	0.0821	अमरपाल, सुशीला, वीनू, रविदर, देवेन्द्र, अवदेश आदि
				72	618	निजी	बंजर	123.5111	0.0305	खजान आदि
				72	601	निजी	बंजर	146.5963	0.0362	खजान आदि
				37, 124, 266	602	निजी	कृषिक	115.0707	0.0284	आनन्द, परमानन्द, दिनेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, सुशील कुमार, रामावतार आदि
				237, 335	598	निजी	कृषिक	3908.9025	0.9659	राजाराम, हरकिशन आदि
				152	596	निजी	कृषिक	190.1058	0.0470	प्रमोद कुमार, सुमन शर्मा आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				242	595	निजी	कृषिक	201.9782	0.0499	रामस्वरूप आदि
				3	586	निजी	कृषिक	194.0555	0.0480	इकरामुद्दीन, यामीन, श्रीमती निर्मल सिंह आदि
				4	581	निजी	कृषिक	948.1988	0.2343	श्रीमती भीमू देवी, प्रशांत गुप्ता आदि
				178	579	निजी	कृषिक	183.8636	0.0454	बबू लाल, जगराम, महेन्द्र सिंह आदि
				420	501	सरकारी	ग्राम सभा	51.9934	0.0128	-
				295	489	निजी	कृषिक	295.0192	0.0729	शान्ति, श्रीमती बल्लू, मन्गू, सोमपाल आदि
				345	488	निजी	कृषिक	104.2721	0.0258	अब्दुल सत्तार आदि
				169	487	निजी	कृषिक	392.9701	0.0971	बबू लाल आदि
				144	474	निजी	कृषिक	403.5254	0.0997	नवीन कुमार अग्रवाल, विपिन कुमार अग्रवाल आदि
				62	472	निजी	कृषिक	587.4643	0.1452	करीमान, अल्लाह, महार, कबीर, इंदू खान आदि
				308	61	निजी	कृषिक	572.3287	0.1414	गोस्वामी पाल सिंह, इमामुद्दीन, रमजान, डा. सविता गर्ग आदि
				297	60	निजी	कृषिक	191.3749	0.0473	शिव कुमार, राम किशन आदि
				310	50	सरकारी	बंजर	361.5665	0.0893	-
				43	48	निजी	कृषिक	234.672	0.0580	महेन्द्र कुमार जैन, सुरेन्द्र कुमार जैन आदि
				271	47	निजी	कृषिक	100.506	0.0248	विजय लक्ष्मी आदि
				59	46	निजी	कृषिक	250.4541	0.0619	राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, राहुल कुमार आदि
				304	7	निजी	बंजर	72	0.0178	सतीश चन्द, अमरीशचन्द, रमेशचन्द आदि
				411, 390	475	सरकारी	ग्राम सभा	112	0.0277	राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, राहुल कुमार आदि
				59	9	निजी	कृषिक	3569.8736	0.8821	राजेश, देवेन्द्र, विजेन्द्र, सतीश, अनिल कुमार आदि
				19, 383	6	निजी	कृषिक	3098.2714	0.7656	कुरे सिंह, सुखबीर सिंह, आदि
				57	574	निजी	कृषिक	295.7571	0.0731	कुरे सिंह, सुखबीर सिंह, आदि
				57	573	निजी	कृषिक	1095.885	0.2708	कुरे सिंह, सुखबीर सिंह, आदि
				184	571	निजी	कृषिक	161.9222	0.0400	भूप सिंह, राम प्रसाद आदि
				66	570	निजी	बाग	415.6461	0.1027	कैलाश चन्द आदि
				66	568	निजी	बाग	256.26	0.0633	कैलाश चन्द आदि
				66	567	निजी	बाग	155.5733	0.0384	कैलाश चन्द आदि
				66	563	निजी	कृषिक	117.6206	0.0291	कैलाश चन्द आदि
				272, 347, 207	548	निजी	कृषिक	1374.68	0.3397	भगवती, उमेश कुमार, फैय्याज, सुन्दर लाल, हीरा लाल आदि
				64, 144	547	निजी	बंजर	124.4733	0.0308	इदगाह सुम्पी, मुतवती, मेहरबान आदि
				39	540	निजी	कृषिक	257.1864	0.0635	उमरदराज आदि

36176/106-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38	539	निजी	कृषिक	800.3572	0.1978	उमरदीन, जुल्फीकार आदि
				71	533	निजी	कृषिक	1047.2844	0.2588	खचेदू, दीनू आदि
				280	527	निजी	कृषिक	376.9539	0.0931	रीफ आदि
				114, 14, 97, 145	522	निजी	कृषिक	805.0319	0.1989	अनिल कुमार, सुनील कुमार आदि
				163	521	निजी	कृषिक	579.723	0.1432	सतीश गुप्ता, सुरज यादव, मनीषा अग्रवाल आदि
				220. 267	515	निजी	कृषिक	956.2265	0.2363	मोहित बन्धू, श्रीमती सुमन तोमर, डा0 सतेन्द्र तोमर आदि
				353, 368, 18	513	निजी	कृषिक	835.0592	0.2063	मंगती, रामवती, गंगा सरन, प्रताप, रंजीत आदि
				224, 54, 218, 203	509	निजी	कृषिक	808.3165	0.1997	कृष्ण कुमार, श्रीमती मधु रानी, श्रीमती राधा रानी आदि
			(5) लखवाया रसूलपुर	14, 63, 37	201	निजी	आबादी	1400	0.3459	सुधीन्द्रा कुमार, श्रीमती कान्ता शर्मा, दीपचन्द आदि
				2	185	निजी	कृषिक	412.2128	0.1019	अज्ञाक कुमार, विमल कुमार, अरविन्द कुमार, अरुन कुमार, नीरज कुमार, संजय कुमार आदि
				152	193	निजी	आबादी	280	0.0692	सुधीन्द्रा कुमार आदि
				141	190	निजी	बंजर	72.7797	0.0180	शीश राम, प्रसादी लाल, नैन सिंह, आदि
			(9) शोभापुर	91	759	निजी	कृषिक	249.2123	0.0616	नरेश कुमार आदि
				61	871	निजी	कृषिक	101.4031	0.0251	धर्मपाल सिंह, सुन्दर मित्तल
				17	879	निजी	कृषिक	296.8372	0.0733	रविन्द्र कुमार
				156	844 / 1	निजी	बंजर	763.1381	0.1886	मन्शा राम
				156	843	निजी	कृषिक	599.2275	0.1481	मन्शा राम
				139	842	निजी	कृषिक	761.2398	0.1881	भूल्लन, मुकेश कुमार
				139, 196	841	निजी	कृषिक	668.3732	0.1652	रामनाथ भूल्लन
				196, 139	838	निजी	कृषिक	222.8241	0.0551	रामनाथ भूल्लन
				129, 132	73	निजी	बंजर	877.8623	0.2169	जगदीश प्रसाद, जय नारायण, हरीओम, राजेन्द्र, प्रमोद, राहुल, मुकुल, श्रीमती अन्जना, राम सिंह, देवेन्द्र सिंह
				324	75	सरकारी	बंजर	1485.335	0.3670	जय नारायण, हरीओम, राजेन्द्र प्रसाद, भवन सिंह आदि
				19, 93	76	निजी	बंजर	106.3715	0.0263	नरेन्द्र कुमार आदि
				19	77	निजी	बंजर	143.3117	0.0354	ओमप्रकाश, हरगुलाल, योगेश, दुलर आदि
				19	78	निजी	बंजर	304.1737	0.0752	प्रेमसन
				129	79	निजी	बंजर	553.4292	0.1368	प्रेमसन
				155, 257	113	निजी	बंजर	413.2523	0.1021	मदनलाल करधाम, सूतपाल, महेन्द्र
				71	112	निजी	बंजर	413.2523	0.1021	तेजपाल सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				132, 150	111	निजी	कृषिक	785.9546	0.1942	भागवान सिंह, देवेन्द्र कुमार, मेरठ पब्लिक स्कूल - ताराचन्द शास्त्री आदि
				74, 137	110	निजी	कृषिक	1011.2588	0.2499	ताराचन्द शास्त्री आदि
				112, 4, 11, 228	108	निजी	कृषिक एवं एन एन	689.6996	0.1704	विजय, तिलकराम, प्रेमसन्, अमरचन्द, राजकुमार, अमरनाथ आदि
				209	152	निजी	कृषिक	312.0073	0.0771	सरदार सिंह
				83	153	निजी	बंजर	414.0976	0.1023	अमरनाथ, राजकुमार, राजपाल, देवेन्द्र कुमार
				82	156	निजी	कृषिक	727.0187	0.1796	धर्मवीर सिंह, ओमप्रकाश, जयप्रकाश आदि
				82, 192	215	निजी	बंजर	885.8853	0.2189	धर्मवीर सिंह, ओमप्रकाश, जयप्रकाश, विपलमोहन त्यागी, मेजर विनित त्यागी आदि
				153	216	निजी	कृषिक	608.2661	0.1503	विकास अग्रवाल, मोहितगरानी
				39, 145, 146, 193, 195, 24	916	निजी	आबादी	220.0626	0.0544	मेहरचन्द, मनोज कुमार, विनोद कुमार, महावीर, जगवीर, उदयवीर, सुनील कुमार, रामजैस, राजकुमार, सुशील कुमार आदि
				288, 265	914	निजी	आबादी	400	0.0988	सतीश कुमार, विनोद कुमार, सुशील कुमार, प्रमोद कुमार, रवि कुमार, रामजैस, हुकूम सिंह
				91	753	निजी	कृषिक	470.8737	0.1164	नरेश कुमार
				89	754	निजी	कृषिक	704.2302	0.1740	सन्तोष कुमार, नरेश कुमार
				101, 244	757	निजी	कृषिक	283.77	0.0701	देश गुप्ता, भागवत, जगमत् केला
				91	758	निजी	कृषिक	281.4586	0.0695	नरेश कुमार
				79	760	निजी	कृषिक	108.7226	0.0269	सन्तोष देवी, नरेश कुमार
				248	761	निजी	कृषिक	97.1041	0.0240	शिवराम, साशीर, नरेश कुमार
				91	762	निजी	कृषिक	139.9158	0.0346	नरेश कुमार
				89	764	निजी	कृषिक	86.9104	0.0215	सन्तोष देवी, नरेश कुमार
				229, 48, 53	102	निजी	कृषिक / आबादी	2200	0.5436	विजय पाल, धर्मपाल, सेवाराम, सोमदत्त, गंगासरन आदि
				186, 261	217	निजी	कृषिक	296	0.0731	राकेश कुमार, सुन्दीप कुमार, रामेन्द्र सिंह, आनन्द सिंह, सुधीर, संदीप, सरदार सिंह
				91	763	निजी	कृषिक	124.9219	0.0309	नरेश कुमार
				239	870	निजी	बंजर	104.4843	0.0258	श्यामलाल, सुभाषचन्द, हरिओम आदि
				63	863	निजी	कृषिक	50.3366	0.0124	झन्डू
				156	877	निजी	कृषिक	163.2399	0.0403	मन्शा राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				156	878	निजी	कृषिक	217.1232	0.0537	मन्शा राम
				72	847	निजी	कृषिक	139.9037	0.0346	विनोद कुमार, सिंहल, विकास सिंहल आदि
				237	846	निजी	बंजर	85.9656	0.0212	सम्मल, सतीश कुमार आदि
				159	840	निजी	बंजर	126.4797	0.0313	विजयपाल, दूधचन्द, श्रीमती सुमन
				139, 196	838	निजी	कृषिक	125.9256	0.0311	रामनाथ भूल्लन
				72	837	निजी	कृषिक	81.0193	0.0200	विनोद सिंहल, विकास सिंहल, श्रीमती त्रिपाठी देवी
				96.72	836	निजी	बंजर	32.0369	0.0079	नानू सिंहल, विकास सिंहल, आदि - श्रीमती तिरुपती देवी
				196	835	निजी	बंजर	59.9918	0.0148	राम नाथ
				72	834	निजी	बंजर	257.819	0.0637	विनोद कुमार, विनय कुमार आदि - श्रीमती तिरुपति देवी
				23, 201, 124, 46	115	निजी	कृषिक, आबाद / एनएन	270.7908	0.0669	रामचन्द्र, ब्रह्म सिंह, भीम सिंह, मन्कू कुमार, प्रताप सिंह, राज कर्न, मयरा प्रसाद, ग्रीवर सिंह
				71	114	निजी	कृषिक	204.8396	0.0506	तेजपाल सिंह
				112, 219, 11	108	निजी	कृषिक / एन एन	875.3879	0.2163	विजय, तिलकराम, प्रेमसेन, अमरचन्द, राजकुमार, अमरनाथ आदि
				297	144	निजी	बंजर	375.7487	0.0928	सत्यवती, नरेश मोहन आदि
				161	152	निजी	कृषिक	111.6256	0.0276	सरदार सिंह
				186	218	निजी	कृषिक	240	0.0593	राम मेहर, विरेन्द्र, आनन्द आदि
			(10) इखलासनगर डाकका	124	564	निजी	कृषिक	1894.3819	0.4681	जय प्रकाश मित्तल, चन्द्रप्रकाश मित्तल
				23	554	निजी	कृषिक	1270.1563	0.3139	ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश आदि
				156	553	निजी	बंजर	1201.9356	0.2970	राज कुमार, कृष्ण कुमार आदि
				196	549	निजी	कृषिक	1159.2643	0.2865	विनोद कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार
				187	442	निजी	कृषिक	1598.8677	0.3951	वेदप्रकाश, सिरयेशपाल
				133	434	निजी	कृषिक	1793.2746	0.4431	रचना सिंह, राजवल वर्मा आदि
				53	431	निजी	कृषिक	760.3324	0.1879	कंवरपाल सिंह, राजकुमार, बीज कुमार आदि
				8	429	निजी	बंजर	428.8332	0.1060	अश्विनी कुमार, महावीर, नन्कू आदि
				260	472	सरकारी	एन एन	672.1574	0.1661	-
				157	473	निजी	बंजर	832.0496	0.2056	कृष्णपाल, श्रीपाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				71	475	निजी	कृषिक / आबादी	1326.3872	0.3277	श्रीमती सतवीरी, सत्यप्रकाश, उषारानी, राजीव कुमार, एन एन आदि
				70, 71, 198	479	निजी	बंजर	986.5702	0.2438	जगदीश , जैसवाल
				171	580	निजी	बंजर / आबादी	383.4407	0.0947	राजेन्द्र सिंह, सुनील कुमार आदि
				4	582	निजी	बंजर	410.8631	0.1015	धर्मवीर
				124	564	निजी	कृषिक	511.3074	0.1263	जय प्रकाश, मित्तल, चन्द्र प्रकाश मित्तल
				216	555	निजी	बंजर	345.113	0.0853	अरविन्द कुमार मित्तल आदि
				218, 94	452	निजी	आबादी	382.2982	0.0945	पूनम जैसवाल, सुरेन्द्र सिंह आदि
				26	455	निजी	कृषिक	257.1194	0.0635	ओमपाल सिंह आदि
				52	458	निजी	कृषिक	545.6546	0.1348	घसीराम
				220	459	निजी	कृषिक	199.6197	0.0493	मनोहरलाल, मित्तलसेन आदि
				119	461	निजी	कृषिक	346.5347	0.0856	रवि शंकर, सुशीला देवी, डा० रचना सिंह, सिन्धू
				193	466	निजी	कृषिक	379.997	0.0939	दिनेश कुमार, अशोक कुमार आदि
				8	467	निजी	बंजर	47.1766	0.0117	महावीर, नन्कू, चमनलाल, चावला
				67	468	निजी	बंजर	114.7517	0.0284	जय कृष्ण, महावीर आदि
				8	471	निजी	बंजर	139.4001	0.0344	महावीर, नन्कू, चमनलाल, चावला
				108	477	निजी	बंजर	338.6405	0.0837	महावीर, नन्कू, चमनलाल, चावला
				198	479	निजी	बंजर	325.8175	0.0805	जगदीश, जैसवाल
			(11) नंगलाताशी कासिमपुर	347	856	निजी	कृषिक	1576.1211	0.3895	राकेश सिंह, दिनेश सिंह, दिनेश सिंह, चमन सिंह, राम सिंह, सी एल आर्य आदि
				145, 133, 82	845	निजी	बंजर	600	0.1483	जय प्रकाश, कृष्ण पाल आदि
				257	828	निजी	कृषिक	1271.4465	0.3142	महावीर सिंह आदि
				211	827	निजी	बंजर	1070.0361	0.2644	बुद्धन सिंह
				394	825	निजी	बंजर	220.5306	0.0545	मन्जु अग्रवाल आदि
				592	903	सरकारी	बंजर	3095.4676	0.7649	एम डी ए
				592	906	सरकारी	बंजर	200	0.0494	एम डी ए
				592	908	सरकारी	बंजर	1220	0.3015	एम डी ए
				592	950	सरकारी	बंजर	1039.7306	0.2569	एम डी ए
				592	951	सरकारी	बंजर	420.4912	0.1039	एम डी ए
				592	952	सरकारी	बंजर	439.0146	0.1085	एम डी ए
				592	953	सरकारी	बंजर	462.046	0.1142	एम डी ए
				592	258	सरकारी	बंजर	1998.7582	0.4939	एम डी ए
				592	254	सरकारी	बंजर	1213.449	0.2998	एम डी ए
				592	252	सरकारी	बंजर	739.8777	0.1828	एम डी ए
				592	243	सरकारी	बंजर	2065.8446	0.5105	एम डी ए
				592	242	सरकारी	बंजर	4658.8706	1.1512	एम डी ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				353, 354	173	निजी	आबादी, कोल्ड स्टोरेज	1200	0.2965	मनोहर कोल्ड स्टोरेज, जनरल मिल्स, भगवत सिंह आदि
				66, 356	185	निजी	बंजर / आबादी	420.566	0.1039	नरेशपाल, धर्म सिंह, राजकली आदि
				100, 364, 347	856	निजी	कृषिक	362.6922	0.0896	राकेश सिंह, दिनेश सिंह, चमन सिंह, राम सिंह, सी एल आर्य आदि
				309, 145	846	निजी	बंजर	361.6899	0.0894	जय प्रकाश, धर्मपाल सिंह, रुबी तोमर आदि
				437, 42	844	निजी	आबादी आदि	354.867	0.0877	सुनीठा, सुमित्रा देवी, प्रियंका, श्रीमती बाला
				257	828	निजी	कृषिक	333.7339	0.0825	महावीर सिंह आदि
				211	827	निजी	बंजर	200.2354	0.0495	बघन सिंह
				538, 519, 563	894	निजी	बंजर	56.611	0.0140	मंगेते, ओमपाल, रामपाल, सुभारती, रानी आदि
				316	902	निजी	कृषिक	328.9728	0.0813	रंजीत सिंह
				592	905	सरकारी	बंजर	367.1764	0.0907	एम डी ए
				592	908	सरकारी	बंजर	282.868	0.0699	एम डी ए
				592	950	सरकारी	बंजर	170	0.0420	एम डी ए
				592	951	सरकारी	बंजर	180	0.0445	एम डी ए
				592	952	सरकारी	बंजर	200	0.0494	एम डी ए
				592	953	सरकारी	बंजर	269.113	0.0665	एम डी ए
				592	954	सरकारी	बंजर	129.3863	0.0320	एम डी ए
				592	976	सरकारी / एन एन एवं निजी	बंजर	79.1677	0.0196	जय दयाल, एम डी ए, कबीरस्थान
				592	258	सरकारी	बंजर	404.4583	0.0999	एम डी ए
				592	254	सरकारी	बंजर	315.664	0.0780	एम डी ए
				592	240	सरकारी	बंजर	691.4544	0.1709	एम डी ए
				419	187	निजी / सरकारी	बंजर	319.7991	0.0790	सुरेन्द्र कुमार आदि
				66, 356	185	निजी	बंजर	910	0.2249	नरेशपाल, धर्मपाल सिंह, राजकली आदि
				596	184	रेलवे	बंजर	74.3194	0.0184	
				262	183	निजी	बंजर	1693.4503	0.4184	नामचन्द आदि
			(12) दंतल	124, 139	3	निजी	कृषिक	748.951	0.1851	राकेश कुमार, वेद प्रकाश आदि
				162	1/1	निजी	आबादी	761.6134	0.1882	सतेन्द्र सिंह, विजय कुमार आदि
				118	11	निजी	कृषिक	6.2726	0.0015	हरवीर सिंह, मलखान सिंह, अनिल कुमार, सुनील कुमार आदि
				26, 131	13/1	निजी	आबादी	781.61	0.1931	कमरपाल सिंह, विद्यावती आदि
				182	14	सरकारी	सिलिंग	654.1915	0.1616	सिलिंग
				198, 199	2	निजी	कृषिक	117.5369	0.0290	प्रेमवती आदि
				10	9	सरकारी	बाउन्डी वाल	150.7463	0.0372	सदर वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं अनुसंधान कालिज
				26, 131	13/1	निजी	आबादी	202.3666	0.0500	कमरपाल सिंह, विद्यावती आदि
				160, 131	12/2	निजी	कृषिक	6.2726	0.0015	सुमेन्द्र, भूपेन्द्र आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		सरधना	(1) जटोली	34, 141	376	निजी	कृषिक	785.478	0.1941	राजेन्द्र, कृष्ण कुमार, होराम आदि
				34	377	निजी	कृषिक	54	0.0133	कृष्ण कुमार आदि
				34	381	निजी	कृषिक	669.8364	0.1655	कृष्ण कुमार आदि
				196	382	निजी	कृषिक	641.8204	0.1586	कृष्ण कुमार, होराम आदि
				34, 118, 196, 214	385	निजी	कृषिक	500	0.1235	कृष्ण कुमार, तेजपाल, होराम, कृपाल, सुखवीर सिंह आदि
				201	394	निजी	कृषिक	306.0504	0.0756	होराम आदि
				1, 70	389	निजी	कृषिक	265.287	0.0656	अजब सिंह, धर्मपाल आदि
				1, 70	388 *	निजी	कृषिक	55.9735	0.0138	अजब सिंह, धर्मपाल आदि
				1	390	निजी	कृषिक	380	0.0939	अजब सिंह आदि
				1	411	निजी	कृषिक	208.9084	0.0516	तेजपाल सिंह आदि
				118	410	निजी	कृषिक	271.878	0.0672	तेजपाल आदि
				70, 118	409	निजी	कृषिक	60	0.0148	धर्मपाल, तेजपाल आदि
				142	417	निजी	कृषिक	442.1153	0.1092	राजेन्द्र सिंह आदि
				240	434	निजी	कृषिक	90	0.0222	जयपाल आदि
				131	450	निजी	कृषिक	279.7875	0.0691	महावीर सिंह, ब्रजवीर सिंह आदि
				193	451	निजी	कृषिक	318.1639	0.0786	अनिल मोहन आदि
				2, 4	447	निजी	कृषिक	772.2648	0.1908	राज कुमार, अशोक भग्ना, रुचि जैन, कृपाल सिंह आदि
				128	465	निजी	कृषिक / फैक्ट्री	255.1172	0.0630	मुनी देवी, मै० नालको इडिया प्रा.लि. - आदर्श कुमार आनन्द आदि
				178	472	निजी	कृषिक	270	0.0667	सत्यपाल आदि
				108	470	निजी	कृषिक	221.3079	0.0547	राजेन्द्र कुमार शर्मा आदि
				176	469	निजी	कृषिक	412.8577	0.1020	श्रीमती उषा मलिक आदि
				5	477	निजी	कृषिक	317.5003	0.0785	सैलेन्द्र कुमार, दीपक चौधरी आदि
				70	478	निजी	कृषिक	440.5009	0.1088	हरी कुमार त्यागी, आनन्द स्वरूप आदि
				240	434	निजी	कृषिक	571.7346	0.1413	जयपाल
				18	585	निजी	कृषिक	376.533	0.0930	सोहन पाल आदि
				18	586	निजी	कृषिक	252.7469	0.0625	सोहन पाल आदि
				18	587	निजी	कृषिक	359.1651	0.0887	सोहन पाल आदि
				18	588	निजी	कृषिक	238.7237	0.0590	सोहन पाल आदि
				18	574	निजी	कृषिक	430.9664	0.1065	सोहन पाल आदि
				52	564	निजी	कृषिक	380	0.0939	राजेन्द्र पाल आदि
				52, 78	556	निजी	कृषिक	319.4778	0.0789	अशय सिंह आदि
				78	552	निजी	कृषिक	507.743	0.1255	राजेन्द्र सिंह, नवाब सिंह आदि
				78	746	निजी	कृषिक	444.0997	0.1097	महावीर सिंह, ब्रजवीर, राजेन्द्र सिंह आदि
				78	745	निजी	कृषिक	380	0.0939	महावीर सिंह, ब्रजवीर आदि
				156, 41	1106	निजी	कृषिक	158.2381	0.0391	सत्यपाल, होराम आदि
				42	1105	निजी	कृषिक	956	0.2362	जगमाल, स्वराज आदि
				61	1100	निजी	कृषिक	803.7681	0.1986	जगमाल आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				61	1099	निजि	कृषिक	292.885	0.0724	सुखवीर सिंह, कृष्णपाल, महेन्द्र सिंह, हुकम सिंह, जगमाल आदि
				164, 61	1048	निजि	कृषिक	75	0.0185	महेश कुमार, मिश्रा, अनिल कुमार, सचिन कुमार आदि
				61	1052	निजि	कृषिक	567.9048	0.1403	जयपाल, कुरी देवी, प्रहलाद सिंह, विजय पाल, महेन्द्रपाल, नेपाल, कृष्णपाल, रिषीपाल, महर्षि आदि
				85	1053	निजि	कृषिक	702.7053	0.1736	प्रीतम आदि
				34	377	निजि	कृषिक	181.4358	0.0448	कृष्ण कुमार आदि
				34	379	निजि	कृषिक	99.8498	0.0247	कृष्ण कुमार आदि
				34,41	380	निजि	कृषिक	174.9451	0.0432	कृष्ण कुमार, कृपाल सिंह, सहसरपाल, सोहनवीर, जितेन्द्र, वीर सिंह आदि
				34,118	385	निजि	कृषिक	107.4731	0.0266	तेजपाल, कृष्ण कुमार, कृपाल सिंह, सहसरपाल, सोहनवीर, जितेन्द्र, वीर सिंह
				34	386	निजि	कृषिक	341.5418	0.0844	अरूण कुमार, कृष्ण कुमार, शम्भुदयाल, शैलेन्द्र कुमार, रमन प्रकाश आदि
				170	388	निजि	कृषिक	178.6034	0.0441	अजब सिंह, धर्मपाल आदि
				67	413	निजि	कृषिक	167.7559	0.0415	धर्मपाल सिंह, सरला, विजय प्रताप, रवि प्रताप आदि
				181	414	निजि	कृषिक	35.3955	0.0087	विकास आदि
				117	423	निजि	कृषिक	30	0.0074	श्रीमती वीना, भूटानी, हरप्रसाद भूटानी आदि
				117	422	निजि	कृषिक	77.3978	0.0191	योगेश, राकेश, विनोद, माता रानी आदि
				66	421	निजि	कृषिक	114.1975	0.0282	दीपक जैन आदि
				169	442	निजि	कृषिक	135.9441	0.0336	अनिल कुमार, अरविन्द कुमार, सजय कुमार आदि
				162	467	निजि	कृषिक	242.0331	0.0598	कुसुम लता, राम स्वरूप आदि
				91	637	निजि	कृषिक	118.6248	0.0293	राजेन्द्र आदि
				149	638	निजि	कृषिक	22.3362	0.0055	रनवीर सिंह, कलावती, मलखान सिंह आदि
				61	639	निजि	कृषिक	93.7005	0.0232	श्रीमती कृष्णा, भापाल सिंह, जयपाल आदि
				27	644	निजि	कृषिक	65	0.0161	श्रीमती कृष्णा, घोपाल सिंह आदि
				61	632	निजि	कृषिक	102.5679	0.0253	राजेश कुमार, जयपाल आदि
				51	590	निजि	कृषिक	130.109	0.0321	सरदार सिंह आदि
				117	593	निजि	कृषिक	70	0.0173	डा० सतेन्द्रपाल सिंह, मनीन्द्रपाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				117	592	निजि	कृषिक	84.2086	0.0208	डा. सतेन्द्रपाल सिंह, मनीन्द्रपाल
				78	571	निजि	कृषिक	104.1659	0.0257	अक्षय सिंह आदि
				78	567	निजि	कृषिक	2.3361	0.0006	अक्षय सिंह आदि
				78	554	निजि	कृषिक	91.9844	0.0227	अक्षय सिंह आदि
				65	741	निजि	कृषिक	148.4343	0.0367	महावीर, ब्रजवीर, राजेन्द्र सिंह, ब्रजवीर सिंह
				141	992	निजि	कृषिक	180	0.0445	रोहित, गजेन्द्र, कुलदी देवी आदि
				61	1105	निजि	कृषिक	356.0576	0.0880	जगमाल, स्वराज आदि
				44	997	निजि	कृषिक	64	0.0158	धरन सिंह आदि
				44	996	निजि	कृषिक	130.148	0.0322	धरन सिंह आदि
				44	995	निजि	कृषिक	100	0.0247	धरन सिंह आदि
				61	1046	निजि	कृषिक	60	0.0148	जयपाल आदि
				35	1735	निजि	कैकरी	178.4985	0.0441	गुरुबख्त लाल कैकरी
				57	1737	निजि	कृषिक	1054.7778	0.2606	जयपाल आदि
				57	1738	निजि	बंजर	313.7167	0.0775	कुमार अनिता
				57	1739	निजि	कृषिक	1794.218	0.4433	जयपाल आदि
				57	1740	निजि	कृषिक	51.603	0.0128	जयपाल आदि
				57	1749	निजि	कृषिक	801.2203	0.1980	जयपाल, सुमिया महेश्वरी, अल्का महेश्वरी, दुश्मन्त सिंह, जितेन्द्र शर्मा आदि
				57	1748	निजि	कृषिक	1198.0401	0.2960	जयपाल
				57	1747	निजि	कृषिक	211.3626	0.0522	जयपाल
				118	1755	निजि	कृषिक	1224.6298	0.3026	तेजपाल, महेन्द्र आदि
				57	1756	निजि	कृषिक	862.598	0.2131	जयपाल
				119	1760	निजि	कृषिक	2252.5546	0.5566	महेन्द्र
				57	1757	निजि	कृषिक	313.8464	0.0776	जयपाल
				57	1759	निजि	कृषिक	1187.6652	0.2935	महेन्द्र
				121	1634	निजि	कृषिक	1187.5907	0.2934	कृपाल सिंह आदि
				121	1633	निजि	कृषिक	1095.3018	0.2706	महेन्द्र आदि
				119	1635	निजि	कृषिक	16.8569	0.0042	महेन्द्र आदि
				119	1768	निजि	कृषिक	566.198	0.1399	अमरपाल, धर्मपाल, महेन्द्र, बाबूराम आदि
				33, 28	1769	निजि	कृषिक	1193.6314	0.2949	अमरपाल आदि, राहुल आदि
				121	1632	निजि	कृषिक	929.2436	0.2296	किरत सिंह आदि
				33	1770	निजि	कृषिक	251.2885	0.0621	गिरिराज, आदि राजवीर सिंह, आदि, रामवीर, आदि, अमित कुमार, आदि और गौरव कुमार आदि
				12, 18, 22	1502	निजि	कृषिक	360	0.0890	अजब सिंह, ओमप्रकाश, गिल्ली सिंह, जय भगवान, सेवाराम, श्याम सिंह आदि
				162	1503	निजि	कृषिक	531.7078	0.1314	रामस्वरूप आदि
				12	1498	निजि	कृषिक	480.3874	0.1187	अजब सिंह आदि
				1, 162	1504	निजि	कृषिक	562.4492	0.1390	अजब सिंह, रामस्वरूप आदि
				1, 117	1497	निजि	कृषिक	582.4561	0.1439	योगेश कुमार, आदि और अजब सिंह आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1, 162	1505	निजि	कृषिक	619.3649	0.1530	अजब सिंह, रामस्वरूप आदि
				1,117	1495	निजि	कृषिक	945.1189	0.2335	योगेश कुमार, आदि और अजब सिंह आदि
				1, 162	1510	निजि	कृषिक	1947.1293	0.4811	अजब सिंह, रामस्वरूप आदि
				1	1494	निजि	कृषिक	371.3575	0.0918	अजब सिंह आदि
				1, 162	1511	निजि	कृषिक	1999.7332	0.4941	अजब सिंह, रामस्वरूप आदि
				162	1516	निजि	कृषिक	1352.1732	0.3341	रामस्वरूप आदि
				106	1513	निजि	कृषिक	1285.0491	0.3175	रामचन्द्र आदि
				30	1514	निजि	कृषिक	1010	0.2496	विशनपाल आदि
				30	1515	निजि	कृषिक	620.1302	0.1532	विशनपाल आदि
				162	1517	निजि	कृषिक	383.2047	0.0947	विशनपाल आदि
				17	1032	निजि	कृषिक	1030.337	0.2546	विशनपाल, रामस्वरूप आदि
				17	1033	निजि	कृषिक	1195.186	0.2953	ईमना कुमार आदि
				17	1034	निजि	कृषिक	14.4634	0.0036	ईमना कुमार आदि
				241, 153, 22	1058	निजि	कृषिक	63.1623	0.0156	अंकीत कुमार, आदि एवं राजवीर आदि - जयपाल आदि
				17	1057	निजि	कृषिक	956.7716	0.2364	ईमना कुमार आदि
				17	1056	निजि	कृषिक	2090.6354	0.5166	ईमना कुमार आदि
				17	1035	निजि	कृषिक	121.1693	0.0299	ईमना कुमार आदि
				17, 79, 88	1069	निजि	कृषिक	28.3313	0.0070	ईमना कुमार आदि, देवन्द्र कुमार, आदि, धीप्सी एसीसिएट - प्रताप कुमार
				17	1055	निजि	कृषिक	1129.5531	0.2791	ईमना कुमार आदि
				85	1053	निजि	कृषिक	1000	0.2471	प्रीतम आदि
				85	1054	निजि	कृषिक	940	0.2323	प्रीतम आदि
				189, 192	1052	निजि	कृषिक	1098.5708	0.2715	जयपाल, क्रीति देवी, प्रहलाद सिंह, विजय पाल, महेन्द्रपाल, नेपाल, कृष्णपाल, ऋषिपाल, महर्षि पाल आदि
			(2) रौशनपुर डोरली	2, 102, 132	149	निजि	बंजर	81.0121	0.0200	शहर प्राधिकरण, भारत नगर काम्पलेक्स, मेरठ - इन्द्रपाल आदि
				10	60	निजि	कृषिक	141.7439	0.0350	अक्षयपुरम, सिद्धारी आवास समिति - सुनील कुमार गुप्ता, स्नातलाल गुप्ता
				2	65	निजि	कृषिक	56.9454	0.0141	आथा सिंह, तारा सिंह आदि
				2	63	निजि	कृषिक	150	0.0371	आथा सिंह, तारा सिंह आदि
				2	62	निजि	कृषिक	100	0.0247	आथा सिंह, तारा सिंह आदि
				2	61	निजि	कृषिक	312.4876	0.0772	आथा सिंह, तारा सिंह आदि
				325	29	निजि	कृषिक	254.7889	0.0630	स्वरूप सिंह आदि
				325	30	निजि	कृषिक	30	0.0074	विवेक व्यान, कुशलपाल आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				325, 215	28	निजि	कृषिक	430.2213	0.1063	रघुवीर आदि
				215	27	निजि	कृषिक	431.2679	0.1066	रघुवीर आदि
				215	26	निजि	कृषिक	396.8275	0.0981	रघुवीर आदि
				324	13	निजि	कृषिक	174.1334	0.0430	सहदेव आदि
				324	14	निजि	कृषिक	118.3323	0.0292	जी वी सी हाइटैक लि०
				18, 81	16	निजि	कृषिक	930.8648	0.2300	सहदेव, इन्दू त्रिवेदी, जी वी सी हाइटैक
				8, 60, 330	221	निजि	कृषिक	250	0.0618	अजय कुमार, कृष्ण कुमार आदि
				330	222	निजि	कृषिक	583.9603	0.1443	सविता आदि
				330	223	निजि	कृषिक	121.0818	0.0299	सविता आदि
				228, 422, 224	219	निजि	कृषिक	404.023	0.0998	रोशनलाल आदि
				224	189	निजि	कृषिक	947.1292	0.2340	रोशनलाल आदि
				224	191	निजि	कृषिक	550	0.1359	रोशनलाल आदि
				237, 248, 246	165	निजि	बंजर	650	0.1606	राजेन्द्र कुमार, रनवीर सिंह, श्रीमती शान्ति देवी आदि
				114, 260, 235	164	निजि	कृषिक	202.5076	0.0500	नरदेव, रामदेव, वासुदेव, सोमदेव, सत्यप्रकाश आदि
				102, 132, 325	149	निजि	बंजर	631.8417	0.1561	शहर प्राधिकरण, भारत नगर काम्प्लेक्स, मेरठ - इन्द्रपाल आदि
				2	68	निजि	कृषिक	151.3398	0.0374	बलवीर कौर आदि
				2	70	निजि	कृषिक	174.9076	0.0432	बलवीर कौर आदि
				215	23	निजि	कृषिक	143.0108	0.0353	रघुवीर, आदि
				215	22	निजि	कृषिक	365.7724	0.0904	सहदेव, रघुवीर, हरबन्श, आदि
				348, 58, 376, 378	21	निजि	कृषिक	233.1343	0.0576	भागवत सिंह, राज कुमार, राजेन्द्र कुमार आदि
				29, 324, 103	20	निजि	कृषिक	239.0985	0.0591	उषा ग्रह, महेन्द्रपाल, अमन सिंह, सहदेव, आदि
				29, 146, 163	19	निजि	कृषिक	538.4929	0.1331	उषा ग्रह, महेन्द्रपाल, अमन सिंह, सहदेव, आदि
				128, 9, 329, 18	18	निजि	कृषिक	655.8014	0.1620	अब्दुल नाजिद, इन्दू त्रिवेदी, प्रताप कुमार, स्वातिक इकबाल आदि
			(3) सिपाया जमालपुर	217, 16	754	निजि	कृषिक	253.0377	0.0625	अमर सिंह, सुखवीर, कुलदीप, आदि
				183	756	निजि	कृषिक	148.3039	0.0366	संजय कुमार, सदीप कुमार
				451	837	निजि	ग्राम सभा	1245.1906	0.3077	-
				182	757	निजि	कृषिक	152.5469	0.0377	संजय कुमार, प्रदीप कुमार, जगदीश, आदि
				161	758	निजि	कृषिक	53.2154	0.0131	संजय, प्रदीप, आदि
				192	838	निजि	कृषिक	1091.5531	0.2697	विजय पाल सिंह, विशन सिंह, आदि
				109	759	निजि	कृषिक	417.1657	0.1031	सत्यपाल सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, आदि
				231	839	निजि	कृषिक	528.56	0.1306	सुखवीर सिंह, सुरेन्द्रपाल सिंह, आदि
				305	840	निजि	कृषिक	108.137	0.0267	विकारी, आदि
				159	841	निजि	कृषिक	470	0.1161	छतरपाल सिंह, कृष्णपाल सिंह, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				103	842	निजि	कृषिक	104.2794	0.0258	नवाब सिंह, आदि
				109	762	निजि	कृषिक	115.7266	0.0286	बलवीर सिंह, आदि
				452	763	सरकारी	ग्राम सभा / शमशान घाट	181.0642	0.0447	
				305	843	निजि	कृषिक	188.719	0.0466	बिकारी, आदि
				103	844	निजि	कृषिक	640.3185	0.1582	निवासी, आदि
				212	765	निजि	कृषिक	103.0193	0.0255	सुभाषा, विजयपाल सिंह, आदि
				109	766	निजि	कृषिक	166.6677	0.0412	बलवीर सिंह, आदि
				133	724	निजि	कृषिक	82.0428	0.0203	मै० कविता स्टील प्रा०लि०
				133	723	निजि	कृषिक	205.3177	0.0507	मै० कविता स्टील प्रा०लि०
				48, 214	845	निजि	कृषिक	1959.6626	0.4842	जय विन्दर सिंह, श्रीमती हुकूम, आदि
				133	720	निजि	कृषिक	38.5656	0.0095	मै० कविता स्टील प्रा०लि०
				143, 59	719	निजि	कृषिक	233.6045	0.0577	रलोब लैब लि०, - बालकृष्णो
				48, 224	847	सरकारी	कृषिक	48.2794	0.0119	जय विन्दर सिंह, सरदार सिंह, आदि
				122	561	निजि	कृषिक	250.9849	0.0620	बारो, आदि
				122	560	निजि	कृषिक	72.8324	0.0180	बारो, आदि
				122	558	निजि	कृषिक	390.3009	0.0964	बारो, आदि
				208	538	निजि	कृषिक	2.8293	0.0007	मनोज कुमार, गुरुदत्त, आदि
				85	922	निजि	कृषिक	1199.1688	0.2963	श्रीमती त्रिवेदी देवी, आदि
				119	531	निजि	कृषिक	252.2367	0.0623	हरवीर, आदि
				343, 240, 239	938	निजि	स्कूल/बंजर	525.3643	0.1298	हरवीर, आदि
				239, 240	939	निजि	कृषिक	427.1478	0.1055	हरवीर सिंह, आदि
				119	530	निजि	कृषिक	142.0831	0.0351	वामुदेव, अखलेस, आदि
				196	529	निजि	कृषिक	200.7782	0.0496	विजय पाल सिंह, विशन सिंह, आदि
				12, 210	525	निजि	कृषिक	24.3637	0.0060	शकुन्तला देवी, मै० अमरदीप स्टील प्रा०लि०
				12	527	निजि	आबादी	378.8493	0.0936	अमरदीप स्टील प्रा०लि०, आदि
				70	941	निजि	कृषिक	680.5121	0.1682	गिली सिंह, आदि
				70	942	निजि	कृषिक	598.301	0.1478	गिली सिंह, आदि
				239, 240	939	निजि	कृषिक	44.6118	0.0110	हरवीर सिंह, आदि
				61	943	निजि	कृषिक	758.7471	0.1875	गुलवीर सिंह, आदि
				442	944	निजि	आबादी	558.203	0.1379	ग्राम आबादी
				29, 151	976	निजि	कृषिक	800	0.1977	ओमवीरपाल सिंह, योगेन्द्रपाल सिंह, अनिल कुमार, आदि
				442	504	निजि	आबादी	870.2632	0.2150	ग्रामीण आबादी
				21	1251	निजि	कृषिक	296.9907	0.0734	आशो कुमार, राज कुमार, आदि
				20	1252	निजि	कृषिक	163.2761	0.0403	अरविन्द कुमार, आदि
				97	303	निजि	कृषिक	1452.8331	0.3590	नवीन अग्रवाल, आदि
				163, 198	302	निजि	बंजर	855.7226	0.2114	विद्या टेक्नालोजी प्रा०लि० - श्रीमती श्रीमती अमरथा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				360, 208	1406	निजि	कृषिक	471.75	0.1166	रामदत्त, किरधराम, आशाराम आदि
				198, 55, 124	298	निजि	कृषिक	2038.5559	0.5037	कुलवीर सिंह, श्रीमी विमला, विद्या टेक्नोलोजी प्रा0लि0 आदि
				55	297	निजि	कृषिक	617.2553	0.1525	कुलवीर सिंह, आदि
				29	262	निजि	कृषिक	894.707	0.2211	ओमपाल सिंह, आदि
				174, 128	1404	निजि	कृषिक	270.582	0.0669	श्रीमती ब्रिजेश कुमारी, योगेन्द्र सिंह, आदि
				29, 83	261	निजि	कृषिक	412.297	0.1019	टाइटन बैटरीज प्रा0लि0 - मै0 शशि मिल्लत, आदि
				83	260	निजि	कृषिक	791.848	0.1957	टाइटन बैटरीज प्रा0लि0 - मै0 शशि मिल्लत, आदि
				19	259	निजि	कृषिक	589.8996	0.1458	अनिल कुमार, रविन्द्र कुमार, आदि
				326	258	निजि	कृषिक	289.5874	0.0716	वेदपाल, मोमराज, आदि
				122, 88	257	निजि	कृषिक	904.6436	0.2235	तेजपाल सिंह, आदि
				233	1415	निजि	कृषिक	164.6647	0.0407	सुखपाल सिंह, सी आनन्द आदि
				233	1416	निजि	कृषिक	142.7729	0.0353	सुखपाल सिंह, सी आनन्द आदि
				233	1417	निजि	कृषिक	189.481	0.0468	सुखपाल सिंह, सी आनन्द आदि
				113	1418	निजि	बंजर	15.3175	0.0038	विजेन्द्र कुमार, कृष्णा कुमार, आदि
				113	1419	निजि	बंजर	47.6879	0.0118	विजेन्द्र कुमार, कृष्णा कुमार, आदि
				221, 115	1421	निजि	कृषिक	96.5494	0.0239	श्रीमती सन्तोष कुमारी, आदि
				46, 122	256	निजि	कृषिक	579.2246	0.1431	श्रीमती कमलेश चड्ढा, आदि
				222	254	निजि	कृषिक	156.7106	0.0387	सुरेन्द्र जैन, आदि
				222	253	निजि	कृषिक	327.0554	0.0808	सुरेन्द्र जैन, आदि
				222, 141	252	निजि	कृषिक	1293.2063	0.3195	सुरेन्द्र जैन, आदि
				17, 115	1422	निजि	कृषिक	169.2284	0.0418	अनिल कुमार, आदि
				143, 17, 427	1495	निजि	कृषिक	44.0294	0.0109	अनिल कुमार, आदि
				143, 126, 142, 190	1496	निजि	कृषिक	374.5544	0.0926	मनीष कुमार, लफ्तनन्त विश्वामित्र, श्रीमती शोभा धवन, महावीर सिंह, आदि
				143	1497	निजि	कृषिक	124.7358	0.0308	महावीर सिंह, सुखवीर सिंह, आदि
				143	1498	निजि	कृषिक	60.4052	0.0149	महावीर सिंह, सुखवीर सिंह, आदि
				84, 21	251	निजि	कृषिक	581.5827	0.1437	डिलाइट रेजस प्रा0लि0, अशोक कुमार, आदि
				105, 149, 21	250	निजि	कृषिक	990.7517	0.2448	नीरज गोयल, धीरज गोयल, आदि
				170	247	निजि	कृषिक	640.5847	0.1583	रनवीर सिंह, जगवीर सिंह, आदि
				148	245	निजि	कृषिक	440.3648	0.1088	रूपेश कुमार, हरीश कुमार, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				227	244	निजि	कृषिक	1598.6219	0.3950	सहन्धरपाल, इन्द्रपाल, आदि
				28	1499	निजि	कृषिक	313.2882	0.0774	ओमप्रकाश, आदि
				134	1501	निजि	कृषिक	219.8962	0.0543	महावीर सिंह, आदि
				134	1502	निजि	कृषिक	132.7886	0.0328	महावीर सिंह, आदि
				134, 21	1503	निजि	कृषिक	298.0151	0.0736	महावीर सिंह, आदि
				70	243	निजि	कृषिक	1121.3334	0.2771	गिली सिंह, आदि
				1	239	सरकारी	कृषिक	2882.2077	0.7122	कृषिक कार्यालय
				134	1504	निजि	कृषिक	166.981	0.0413	महावीर सिंह, आदि
				26	1510	निजि	कृषिक	111.2696	0.0275	ईश्वर दयाल, आदि
				26	1511	निजि	कृषिक	45.9052	0.0113	ईश्वर दयाल, आदि
				26, 197	1512	निजि	कृषिक	52.6531	0.0130	ईश्वर दयाल, आदि और विजय कुमार, आदि
				197, 214, 186	1513	निजि	कृषिक	142.8946	0.0353	राहुल कुमार, विजय कुमार, सलेखचन्द, आदि
				1	238	सरकारी	कृषिक	769.1846	0.1901	कृषिक कार्यालय
				1	237	सरकारी	कृषिक	615.0266	0.1520	कृषिक कार्यालय
				186, 162, 197	1514	निजि	कृषिक	99.1193	0.0245	श्रीमती राजरानी, राहुल कुमार, विजय कुमार, आदि
				161, 136, 162, 215	1515	निजि	कृषिक	212.6179	0.0525	मनोज कुमार, श्री राजरानी, मन्जु गुप्ता, संजय अग्रवाल, आदि
			(4) मुकारबपुर फ्लेरा	91, 51	85	निजि	बंजर	393.12	0.0971	दीपक हाउसिंग सोसाइटी, आदि
				207, 208	79	निजि	आबादी	88.62	0.0219	विनोद, हरफुल, मोदी रबर इन्डस्ट्रीज
				92, 149	59	निजि	बंजर	163.2	0.0403	देवकरन, महेन्द्रपाल शर्मा, आदि
				4	58	निजि	कृषिक	120.22	0.0297	आथर सिंह, थारा सिंह, आदि
				58, 177	55	निजि	कृषिक	31.54	0.0078	श्रीमती चमेली, रवि कुमार, सिंहल, आदि
				59, 73	54	निजि	कृषिक	298.02	0.0736	छन्नो देवी, जवाहरलाल, आदि एवं मोदी रबर इन्ड. प्रा० लि०
				106	461	निजि	कृषिक / फैक्ट्री	251.69	0.0622	निर्मल नाथ, आदि - एम डी ए
				312	459	सरकारी	बंजर	141.51	0.0350	
				312	361	सरकारी	बंजर	410.48	0.1014	एम डी ए
				312	360	सरकारी	बंजर	11.45	0.0028	एम डी ए
			(5) दौराला	573	2002	निजि	कृषिक	1122.5	0.2774	राम मेहर सिंह, आदि
				284	1999	निजि	कृषिक	378.78	0.0936	हरकिशोर गुप्ता, अतुल कुमार, आदि
				42	1996	निजि	कृषिक	497.1	0.1228	सत्यपाल सिंह, विजय कुमार, आदि
				738	1991	निजि	कृषिक	428.33	0.1058	सुनील कुमार, आदि
				189	1990	निजि	कृषिक	466.91	0.1154	छतरपाल सिंह, मेहरपाल सिंह, आदि
				739	1989	निजि	कृषिक	447.17	0.1105	सुरज मल, आदि
				555	1987	निजि	कृषिक	296.88	0.0734	रमेश सिंह, राज नारायण सिंह, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				522	1986	निजि	कृषिक	258.82	0.0640	मन्धाटा, बलराम सिंह, आदि
				554	1985	निजि	कृषिक	330.57	0.0817	श्रीमती दुर्गा वर्मा, आदि
				634	1972	निजि	कृषिक	349.87	0.0865	हरमीत सिंह, श्रीमती सुनिता गुप्ता, विनित, आदि
				634	1970	निजि	कृषिक	536.06	0.1325	विनित, आदि
				345	1969	निजि	कृषिक	827.61	0.2045	हरमीत सिंह, आदि
				670	1967	निजि	कृषिक	1298.42	0.3208	प्रमोद कुमारी, आदि
				23	1917	निजि	कृषिक	475.54	0.1175	अनिल कुमार, दीपा अग्रवाल, अनिता गुप्ता, आदि
				139	1916	निजि	कृषिक	256.97	0.0635	सुनील कुमार, आदि
				189	1912	निजि	कृषिक	551.01	0.1362	छतरपाल सिंह, आदि
				54	1911	निजि	कृषिक	223.39	0.0552	इन्द्रपाल सिंह, विजेन्द्र सिंह, आदि
				587	1909	निजि	कृषिक	445.37	0.1100	राजेन्द्र सिंह, जनक सिंह, आदि
				585	1908	निजि	कृषिक	220.47	0.0545	राज कुमार सिंह, आदि
				430	1897	निजि	कृषिक	603.22	0.1491	अजेन्द्र सिंह, जनकसिंह, आदि
				430	1895	निजि	कृषिक	692.15	0.1710	भोपाल सिंह, आदि
				247	1741	निजि	कृषिक	190.4	0.0470	जसवीर सिंह, सत्यवीर सिंह आदि
				816	1739	निजि	कृषिक	223.54	0.0552	हरवंश, आदि
				795	1738	निजि	नारंग	34.09	0.0084	ब्रजपाल सिंह, मेपाल सिंह, आदि
				795, 817	1737	निजि	कृषिक	172.53	0.0426	ब्रजपाल सिंह, मेपाल सिंह, आदि
				224	1760	निजि	कृषिक	253.53	0.0626	जितेन्द्रनाथ गायेल, आदि
				549	1735	निजि	कृषिक	481.1	0.1189	रामचरन तिलकराम, आदि
				549	1734	निजि	कृषिक	169.14	0.0418	रामचरन तिलकराम, आदि
				161,303, 114, 306, 328, 395, 396, 688	1733	निजि	कृषिक	803.41	0.1985	धर्मवीर सिंह, अशोक कुमार, आदि
				161,303, 114, 307	1733	निजि	कृषिक	561.32	0.1387	धर्मवीर सिंह, अशोक कुमार, आदि
				10, 8, 3,709, 710	1727	निजि	आबादी	68.58	0.0169	अनिल कुमार, अरविन्द कुमार, अमन सिंह, आदि
				10	1726	निजि	आबादी	90	0.0222	अरविन्द कुमार, आदि
				10	1724	निजि	आबादी	160	0.0395	अरविन्द कुमार, आदि
				9	1723	निजि	आबादी	130	0.0321	अशोक कुमार, आदि
				10	1722	निजि	आबादी	180	0.0445	अरविन्द कुमार, आदि
				980	1721	निजि	आबादी	108	0.0267	गुजर मिल
				987	1713	सरकारी	ग्राम सभा	262.4368	0.0648	-
				14	1712	सरकारी	ग्राम सभा	290	0.0717	स्कूल
				989	1711	सरकारी	ग्राम सभा	177.1276	0.0438	-
				973	1708	निजि	आबादी	67.07	0.0166	ग्रामीण आबादी
				995	1705	निजि	आबादी	26.41	0.0065	किसान सहकारी, समिति
				704	1702	निजि	आबादी	21.85	0.0054	स्वराज सिंह, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				704,487.4 64	1701	निजि	आबादी	39.63	0.0098	मुस्ताक अहमद, निशार अली, विमल इन्जिनियर कालिज, आदि
				602	1697	निजि	आबादी	24.3	0.0060	शुगर मिल
				985	1429	सरकारी	बंजर	35.85	0.0089	-
				98	1432	निजि	आबादी	151.12	0.0373	दीवान इन्डस्ट्रीज - विद्या शुगर
				735, 214	1435	निजि	आबादी	91.94	0.0227	दीवान इन्डस्ट्रीज - विद्या शुगर
				458	1444	निजि	आबादी	188.2	0.0465	दीवान इन्डस्ट्रीज - विद्या शुगर
				340	1445	निजि	कृषिक	178.14	0.0440	उदयवीर वर्मा, आदि
				241	1446	निजि	कृषिक	143.19	0.0354	जयवीर वर्मा, आदि
				49	1449	निजि	कृषिक	55.12	0.0136	श्रीमती सारीका, शेखर, आदि
				717	1450	निजि	कृषिक	63.56	0.0157	सत्यवीर, आदि
				59	1451	निजि	कृषिक	136.8	0.0338	नितिन आदि
				616	1452	निजि	कृषिक	370.58	0.0916	रामचरन, आदि
				703	1453	निजि	कृषिक	186.58	0.0461	शिवचरन, आदि
				120	1454	निजि	कृषिक	79.89	0.0197	क्रीति सिंह, आदि
				343	1480	निजि	कृषिक	84.1	0.0208	निशान्त, विक्रान्त, आदि
				607, 343	1481	निजि	आबादी	76.28	0.0188	निशान्त, विक्रान्त, होटल मैनेजमेंट - अजय शेखर, आदि
				589, 607	1482	निजि	आबादी	86.01	0.0213	राम कृपाल, आदि
				250	1484	निजि	आबादी	130.95	0.0324	होटल मैनेजमेंट - अजय शंकर, आदि
				236	1485	निजि	आबादी	120.37	0.0297	मै0 इंडियन कार्पोरेशन लि0-कम्पनी
				662	1505	निजि	कृषिक	282.35	0.0698	सुरेन्द्र गुप्ता, मै0 कैलाश डैरी लि0- एम0डी0 विजेन्द्र कुमार, आदि
				604, 583	1506	निजि	कृषिक	541.2	0.1337	किशनलाल, भारद्वाज, राजेन्द्र, सुनील, आदि
				43, 760	1509	निजि	कृषिक	230.59	0.0570	सत्यपाल, आदि
				764, 721, 470	1517	निजि	कृषिक	282.15	0.0697	अजय कुमार, गजेन्द्र सिंह, आदि
				80	1519	निजि	कृषिक /आबादी	305.39	0.0755	दिनेश कुमार, आदि
				538	1535	निजि	कृषिक	121.73	0.0301	सहदेव, आदि
				718	1536	निजि	कृषिक /आबादी	148.44	0.0367	सहदेव, आदि
				223	1537	निजि	कृषिक	185.92	0.0459	नकूल सिंह, आदि
				470	1538	निजि	कृषिक	113.65	0.0281	महेन्द्र सिंह, आदि
				818	1539	निजि	आबादी	85.69	0.0212	वीरसिंह, आदि
				818	1556	निजि	कृषिक	280.65	0.0693	जितेन्द्र सिंह, राजपाल सिंह,
				976	1559	निजि	आबादी	186.91	0.0462	सुनेहरा, आदि
				28	1560	निजि	कृषिक	76.09	0.0188	अजब सिंह, आदि
				474	1561	निजि	बंजर	125.87	0.0311	वरुन कुमार, आदि
				372	1562	निजि	बाग	134.03	0.0331	बदन सिंह, आदि
				372	1563	निजि	कृषिक	94.03	0.0232	बदन सिंह, आदि
				191	1583	निजि	कृषिक	37.79	0.0093	जगपाल सिंह, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				348	1606	निजि	कृषिक/ आबादी	137.18	0.0339	पवन कुमार, धर्मवीर, आदि
				223	1656	निजि	कृषिक	122.06	0.0302	जगवीर सिंह, आदि
				46	1657	निजि	कृषिक/ आबादी	162.79	0.0402	चरनवीर सिंह, आदि
				162	1658	निजि	कृषिक/ आबादी	179.74	0.0444	रविन्द्र सिंह, आदि
				185	1661	निजि	आबादी	68.4	0.0169	जम्बर सिंह, आदि
				90	1667	निजि	आबादी	83.37	0.0206	जितेन्द्र, सतेन्द्र, आदि
				657	1672	निजि	आबादी	144	0.0356	संजीव चौधरी, राजीव चौधरी, श्रीमती विमला देवी, आदि
				196	1673	निजि	आबादी	80	0.0198	जगवीर, हरवीर, आदि
				655, 27, 388, 636	1668	निजि	आबादी	431.51	0.1066	अब्दुल हकीम, ब्रह्मसिंह, विजयपाल, आदि
			(e) माधुर	105	959	निजि	कृषिक	100.28	0.0248	जिलेसिंह, राजकुमार, राजेश्वरी, हरवीर, आदि
				576	945	सरकारी	पुलिस स्टेशन	159.34	0.0394	
				560	944	निजि	आबादी	94.34	0.0233	ग्रामीण आबादी
				260	943	निजि	कृषिक	283.55	0.0701	आनन्द प्रसाद, किशोर कुमार, मदनपाल, विजेन्द्र सिंह, मदन सेन, सतवीर, आदि
				260	942	निजि	कृषिक	157.26	0.0389	ब्रह्मपाल, मूलचन्द, आदि
				567	940	सरकारी	वाटरनरी हॉस्पिटल	110.21	0.0272	
				155	902	निजि	कृषिक	393.49	0.0972	करन सिंह, आदि
				269	900	निजि	कृषिक	107.75	0.0266	बाल सिंह, हरपाल सिंह, आदि
				141	894	निजि	कृषिक	370.9	0.0916	तेजपाल, जगवीर, आदि
				82	893	निजि	कृषिक	412.35	0.1019	गोमती, आदि
				57	890	निजि	कृषिक	228.23	0.0564	लोकेश, विकेश, श्रीमती सन्तोष, आदि
				75	866	निजि	कृषिक	533.12	0.1317	संजय कुमार, नवीन कुमार, अवनीश, राजपाल सिंह, आदि
				219	863	निजि	कृषिक	198.59	0.0491	पुष्कर सिंह, आदि
				69	864	निजि	कृषिक	474	0.1171	ऋषिपाल सिंह, ओमप्रकाश ए.सी. अरोरा, आदि
				451	820	निजि	कृषिक	98.33	0.0243	शरद कुमार, आदि
				405	817	निजि	कृषिक	40.84	0.0101	राजेन्द्र सिंह, आदि
				99	816	निजि	कृषिक	31.79	0.0079	बलेश्वर, नरेन्द्र कुमार, विवेन्द्र कुमार, सुदेश कुमार, आदि
				85	815	निजि	कृषिक	30.36	0.0075	सुभाषा, राजवीर, जसवंत सिंह, शान्ति, आदि
				257	809	निजि	कृषिक	259.49	0.0641	भंवर सिंह, छोटेलाल, राजकुमार, शिव कुमार, मुर्ति देवी, आदि
				550	807	सरकारी	पंचायत कार्यालय	80.53	0.0199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				578	806	सरकारी	गोदाम	97.94	0.0242	-
				560	803	निजि	आबादी	1492	0.3687	ग्रामीण आबादी
				560	792	निजि	आबादी	94.29	0.0233	ग्रामीण आबादी
				560	788	निजि	आबादी	648.69	0.1603	ग्रामीण आबादी
				481	772	निजि	बंजर	874.34	0.2160	सरदार सिंह, आदि
				189	771	निजि	कृषिक	1113.68	0.2752	धर्मपाल, भूपसिंह, रनसिंह, ब्रजभूषण, जबरसिंह, पुष्पेन्द्र, चौहान सिंह, आदि
				461	1366	निजि	आबादी	97.51	0.0241	शिव कुमार, कृष्णपाल, भोजवीर, आदि
				560	1365	निजि	आबादी	46.34	0.0115	ग्रामीण आबादी
				574	1364	सरकारी	गेस्ट हाउस	183.19	0.0453	-
				178	1363	निजि	आबादी	95.36	0.0236	धर्मपाल, जयारानी, रामस्वरूप, आदि
				231	1318	निजि	कृषिक	1255.17	0.3101	प्रदीप, कुलदीप, शिवरानी, जीत सिंह, आदि
				299	1317	निजि	कृषिक	400.98	0.0991	महिपाल सिंह, आदि
				303	1315	निजि	कृषिक	429.08	0.1060	मुकेश, आदि
				466	1314	निजि	कृषिक	1091.53	0.2697	सतवीर सिंह, सतीश, आदि
				63	1264	निजि	आबादी	457.14	0.1130	प्रवेश कुमार, विजय कुमार, आदि
				2	1262	निजि / सरकारी	कृषिक/ पावर ग्रीड	1676.55	0.4143	धनवन्तरी, विरेन्द्र सिंह, पावर ग्रीड, आदि
				2, 326	1255	निजि	कृषिक	788.36	0.1948	छोटेला, महिन्द्र सिंह, आदि
				2, 102	1254	सरकारी	पावर ग्रीड	450	0.1112	पावर ग्रीड, आदि
				2, 372	1253	निजि	कृषिक	999.28	0.2469	गजेन्द्रपाल सिंह, श्रीमती विद्या, आदि
				176	1252	निजि	कृषिक	726.85	0.1796	धर्मपाल सिंह, आदि
				562	1159	सरकारी	प्राइमरी स्कूल	660.29	0.1632	-
				411	1158	निजि	रेस्ट हाउस	146.81	0.0363	प्राधिकरण रामदेव
				133	1153	निजि	आबादी	24.89	0.0062	सुखवीर सिंह, आदि
				564	1151	निजि	मन्दिर	70.09	0.0173	जी एस
				411	1143	निजि	कृषिक	95.31	0.0236	रामरतन, राम गोपाल, अमर सिंह, धर्म सिंह, पुष्कर सिंह, आदि
				155	1117	निजि	आबादी	21.8	0.0034	धान सिंह, आदि
				520	1114	सरकारी	रोड	14.46	0.0036	-
				207	1112	निजि	कृषिक	85.27	0.0211	प्रकाशी, आदि
				560	1111	निजि	आबादी	405.5	0.1002	ग्राम आबादी
				36	1107	निजि	कृषिक	53.92	0.0133	ओमपाल, मयंक सिंह, सुशील, आदि
				554	969	सरकारी	पंचायत कार्यालय / घलब	204.72	0.0506	-
				580	968	सरकारी	रोड	32	0.0079	-
				144	961	निजि	कृषिक	174.96	0.0432	रजनीश, वेदवीर सिंह, सुशील कुमार, आदि
				145	960	निजि	कृषिक	180.1009	0.0445	महीपाल, धर्मपाल, विरेन्द्र सिंह, सत्यवीर, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				105	959	निजि	कृषिक	117.39	0.0290	जिले सिंह, राज कुमार, राजेश्वरी, हरवीर, आदि
				480	953	निजि	कृषिक	201.7	0.0498	सुखवीर, आदि
				37	952	निजि	कृषिक	152.28	0.0376	ओमपाल, आदि
			(7) बालिदपुर	223	231	निजि	कृषिक	1341.2	0.3314	शिवपाल, आदि
				7	222	निजि	कृषिक	2372.84	0.5863	अनूप सिंह, आदि
				6	201	निजि	कृषिक	997.96	0.2466	अजयपाल, गजेन्द्र सिंह, जगत सिंह, गजराज सिंह, आदि
				199	200	निजि	कृषिक	246.75	0.0610	लाजपत सिंह, आदि
				164	199	निजि	कृषिक	285.39	0.0705	योगेन्द्रपाल, आदि
				205	183	निजि	कृषिक	223.64	0.0553	विरेंद्रपाल, आदि
				229	177	निजि	कृषिक	426.24	0.1053	सतवीर, आदि
				224	179	निजि	कृषिक	100	0.0247	सरनवीर, आदि
				224	176	निजि	कृषिक	537.73	0.1329	सरनवीर, आदि
				224	174	निजि	आबादी	237.83	0.0588	सरनवीर, आदि
				263	173	निजि	आबादी	739.7	0.1828	हसीम, शमशुद्दीन, रविन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, गौरव, प्रशान्त, आदि
				65	160	निजि	आबादी	818.58	0.2023	जगदीश, आदि
				55	159	निजि	कृषिक	677.14	0.1673	चमन सिंह, हरवंश, महेन्द्र सिंह, आदि
				55	156	निजि	कृषिक/आबादी	540.73	0.1336	चमन सिंह, राजवीर, राजकुमार, पवन, सुनील कुमार, अनिल कुमार, अमित कुमार, सुशील कुमार, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, आदि
				270	155	निजि	आबादी	668.33	0.1651	ग्रामीण आबादी
				165	146	निजि	कृषिक	1969.77	0.4867	यशवीर, अश्वनी कुमार, आदि
				97	143	निजि	कृषिक	759.29	0.1876	देवेन्द्र, नरेन्द्र, सुशान्त, स्नेहलता, आदि
				69	141	निजि	कृषिक	1838.44	0.4543	रविन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, ईदरीश, जितेन्द्र पाल, आदि
				135	139	निजि	कृषिक	1771.72	0.4378	गौरव, प्रशान्त कुमार, अर्जुन, अंशुल, अक्षय कुमार, आदि
				73	131	निजि	कृषिक	1118.26	0.2763	जफर अख्तर, कुमार, अख्तर, आदि
				73	130	निजि	कृषिक	269.89	0.0667	जफर अख्तर, कुमार, अख्तर, आदि
				15	129	निजि	कृषिक	372.86	0.0921	इरशाद, आदि
				15	128	निजि	कृषिक	334.78	0.0827	इरशाद, आदि
				73	127	निजि	कृषिक	767.83	0.1897	जफर अख्तर, कुमार, अख्तर, आदि
				83, 46, 133	541	निजि	कृषिक	150.82	0.0373	किरण सिंह, हुकम सिंह, वीर सिंह, जय सिंह, ब्रह्म सिंह, मोहन लाल, सुरेन्द्र, आदि
				12	539	निजि	कृषिक	60.54	0.0150	अमर दास, आदि
				134	538	निजि	कृषिक	39.93	0.0099	बहादुर, नरेश, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				142	537	निजि	कृषिक	144.09	0.0356	जिले सिंह, आदि
				96	536	निजि	कृषिक	24.22	0.0060	देवेन्द्र, नरेन्द्र, यशवीर, सतवीर, अश्वनी कुमार, सुशान्त, स्नेहलता, आदि
				128	534	निजि	कृषिक	123.58	0.0305	विक्रम, आदि
				50	533	निजि	कृषिक	37.95	0.0094	गजेन्द्र सिंह, आदि
				198	525	निजि	बंजर	48.17	0.0119	तेजवीर, आदि
				163	524	निजि	बंजर	36.91	0.0091	बलजोर, आदि
				125	523	निजि	कृषिक	38.06	0.0094	नेपल, राजू, गोविन्द, आदि
				133	522	निजि	आबादी	68.41	0.0169	ब्रह्मसिंह, मोहन लाल, सुरेन्द्र, आदि
				227	521	निजि	कृषिक	205.2	0.0507	लेखेन्द्रा सिंह, मू. लक्ष्मी देवी, आदि
				257	513	निजि	आबादी	105.98	0.0262	अनूप सिंह, उदयवीर सिंह, हरवीर, सुखबीर, सतीश, सवेश कुमार, मौ० सरीफ, गंगा दास, आदि
				270	512	निजि	आबादी	311.93	0.0771	ग्रामीण आबादी
				270, 281	305	निजि	आबादी/ ग्राम सभा	1169.51	0.2890	ग्रामीण आबादी
				270	300	निजि	आबादी	182.04	0.0450	ग्रामीण आबादी
				15	299	निजि	बंजर	197.02	0.0487	इरशाद, आदि
				14	297	निजि	बंजर	744.77	0.1840	मौ० आरीफ, आदि
				71	267	निजि	बंजर	533.09	0.1317	जफर अख्तर, आदि
				268	266	सरकारी	बंजर	95.4	0.0236	नाली
				219	264	निजि	बंजर	55.27	0.0137	सब्बीर अली, आदि
				1	259	निजि	बंजर	42.87	0.0106	अकबर अली, आदि
				37	252	निजि	बंजर	35.86	0.0089	केशर जान, आदि
				38	251	निजि	बंजर	24.7	0.0061	किशोरी लाल, आदि
				2	250	निजि		18.94	0.0047	अल्मा बेगम, आदि
				15	249	निजि	बंजर	18.02	0.0045	इरशाद, आदि
				73	248	निजि	बंजर	20.91	0.0052	जफर अख्तर, कमर अख्तर, आदि
				73	246	निजि	ग्रेव यार्ड	21.86	0.0054	जफर अख्तर, कमर अख्तर, आदि
				73	244	निजि	ईदगाह	2.9	0.0007	जफर अख्तर, कमर अख्तर, आदि
				236	238	निजि	बंजर	639.72	0.1581	सुषमा कुमारी, आदि
			(8) कनौरा	161	316	निजि	कृषिक	1852.34	0.4577	रामेश्वर, कानरो, विक्रान्त, ओमप्रकाश, आदि
				158	317	निजि	कृषिक	847.79	0.2095	राज कुमार, सुरेन्द्र, आदि
				127	318	निजि	कृषिक / आबादी / बंजर	716.27	0.1770	महावीर, आदि
				15	319	निजि	कृषिक	746.45	0.1844	मौ० ईदरीश आदि
				188	322	निजि	कृषिक	2050.25	0.5066	सत्यपाल सिंह
				24	309	निजि	कृषिक	610.13	0.1508	उषा, उमादेवी, आदि
				20	307	निजि	कृषिक	496.08	0.1226	उषा, आदि
				20	306	निजि	कृषिक	674.16	0.1666	उषा, आदि
				20	305	निजि	कृषिक	1259.98	0.3113	उषा, आदि
				76	304	निजि	बंजर	370	0.0914	नयादर सिंह, आदि
				58	293	निजि	कृषिक	377.33	0.0932	जयप्रकाश, हिलोरी, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52	292	निजि	कृषिक	664.63	0.1642	चन्द्रप्रकाश, आदि
				34	289	निजि	कृषिक	297.59	0.0735	कृष्णपाल, आदि
				140	288	निजि	कृषिक	284.25	0.0702	रघुवल दयाल, आदि
				167	287	निजि	कृषिक	466.76	0.1153	श्रमजीत, आदि
				53	286	निजि	कृषिक	709	0.1752	चन्दन सिंह, आदि
				59	284	निजि	कृषिक	1200	0.2965	जयप्रकाश, हिलोरी, आदि
				211, 210, 212	279	निजि	ग्राम सभा	1431.83	0.3538	घसीटा, मेहर सिंह, श्यामलाल, आदि
				136	276	निजि	कृषिक	316.23	0.0781	विसपाल सिंह, बलवन्त, आदि
				54	275	निजि	कृषिक	1466.48	0.3624	चोहल सिंह, धर्मपाल, आदि
				28	269	निजि	कृषिक	1548.78	0.3827	ओमपाल, आदि
				23	358	निजि	कृषिक	361.6	0.0894	श्रीमती उमा देवी, श्रीमती सुषमा, आदि
				23	357	निजि	कृषिक	316.38	0.0782	श्रीमती उमा देवी, श्रीमती सुषमा, आदि
				23	356	निजि	कृषिक	242.46	0.0599	श्रीमती उमा देवी, श्रीमती सुषमा, आदि
				23	355	निजि	कृषिक	253.37	0.0626	श्रीमती उमा देवी, श्रीमती सुषमा, आदि
				23	354	निजि	कृषिक	259.47	0.0641	श्रीमती उमा देवी, श्रीमती सुषमा, जसपाल, आदि
				22	347	निजि	कृषिक	111.15	0.0275	श्रीमती उमा देवी, आदि
				142	346	निजि	कृषिक	183.99	0.0455	श्रीमती उमा देवी, आदि
				143	345	निजि	कृषिक	166.46	0.0411	श्रीमती रघुवीरी देवी, आदि
				65	344	निजि	आबादी	153.35	0.0379	ब्रह्मदे, श्रीमती राजबाला, आदि
				218	343	सरकारी	रोड	38	0.0094	-
				221	340	सरकारी	ग्राम सभा	123.21	0.0304	-
				217	332	सरकारी	ग्राम सभा	83.99	0.0208	-
				217	330	सरकारी	ग्राम सभा	209.19	0.0517	-
				217	329	सरकारी	आबादी	170.72	0.0422	ग्रामीण आबादी
				217	327	निजि	आबादी	67.81	0.0168	ग्रामीण आबादी
			(9) जसरथपुर	9	254	निजि	कृषिक	3087.03	0.7628	ओमप्रकाश, आदि
				83, 52, 53, 171	257	निजि	कृषिक	3578.72	0.8843	मुकेश कुमार, सिद्धार्थ, हरमीय, हरेन्द्र सिंह, विजयपाल, सिंह, आदि
				3	258	निजि	कृषिक	2837.16	0.7011	चन्दवीर, अनिल कुमार, आदि
	मेरठ	मेरठ	परतापुर बराल	23	225	निजि	कृषिक	1263.19	0.3121	चन्दवीर सिंह, शैलेन्द्र चौधरी, आदि
				178	222	निजि	आबादी	160.56	0.0397	ग्रामीण आबादी
				170	221	निजि	कृषिक	187.4	0.0463	दिनेश कुमार जैन, आदि
				170	220	निजि	कृषिक	985.16	0.2434	दिनेश कुमार जैन, आदि
				107	214	निजि	कृषिक	2135.52	0.5277	रामनिवास, रामविलास, आदि
				109	209	निजि	कृषिक	713.35	0.1763	रघुवीर, आदि
				60	206	निजि	कृषिक	586.16	0.1448	ब्रह्मपाल सिंह आदि
				43	204	निजि	कृषिक	462.62	0.1143	धर्मपाल सिंह, आदि
				116	202	निजि	कृषिक	802.41	0.1983	रामानन्द, साइनन्द, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				65	201	निजि	कृषिक	376.35	0.0930	ब्रह्म सिंह, सतीश कुमार, आदि
				116	199	निजि	कृषिक	1975.38	0.4881	रामानन्द, साइनन्द, आदि
				77	185	निजि	कृषिक	856.63	0.2117	बावराली, शहीद हुसैन, आदि
				1	183	निजि	कृषिक	931.21	0.2301	हेमचन्द, आदि
				11	182	निजि	कृषिक	471.45	0.1165	योगेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार, आदि
				129	181	निजि	कृषिक	655.21	0.1619	सरनवीर सिंह, शिव कुमार, आदि
				152	178	निजि	कृषिक	155.87	0.0385	प्रेमपाल, सुदेशपाल, आदि
				152	176	निजि	कृषिक	154.7	0.0382	प्रेमपाल, सुदेशपाल, आदि
				152	175	निजि	कृषिक	100.91	0.0249	प्रेमपाल, सुदेशपाल, आदि
				152	173	निजि	कृषिक	97.66	0.0241	प्रेमपाल, सुदेशपाल, आदि
				162, 168	262	निजि	कृषिक	387.93	0.0959	श्रीमती मीनाक्षी, श्रीमती मेहरवती, जलसिंह, आदि
				15	263	निजि	कृषिक	450.01	0.1112	कालीचरन, आदि
				70	265	निजि	कृषिक	155.37	0.0384	मंवर सिंह, आदि
				70	269	निजि	कृषिक	165.86	0.0410	मंवर सिंह, आदि
				29	270	निजि	कृषिक	207.25	0.0512	जगपाल सिंह, आदि
				26	271	निजि	कृषिक	250.93	0.0620	जयप्रकाश, रामप्रकाश, आदि
				18	275	निजि	कृषिक	320.01	0.0791	श्रीमती अनुमल, आदि
				10	277	निजि	कृषिक	54.05	0.0134	ओमप्रकाश, आदि
				193	278	सरकारी	यू०पी० विद्युत बोर्ड	535.98	0.1324	-
				42	100	निजि	कृषिक	669.11	0.1653	अर्जुन सिंह, ईलम सिंह, आदि
				59	99	निजि	कृषिक	276.47	0.0683	ब्रिजेश, आदि
				14	98	निजि	कृषिक	119.01	0.0294	कालीदास, आदि
			(10) Sakoti	1	448	निजि	आबादी	1002.58	0.2477	हितकारी किसान, विद्यालय, आदि
				68	446	निजि	कृषिक	195.55	0.0483	शिवराज सिंह, योगेन्द्र, आदि
				313	443	निजि	कृषिक	58.43	0.0144	इन्दरानी देवी, आदि
				349	440	निजि	आबादी/कृषिक	307.41	0.0760	प्रेमपाल, बलवान, आदि
				208	438	निजि	कृषिक	64.08	0.0158	मामराज, आदि
				350	437	निजि	कृषिक	37.43	0.0092	समय सिंह, आदि
				12	436	निजि	कृषिक	39.58	0.0098	अमर सिंह, आदि
				394	435	निजि	कृषिक	48.5	0.0120	कवल, सेहन्दर, सुरेन्द्र, आदि
				6	434	निजि	कृषिक	393.38	0.0972	अतर सिंह, आदि
				18	433	निजि	आबादी	369.6	0.0913	इमराज, नकली सिंह, आदि
				4	340/861	सरकारी	रोड/रेलवे	372.73	0.0921	-
				329	426	निजि	आबादी	531.19	0.1313	संजय कुमार, विनित जैन, अरुन कुमार, जैन
				1	427	सरकारी	नाली	91.55	0.0226	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				296	412	निजि	कृषिक	124.1	0.0307	रामपाल सिंह, सत्यपाल, अरुन, मनोज कुमार, गोगिन्दर कुमार, ओमप्रकाश, आदि
				284	411	निजि	बंजर	48.44	0.0120	रामपाल सिंह, सत्यपाल सिंह, आदि
				284	410	निजि	बंजर	60	0.0148	रामपाल सिंह, सत्यपाल, अरुन, मनोज कुमार, गोगिन्दर कुमार, ओमप्रकाश, आदि
				374	409	निजि	बंजर	56.04	0.0138	सुखवीर सिंह, उदयवीर, आदि
				223	406	निजि	आबादी	71.62	0.0177	मुन्ना, राजेश सिंह, आदि
				45	408	निजि	बंजर	71.62	0.0177	उदयवीर सिंह, खुवीर, आदि
				289	404	निजि	कृषिक	615.23	0.1520	रवीन कुमार, नीतिन, आदि
				246	403	निजि	कृषिक	383.13	0.0947	राज कुमार, आदि
				433	401	सरकारी	अस्पताल	613.42	0.1516	वाटरनरी, अस्पताल
				195	400	निजि	आबादी	627.25	0.1550	राधेश्याम, रमेश, राजेन्द्र, आदि
				280	399	निजि	कृषिक	553.5	0.1368	खुवीर सिंह, ओमप्रकाश सिंह, आदि
				388	392	निजि	कृषिक	400.83	0.0990	होशियार सिंह, आदि
				42	390	निजि	आबादी	765.88	0.1892	चीनी विकास समिति, सकौली
				245	389	निजि	कृषिक	696.56	0.1721	कृष्ण अवतार, परवेन्दर, ओमवती, आदि
				148	380	निजि	कृषिक	901.11	0.2227	विक्रम सिंह, आदि
				377	379	निजि	कृषिक	408.44	0.1009	सरोज, आदि
			(11) Dadri	245	895	निजि	कृषिक	971.44	0.2400	ईश्वर सिंह, जय कुमार, देवेन्द्र कुमार, आदि
				458	894	निजि	कृषिक	385.14	0.0952	सत्यपाल सिंह, आदि
				307	893	निजि	कृषिक	762.36	0.1884	यशपाल सिंह, आदि
				481	892	निजि	कृषिक	1456.47	0.3599	यशपाल सिंह, आदि
				173	832	निजि	कृषिक	525.21	0.1298	सत्यपाल सिंह, यशपाल, रिछपाल सिंह, आदि
				157	831	निजि	कृषिक	496.85	0.1228	श्रीमती प्रवेश कुमार, आदि
				316	827	निजि	कृषिक	2636.4	0.6514	रविन्द्र, कुमारी ब्रिज सिंह, अजब सिंह, आदि
				501, 10	774	निजि	कृषिक	2480.51	0.6129	ई० श्रीराम मेमोरियल सोसाइटी-अध्यक्ष श्री राम प्रसाद, श्रीमती बगली, आदि
				316	462	निजि	आबादी	130	0.0321	रविन्द्र कुमार, ब्रिज सिंह, अजब सिंह, आदि
				208	461	निजि	बंजर	69.66	0.0172	बुद्ध छतरू, आदि
				442	459	निजि	आबादी	151.39	0.0374	शिव चरन, आदि
				183	458	निजि	आबादी	269.94	0.0667	फूल सिंह, शिव चरन, नकली, आदि
				385	455	निजि	कृषिक	422.06	0.1043	राज सिंह, बाल मदन, राम अवतार, आदि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				57	454	निजि	बंजर	250	0.0618	काम सिंह, सुन्दर, शिव कुमार, आदि
				41	450	निजि	आबादी	331.98	0.0820	कलीराम, रामवीर, आदि
				550	283	निजि	आबादी	611.93	0.1512	ग्रामीण आबादी
				454	275	निजि	कृषिक	765.4	* 0.1891	सिम्बन, जुम्मा, बुद्ध, आदि
				544	921	सरकारी	थलब	297.8	0.0736	ग्राम सभा
				550	939	निजि	आबादी	740.32	0.1829	ग्रामीण आबादी
				251	940	निजि	आबादी	235.09	0.0581	ओमपकाश, आदि
				550	949	निजि	आबादी	265.57	0.0656	ग्रामीण आबादी
				376	274	निजि	आबादी	304.22	0.0752	रविन्द्र सिंह, महाराज सिंह, राजेन्द्र, आदि
				273	273	निजि	कृषिक	347.45	0.0859	हरी राम सिंह, विश्वराम सिंह, मेहकार सिंह, आदि
				115	270	निजि	कृषिक	1148.03	0.2837	ठीकाराम, आदि
				89	265	निजि	कृषिक	2547.66	0.6295	रामरतन, आदि
				279	257	निजि	कृषिक	2400.6	0.5932	मलखान, आदि
				445	255	निजि	कृषिक	1109.51	0.2742	शीतल, आदि
				363	227	निजि	कृषिक	1945.03	0.4806	रामपाल सिंह, आदि
				169	226	निजि	कृषक	785.06	0.1940	जगदीश प्रसाद, अजब सिंह, रकम सिंह, अनूस कुमार, आदि
				421	221	निजि	कृषक	736.69	0.1820	ब्रह्म सिंह, आदि
				485	219	निजि	कृषक	2796.14	0.6909	सत्यवीर, महेश, जगवीर, आदि

[फा. सं. भाराप्र/बी.ओ.टी./11013/7/2004]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2006

S.O. 1971(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highway, (Department of Road, Transport and Highways), number S.O. 1674 (E), dated the 28th November, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 28th November, 2005 and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No. 58 including the bypass on the stretch of land from Km 52.250 to km 90.220 (Meerut - Muzaffarnagar Section) in Meerut District, in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Jagran" dated the 28th January, 2006 and in "The Times of India" dated the 3rd February, 2006 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3d of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land, with or without structure to be acquired from km 52.250 to 90.220 (Meerut - Muzaffarnagar section) on National Highway No. 58 in Meerut District in the State of Uttar Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Khata number	Plot number	Type of land	Nature of land/use of land	Area acquired (m ²)	Area (in acre)	Name of the owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meerut	Meerut	(1) Partapur Baral	168, 121	355	Private	Grove	95	0.0235	Brahm singh, Deshveer singh, etc
				304	356	Private	Farrow Land	777.4832	0.1921	Rajender, Surender, Satender, Virender, etc
				241	709	Private	Agriculture	505.8477	0.1250	Madan Mohan Sharma, Rakesh Mohan, Gaurav Koushik
				469	702	Government	Nalli	38	0.0094	-
				184	700	Private	Agriculture	2045.3531	0.5054	Brahm Singh, Krishna Pal, Surender, Harender, Indra Pal, Narender, Shukram Pal
				374	694	Private	Agriculture	469.5956	0.1160	Sathender, etc
				423	695	Private	Agriculture	1045.3539	0.2583	Harvir, etc
				131	685	Private	Agriculture	2.9608	0.0007	Arvind, Smt. Moothi Devi, etc
				331	684	Private	Agriculture	1110.8162	0.2745	Roshan lal Jain, Pradeep Kumar Jain, Rakesh Jain, etc
				287	683	Private	Agriculture	81.6122	0.0202	Anil Singh Vinod Kumar Maheshwari
				409	682	Private	Agriculture	1750.9617	0.4327	Dr. Neeraj Kamboj
				491	677	Government	Road	585.6631	0.1447	-
				472	674	Government	Road	291.7128	0.0721	-
				204	676	Private	Abadhi	146.8425	0.0363	Mangal Sen, etc
				160412	670	Private	Abadhi	1096.3646	0.2709	Satya Prakash Agarwal, Ram Kumar, Ashok Kumar, Kishan Lal, Veena Rani, Shankunthala Rani
				386	576	Private	Abadhi	122.3757	0.0302	Sanju Varma & Durgesh
				321, 453	577	Private	Agriculture	910.619	0.2250	Raj Pal, Veerchand, R.P Agarwal, etc
				54	580	Private	Abadhi	415	0.1025	Krishna Veer, etc
				244	579	Private	Abadhi	161.0469	0.0398	Amarpal Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39328	583	Private	Abadhi	1346.5278	0.3327	Om prakash, Satyaveer, Rakesh luthra, etc
				29	585	Private	Agriculture / Abadhi	549.8147	0.1359	Jai veer, Mrs. Reliance Polyfeed Dwara S.K.Jain
				219, 364, 72	592	Private	Farrow Land	1080.3654	0.2670	Anju Sharma, Geeta Kumari, Mrs Reliance
				378	593	Private	Farrow Land	779.433	0.1926	Krishna Kumar Sharma
				433, 271	604	Private	Agriculture	1394.5961	0.3446	Yogendra Rana, Mukesh Kumar, Harveer Singh, etc
				78	595	Private	Abadhi	339.2977	0.0838	Gajendra Adi, Kumar sharma
				491	598	Government	G.S	1299.3113	0.3211	-
				301, 302	597	Private	Abadhi	1801.7565	0.4452	Raj Kumar Singh, Rohit Jain, Varun Jain, etc
				209	681	Private	Abadhi	248.4661	0.0614	Mrs. Deewan Rubber Industries thru Vidyasagar Deewan
				209	680	Private	Abadhi	140.6279	0.0347	Mrs. Deewan Rubber Industries thru Vidyasagar Deewan
				209	673	Private	Abadhi	6.8185	0.0017	Mrs. Deewan Rubber Industries thru Vidyasagar Deewan
				376	671	Private	Abadhi	256.1515	0.0633	Satish Kumar, Gireesh Kumar
				160, 309, 412	670	Private	Abadhi	432.2206	0.1068	Satya Prakash Agarwal, Ram Kumar, Ashok Kumar, Kishan Lal, Veena Rani, Shankunthala Rani
				54	580	Private	Abadhi	148.8365	0.0368	Krishna Veer, etc
				328	582	Private	Abadhi	173.8454	0.0430	Rakesh lothra, keval lothra
				472	581	Government	Road	105.6896	0.0261	-
				39	583	Private	Abadhi	266.7272	0.0659	Om prakash, Satyaveer, Rakesh luthra, etc
				29	585	Private	Agriculture / Abadhi	88.0246	0.0218	Jai veer, Mrs. Reliance Polyfeed Dwara S.K.Jain

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				219, 364, 72	592	Private	Farrow Land	298.9177	0.0739	Anju Sharma, Geeta Kumari, Mrs Reliance
				378	593	Private	Farrow Land	197.3678	0.0488	Krishna Kumar Sharma
				433, 271, 422	604	Private	Agriculture	352.7225	0.0872	Yogendra Rana, Mukesh Kumar, Harveer Singh, etc
				131	598	Private	Abadhi	658.4099	0.1627	Master Aman Singh
				301, 302	597	Private	Abadhi	191.4603	0.0473	Raj Kumar Singh, Rohit Jain, Varun Jain, etc
				328	582	Private	Abadhi	192	0.0474	Rakesh lothra, keval lothra
				80	699	Private	Farrow Land	168	0.0415	Chottelal
			(2) Kunda	138	140	Private	Abadhi	1828.2247	0.4517	Mrs. Rajkamal Furnishers thru Prakash chand Bansal
				190	139	Private	Farrow Land	400.6207	0.0990	Vishwanath pipe udyog thru Sunderlal Agarwal
				138	140	Private	Abadhi	760.9764	0.1880	Mrs. Rajkamal Furnishers thru Prakash chand Bansal
				233	138	Government	Banjar	8.2532	0.0020	-
				250	137	Government	G.S	17.5704	0.0043	-
				233	136	Government	G.S	118.382	0.0293	-
			(3) Dungrawali	190	334	Private	Farrow Land	97.0849	0.0240	Ispara Research & Technology federation Charitable trust thru Sharad Kumar Jain
				77	325	Private	Farrow Land	1145.1343	0.2830	Thirka - Manchand, etc
				33	324	Private	Agriculture	259.0744	0.0640	Koore, etc
				2	319/1	Private	G.S & Abadhi	450.3232	0.1113	Ashok Kumar, Subhash, Kazan, etc
				204	319/2	Government	Farrow Land	1321.6796	0.3266	-
				107, 49, 155	318	Private	Agriculture	385.2461	0.0952	Kazan Singh, Smt Lellavathi, Chote, Birje, etc
				102	282	Private	Agriculture	455.8687	0.1126	Buddhu
				57, 27, 151, 3	274	Government	Abadhi	1316.3663	0.3253	Ashok Kumar, Subhash, Kazan, etc
				122	271	Private	Agriculture	496.4879	0.1227	Satya Prakash Agarwal, Ram Kumar, etc
				179, 8	269	Private	Agriculture	339.7368	0.0839	Savalia, Anglu, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				64	268	Private	Farrow Land	5.1816	0.0013	Charan Singh
				125, 182, 28, 139	100	Private	Agriculture	1145.2423	0.2830	Smt.Meena Kumari, Ranjit Singh, Bisan Singh, etc
				70	123/3	Private	Agriculture	350	0.0865	Mangath Singh, Tara sen, G.Raj Singh, etc
				70	123	Private	Agriculture	712.1358	0.1760	G.Raj Singh, Dhanraj Singh, etc
				134	126/2	Government	Farrow Land	11.212	0.0028	-
				80	161	Private	Agriculture	128	0.0316	Dayaram, Deepak, Gajraj, etc
				28	330	Private	Agriculture	180	0.0445	Smt. Sumitha Singh, Harbir Singh, etc
				33	329	Private	Agriculture	480	0.1186	Harbir Singh. etc
				136, 55, 115, 117, 206	331	Private	Agriculture	420	0.1038	Garibha, bhoop singh, Harbir, Dharampal, Jaypal, Rajpal, Satyapal, etc
				24	132	Private	Farrow Land	789.6715	0.1951	Eshwar Singh, etc
				24, 102	131	Private	Farrow Land	158.6189	0.0392	Badlu, Omprakash, Eshwar, etc
				90	137	Private	Farrow Land	65.4388	0.0162	Nannu, etc
				81	136	Private	Farrow Land	263.7385	0.0652	Daulath, etc
				190	135	Government	Abadhi & G.S	416.7647	0.1030	Dinesh, Naushad, Noorjahan, etc
				116	152	Private	Agriculture	671.2432	0.1659	Mukesh Kumar
				70	153	Private	Farrow Land	417.8108	0.1032	G. Raj Singh
				70	166	Private	Agriculture	372.7326	0.0921	G.Raj Singh & Dhanraj Singh
				80	161	Private	Agriculture	325	0.0803	Dayaram, Deepak, Gajraj, etc
				80	163	Private	Agriculture	99.6411	0.0246	Dataram, etc
				80	162	Private	Agriculture	266.0696	0.0657	Dataram, etc
				70	2	Private	Agriculture	627.496	0.1551	G.Raj Singh, Dhanraj Singh, etc
				174	328	Private	Farrow Land	250	0.0618	Savalia, etc
				196	327	Government	G.S	204.9277	0.0506	-
				174	326	Private	Farrow Land	56.2338	0.0139	Savalia, etc
				77	325	Private	Farrow Land	170.9425	0.0422	Thirka - Manchand, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				179.6	269	Private	Farrow Land	177.3566	0.0438	Sawaliya, Hude, Vijaypal, Kishanpal, Mahender, etc
				141.51	103	Private	Farrow Land	309.5497	0.0765	Mahender, Rajender, Gopal, etc & Suman Chauhan, Dayachand & Lakshmansingh, etc
				82	103/2	Private	Farrow Land	288.9282	0.0714	Dayachand, Lakshman, etc
				206	101	Government	G.S	116.9585	0.0289	-
				206	89	Government	G.S	111.3726	0.0275	-
				122	95	Private	Farrow Land	42.381	0.0105	Manghath, Tarachand, etc
				185	125	Private	Agriculture	55.6409	0.0137	Hasim ali, Yaseen, Asgar, Ghasi, Babu, Jumma, Iliyas, Shabbir, Ajmed, Islam, Mangath, Shareef, Shahajab, frshad, etc
				81	127	Private	Agriculture	49.7465	0.0123	Daulath, etc
				24	132	Private	Farrow Land	184.0282	0.0455	Eshwar Singh, etc
				24	133	Private	Agriculture	211.3091	0.0522	Eshwar, etc
				24	134	Private	Agriculture	80.641	0.0199	Eshwar, etc
				108, 24	148	Private	Agriculture	125.5832	0.0310	Badhlu, etc
				6	78	Private	Agriculture	328	0.0810	Aghnu, etc
				108	149	Private	Abadhi	285.2142	0.0705	Badhlu, etc
				102	151	Private	Agriculture	149.6846	0.0370	Omprakash, etc
				102	151	Private	Agriculture	297.3103	0.0735	Omprakash, etc
				70	153	Private	Agriculture	293.4457	0.0725	G.Raj
				70	7	Government	Farrow Land	150	0.0371	MDA
				70	2	Private	Agriculture	370	0.0914	G.Raj Singh, Dhanraj Singh, etc
				195	1	Private	Agriculture	825.1103	0.2039	Umar Mohd., Iqbal, Momin, etc
			(4) Ghat	108	1016	Private	Agriculture	1902.4972	0.4701	Chetram, Mahender Singh, Gopal Singh, Dharamveer Singh, etc.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				292	1011	Private	Agriculture	2398.1757	0.5926	Bhagwat, Jagdish kumar, Mukesh Kumar, etc.
				121, 558	1010	Private	Abadi	1505.6201	0.3720	Chandu Lal, Ashok Kumar, Rakesh kumar, Gyan Chand, Anup, etc.
				494	1009	Private	Agriculture	1465.6987	0.3622	Bhagwat, Jagdish kumar, Mukesh Kumar, Pankaj Goel, Surender Singh, Mahipal Singh, etc.
				307	1007	Private	Agriculture	1541.9923	0.3810	Mahesh, Dinesh, Suresh, etc.
				535, 359, 26	1004	Private	Abadi/Agri culture	3490.4783	0.8625	All India Institute Management & Research & Sociaty Through Manju Goel, Sandip Goel, Rajender Singh, Santosh kumari etc.
				2	971	Private	Agriculture	116.3427	0.0287	Rajender Singh, etc.
				476	966	Private	Farrow Land	279.7929	0.0691	Shiv Kumar, Vinod Kumar, Devender Kumar, Pawan Kumar, Sunil Kumar, etc.
				476	965	Private	Agriculture/ Farrow Land	248.1819	0.0613	Shiv Kumar, Vinod Kumar, Devender Kumar, Pawan Kumar, Sunil Kumar, etc.
				292	1011	Private	Agriculture	223.1922	0.0552	Bhagwat, Jagdish kumar, Mukesh Kumar, etc.
				292	1011	Private	Agriculture	396.6526	0.0980	Bhagwat, Jagdish kumar, Mukesh Kumar, etc.
				121, 558	1010	Private	Abadi	98.045	0.0242	Chandu Lal, Ashok Kumar, Rakesh kumar, Gyan Chand, Anup, etc.
				494	1009	Private	Agriculture	407.7911	0.1008	Bhagwat, Jagdish kumar, Mukesh Kumar, Pankaj Goel, Surender Singh, Mahipal Singh, etc.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				455	1002	Private	Agriculture	258.9044	0.0640	Vijaypal, Major M. S. Yadav, etc.
				359	1000	Private	Agriculture	1197.6541	0.2959	Rajender Singh, Rameshchad, Rampal, etc.
				578	999	Temple	G.S	390.4881	0.0965	-
				476	966	Private	Farrow Land	223.3145	0.0552	Shiv Kumar, Vinod Kumar, Devender Kumar, Pawan Kumar, Sunil Kumar, etc.
				2	969	Private	Agriculture	200	0.0494	Rajender Singh, Akhilesh, etc.
				570	1008	Government	G.S	38	0.0094	-
			(5) Maliyana	298.465	1656	Private	Farrow Land	271.9046	0.0672	M/s Subharti K. K. V. Charetable Trust Trough Atul Krishan, Rajaram Bharti, etc.
				200	1657	Private	Farrow Land	189.1656	0.0467	Jasveer Singh, etc
				554	1652	Private	Farrow Land	185.8034	0.0459	Ram Das, Harnaam Das, Lal Singh, Ganesh, etc
				139	1651	Private	Farrow Land	55.9397	0.0138	Sunil Kumar, Naveen Kumar, Sachin Sharma, etc
				126	1650	Private	Farrow Land	2468.8112	0.6100	Guru Prasad, M/s Subharti K. K. V. Charetable Trust trough Atul Krishna
				795	1639	Government	G.S	22.02	0.0054	-
				245	1642	Private	Farrow Land	222.7143	0.0550	Darshan, etc
				215	1640	Private	Farrow Land	13.043	0.0032	Jagat Singh, etc
				555	1606	Private	Farrow Land	26.0424	0.0064	Rajender Singh, Omi, Puran, etc
				555	1606	Private	Farrow Land	144.862	0.0358	Rajender Singh, Omi, Puran, etc
				185	1612	Private	Farrow Land	146.2098	0.0361	Jai Dayal, etc
				212	1616	Private	Farrow Land	267.7958	0.0662	Janak Raj, Naresh Kumar, Satish kumar, Darshan Lal, Nishant Kumar, etc
				212	1620	Private	Abadhi	100.9118	0.0249	Janak Raj, Naresh Kumar
				603, 795	1661	Government	Farrow Land	318.5391	0.0787	MDA, Vimala Devi, Devender Singh, etc
				29	1662	Private	Farrow Land	1106.1866	0.2733	Atar Singh, Ram Singh, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				485	1664	Private	Farrow Land	354.9747	0.0877	Radheshyam, Krishan Kumar, etc
				147	1667	Private	Farrow Land	297.1808	0.0734	Ganga Ram, Gangasharan, Srichand, etc
				147	1668	Private	Farrow Land	646.8626	0.1598	Ganga Ram, Gangasharan, Srichand, etc
				124	1669	Private	Farrow Land	479.7625	0.1185	Khacedu, etc
				38	1648	Private	Farrow Land	1397.7986	0.3454	Anshu Devi, etc
				126	1650	Private	Farrow Land	2025.9432	0.5006	Guru Prasad, M/s Subharti K. K. V. Charetable Trust trough Atul Krishna
				829	1645	Government	Farrow Land	14.0924	0.0035	-
				572	1644	Private	Farrow Land	1402.6427	0.3466	MDA, Bhup, etc
				572	1643	Government	Farrow Land	48	0.0119	-
				452	1601	Private	Farrow Land	610.7814	0.1509	Mulakhraj, Omprakash Narang, etc
				795	1604	Government	G.S	517.2365	0.1278	-
				185	1612	Private	Farrow Land	512.1751	0.1266	Jai Dayal, etc
				579, 271	1615	Private	Farrow Land	883.8774	0.2184	Dharam Veer Saini Advocate, Hotilal Sharma, Anil Kumar, Rajender Singh, Vijay Kumar Sharma, etc
				212	1616	Private	Farrow Land	1104.2855	0.2729	Janak Raj, Naresh Kumar, Satish kumar, Darshan Lal, Nishant Kumar, etc
				212	1581	Private	Farrow Land	1787.2485	0.4416	Janak Raj, Naresh Kumar, Satish kumar, Darshan Lal, Nishant Kumar, etc
			(6) Rampur Paoti	185	423	Private	Farrow Land	234.284	0.0579	Bhupender Singh, Jitender Singh, Sriram Anand, Satish Kumar, etc
				118	424	Private	Agriculture	60.4336	0.0149	Beghraj Singh, Moolchand, etc
				118	425	Private	Agriculture	173.8951	0.0430	Beghraj Singh, Moolchand, etc
				69	441	Private	Agriculture	45.5867	0.0113	Sanbhunath Anand, Satish Kumar Anand, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				118	438	Private	Agriculture	2366.035	0.5846	Sandeep Kumar Yadav, Beghraj Singh, Moolchand, Pradip, etc
				80, 140, 139	430	Private	Agriculture/ Abadi	1447.6186	0.3577	Ramesh alias Ramashre, Ashok, Mahesh, Jhabbar, etc
				63	315	Private	Agriculture	200	0.0494	Devendrajit, Charanjit Singh, Deepraj Singh, etc
				63	316	Private	Agriculture	632.7899	0.1564	Devendrajit, Charanjit Singh, Deepraj Singh, etc
				2	322	Private	Farrow Land	1000	0.2471	Anil Kumar, etc
				14	338	Private	Abadhi / Farrow Land	1296.2168	0.3203	Iqbal Singh, Chaman Singh, etc
				63	317	Private	Agriculture	2388.7208	0.5902	Devendrajit, Charanjit Singh, Deepraj Singh, etc
				83	344	Private	Farrow Land	339.3363	0.0838	Smt. Durga Devi, Nandhan Singh, Sandeep Kumar, Praveen Kumar, etc
				7	345	Private	Abadhi	57.2272	0.0141	Anil Kumar Bohra, Sunil Kumar Bohra, etc
				138	346	Private	Farrow Land	23.7091	0.0059	Naresh Chand, Mrs. Saral Motor & General finance limited thru Gagan Gopal, Atul Bansal
				185	426	Private	Farrow Land	91.928	0.0227	Sriram Anand, Satish Kumar Anand, Shambonath Anand, etc
				118	425	Private	Agriculture	1159.025	0.2864	Beghraj Singh, Moolchand, etc
				118	427	Private	Farrow Land	23.7346	0.0059	Beghraj Singh, Moolchand, etc
				185	423	Private	Farrow Land	463.7953	0.1146	Bhupender Singh, Jitender Singh, Sriram Anand, Satish Kumar, etc
				118	442	Private	Abadhi	547.1433	0.1352	Beghraj Singh, Moolchand, etc
				118	438	Private	Agriculture	145.2239	0.0359	Sandeep Kumar Yadav, Beghraj Singh, Moolchand, Pradip, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2	322	Private	Farrow Land	1567.2717	0.3873	Anil Kumar, etc
				141	320	Private	Agriculture	145.8074	0.0360	Rekha Goel, etc
				2	321	Private	Farrow Land	472.8713	0.1168	Anil Kumar Jagdeah, etc
				189	318	Private	Abadhi	311.584	0.0770	Vinod Kumar, Pramod Kumar, Manoj Kumar, Smt Sukveeri, etc
				14	338	Private	Abadhi / Farrow Land	366.6187	0.0906	Iqbal Singh, Chaman Singh, etc
				82	341	Private	Agriculture	267.2186	0.0660	Narendra Kumar, Surendra Kumar, Smt. Manorma Kumari, etc
				7	345	Private	Abadhi	403.9161	0.0998	Anil Kumar Bohra, Sunil Kumar Bohra, etc
				138	346	Private	Farrow Land	261.0522	0.0645	Naresh Chand, Mrs. Saral Major & General finance limited thru Gagan Gopal, Atul Bansal
				100	309	Private	Agriculture	536	0.1324	Babu, Anand Kumar, etc
			(7) Khadoll	10	620	Private	Agriculture	332.2825	0.0821	Amarpal, Sushila, Vinu, Ravinder, Devender, Awadhesh, etc
				72	618	Private	Farrow Land	123.5111	0.0305	Khazan, etc
				72	601	Private	Farrow Land	146.5963	0.0362	Khazan, etc
				37, 124, 266	602	Private	Agriculture	115.0707	0.0284	Anand, Parmanand, Dinesh Kumar, Surendra Kumar, Sushil Kumar, Ramawatar, etc
				237, 335	598	Private	Agriculture	3908.9025	0.9659	Rajaram, Harikishan, etc
				152	596	Private	Agriculture	190.1058	0.0470	Pramod Kumar, Suman Sharma, etc
				242	595	Private	Agriculture	201.9782	0.0499	Ramswarup, etc
				3	586	Private	Agriculture	194.0555	0.0480	Ikramuddin, Yamin, Smt. Nirmal Singh, etc
				4	581	Private	Agriculture	948.1988	0.2343	Smt. Birnu Devi, Prashant Gupta, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				178	579	Private	Agriculture	183.8636	0.0454	Babu Lal, Jagram, Mahender Singh, etc
				420	501	Government	G.S	51.9934	0.0128	-
				295	489	Private	Agriculture	295.0192	0.0729	Shanti, Smt. Ballo, Manglu, Shompal, etc
				345	488	Private	Agriculture	104.2721	0.0258	Abdul Sattar, etc
				169	487	Private	Agriculture	392.9701	0.0971	Babu Lal, etc
				144	474	Private	Agriculture	403.5254	0.0997	Naveen Kumar Agarwal, Vipin Kumar Agarwal, etc
				62	472	Private	Agriculture	587.4643	0.1452	Kariman, Allah Mahar, Kabir, Iddu Khan, etc
				308	61	Private	Agriculture	572.3287	0.1414	Sahastra Pal Singh, Imamuddin, Ramzan, Dr. Savita Garg, etc
				297	60	Private	Agriculture	191.3749	0.0473	Shiv Kumar, Ram Kishan, etc.
				310	50	Government	Farrow Land	361.5665	0.0893	-
				43	48	Private	Agriculture	234.672	0.0580	Mahendar Kumar Jain, Surender Kumar Jain, etc
				271	47	Private	Agriculture	100.506	0.0248	Vijay Laxmi, etc
				59	46	Private	Agriculture	250.4541	0.0619	Rajesh Kumar, Pradeep Kumar, Rahul Kumar, etc
				304	7	Private	Farrow Land	72	0.0178	Satishchand, Amrishchand, Rameshchand, etc
				411.390	475	Government	G.S	112	0.0277	-
				59	9	Private	Agriculture	3569.8736	0.8821	Rajesh Kumar, Pradeep Kumar, Rahul Kumar, etc
				19,383	6	Private	Agriculture	3098.2714	0.7656	Rajender, Devender, Vijender, Satish, Anil Kumar, etc
				57	574	Private	Agriculture	295.7571	0.0731	Kure Singh, Sukhbir Singh, etc
				57	573	Private	Agriculture	1095.885	0.2708	Kure Singh, Sukhbir Singh, etc
				184	571	Private	Agriculture	161.9222	0.0400	Bhup Singh, Ram Prasad, etc
				66	570	Private	Bagh	415.6461	0.1027	Kailash Chand, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				66	568	Private	Bagh	256.26	0.0633	Kailash Chand, etc
				66	567	Private	Bagh	155.5733	0.0384	Kailash Chand, etc
				66	563	Private	Agriculture	117.6206	0.0291	Kailash Chand, etc
				272, 347, 207	548	Private	Agriculture	1374.68	0.3397	Bhagwati, Umesh Kumar, Faiyaz, Sunder Lal, Hira Lal, etc
				64, 144	547	Private	Farrow Land	124.4733	0.0308	Idgah Summi, Mutwali, Meharban, etc
				39	540	Private	Agriculture	257.1864	0.0635	Umaradaraz, etc
				38	539	Private	Agriculture	800.3572	0.1978	Umaradin, Julfikar, etc
				71	533	Private	Agriculture	1047.2844	0.2588	Khachru, Dinu, etc
				280	527	Private	Agriculture	376.9539	0.0931	Sharif, etc
				114, 14, 97, 145	522	Private	Agriculture	805.0319	0.1989	Anil Kumar, Sunil Kumar, etc
				163	521	Private	Agriculture	579.723	0.1432	Satish Gupta, Suraj Yadav, Manisha Agarwal, etc
				220, 267	515	Private	Agriculture	956.2265	0.2363	Mohitbandhu, Smt. Suman Tomar, Dr. Satendra Tomar, etc
				353, 368, 18	513	Private	Agriculture	835.0592	0.2063	Mangti, Ramwati, Ganga Sharan, Pratap, Ranjeet, etc
				224, 54, 218, 203	509	Private	Agriculture	808.3165	0.1997	Krisna Kumar, Smt. Madhu Rani, Smt. Radha Rani, etc
			(8) Lakhwaya Rasulpur	14, 63, 37	201	Private	Abadi	1400	0.3459	Sudhindra Kumar, Smt. Kanta Sharma, Deepchand, etc
				2	185	Private	Agriculture	412.2128	0.1019	Ashok Kumar, Vimal Kumar, Arvind Kumar, Arun Kumar, Niraj Kumar, Sanjay Kumar, etc
				152	193	Private	Abadi	280	0.0692	Sudhindra Kumar, etc
				141	190	Private	Farrow Land	72.7797	0.0180	Shish Ram, Prasadi Lal, Nain Singh, etc
			(9) Shobhapur	91	759	Private	Agriculture	249.2123	0.0616	Naresh Kumar, etc
				61	871	Private	Agriculture	101.4031	0.0251	Dharam pal Singh, sundra mittal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17	879	Private	Agriculture	296.8372	0.0733	Ravindra Kumar
				156	844 / 1	Private	Farrow Land	763.1381	0.1886	Mansa Ram
				156	843	Private	Agriculture	599.2275	0.1481	Mansa Ram
				139	842	Private	Agriculture	761.2398	0.1881	Boolhen, Mukesh Kumar
				139, 196	841	Private	Agriculture	668.3732	0.1652	Ramnath Boolhen
				196, 139	838	Private	Agriculture	222.8241	0.0551	Ramnath Boolhen
				129, 132	73	Private	Farrow Land	877.8623	0.2169	Jagdish Prasad, Jai narayan, Hari om, Rajender, Pramod, Rahul, Mukul, Smt. Anjana, Ram Singh, Devendra Kumar
				324	75	Government	Farrow Land	1485.335	0.3670	Jayanarayan, Hariom, Rajender, Parshod, Bhavan Singh, etc
				19, 93	76	Private	Farrow Land	106.3715	0.0263	Narender Kumar, etc
				19	77	Private	Farrow Land	143.3117	0.0354	Omprakash, Hargulal, yogesh, daular, etc
				19	78	Private	Farrow Land	304.1737	0.0752	Premasen
				129	79	Private	Farrow Land	553.4292	0.1368	Premasen
				155, 257	113	Private	Farrow Land	413.2523	0.1021	Madanlal kardham, shutpal mahender,
				71	112	Private	Farrow Land	413.2523	0.1021	Tejpal Singh
				132, 150	111	Private	Agriculture	785.9546	0.1942	Bhagwan Singh, Devender Kumar, Meerut Public School thru Tharachand Shastri, etc
				74, 137	110	Private	Agriculture	1011.2588	0.2499	Tharachand Shastri, etc
				112, 4, 11, 228	108	Private	Agriculture & N.N	689.6996	0.1704	Vijay, Tilakram, Premasen, ameerchand, Rajkumar, Amarnath, etc
				209	152	Private	Agriculture	312.0073	0.0771	Sardar Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				83	153	Private	Farrow Land	414.0976	0.1023	Amarnath, Rajkumar, Rajpal, Devendra Kumar
				82	156	Private	Agriculture	727.0187	0.1796	Dharamveer Singh, Omprakash, Jayprakash, etc
				82, 192	215	Private	Farrow Land	885.8853	0.2189	Dharamveer Singh, Omprakash, Jayprakash, Vipalmohan Thyagi, Major Vineet Thyagi, etc
				153	216	Private	Agriculture	608.2661	0.1503	Vikas Agarwal, Mothigarani
				39, 145, 146, 193, 195, 24	916	Private	Abadhi	220.0626	0.0544	Meherchand, Manoj kumar, Vinod kumar, Mahaveer, Jagveer, Udayveer, Sunil kumar, Ramjess, Rajkumar, Susheel kumar, etc
				288, 265	914	Private	Abadhi	400	0.0988	Saish Kumar, Vinod Kumar, Susheel Kumar, Pramod Kumar, Ravi kumar, Ramjess, Hukum Singh
				91	753	Private	Agriculture	470.8737	0.1164	Naresh Kumar
				89	754	Private	Agriculture	704.2302	0.1740	Santosh Kumar, Naresh Kumar
				101, 244	757	Private	Agriculture	283.77	0.0701	Deshgupta, Bhagwath jagwath Kela
				91	758	Private	Agriculture	281.4586	0.0695	Naresh Kumar
				79	760	Private	Agriculture	108.7226	0.0269	Santosh Devi, Naresh Kumar
				248	761	Private	Agriculture	97.1041	0.0240	Shivram, Shasheer, Naresh Kumar
				91	762	Private	Agriculture	139.9158	0.0346	Naresh Kumar
				89	764	Private	Agriculture	86.9104	0.0215	Santosh Devi, Naresh Kumar
				229, 48, 53	102	Private	Agriculture / Abadhi	2200	0.5436	Vijay pal, Dharampal, Sevaram, somdatt, Gangasharan, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				186, 261	217	Private	Agriculture	296	0.0731	Rakesh Kumar, Sundeep Kumar, Rammeher Singh, Anand Singh, Sudheer, Sandeep, Sardar Singh
				91	763	Private	Agriculture	124.9219	0.0309	Naresh Kumar
				239	870	Private	Farrow Land	104.4843	0.0258	Shamlal, Subhashchand, Harion, etc
				63	863	Private	Agriculture	50.3366	0.0124	Jandu
				156	877	Private	Agriculture	163.2399	0.0403	Mansaram
				156	878	Private	Agriculture	217.1232	0.0537	Mansaram
				72	847	Private	Agriculture	139.9037	0.0346	Vinod Kumar Singal, Vikas Singal, etc
				237	846	Private	Farrow Land	85.9656	0.0212	Shamlal, Satish Kumar, etc
				159	840	Private	Farrow Land	126.4797	0.0313	Vijaypal, Doopchand, Smt Suman
				139, 196	838	Private	Agriculture	125.9256	0.0311	Ramnath Boolhen
				72	837	Private	Agriculture	81.0193	0.0200	Vinod Singal, Vikas Singal, Smt. Tirupathi Devi
				96.72	836	Private	Farrow Land	32.0369	0.0079	Nanne, Vinod Singal, etc & Smt. Tirupathi Devi
				196	835	Private	Farrow Land	59.9918	0.0148	Ramnath
				72	834	Private	Farrow Land	257.819	0.0637	Vinod Kumar, Vinay Kumar, etc & Smt Tirupathi Devi
				23, 201, 124, 46	115	Private	Agriculture, Abadhi & N.N	270.7908	0.0669	Ramchander, Brham Singh, Bheem Singh, Manukumar, Pratapo Singh, Raj Karan, Mathra Prasad, Girver Singh
				71	114	Private	Agriculture	204.8396	0.0506	Tajpal Singh
				112, 219, 11	108	Private	Agriculture & N.N	875.3879	0.2163	Vijay, Tilakram, Premasen, ameerchand, Rajkumar, Amarnath, etc
				297	144	Private	Farrow Land	375.7487	0.0928	Sathyavathi, Naresh Mohan, etc
				161	152	Private	Agriculture	111.6256	0.0276	Sardar Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				188	218	Private	Agriculture	240	0.0593	Ram Meher, Virender, Anand, etc.
			(10) Ikhlasnagar Dabka	124	564	Private	Agriculture	1894.3819	0.4681	Jayprakash Mittal, Chadraprakash Mithal
				23	554	Private	Agriculture	1270.1563	0.3139	Ompakash, Satyaprakash, etc
				156	553	Private	Farrow Land	1201.9356	0.2970	Rajkumar, Krishna kumar, etc
				186	549	Private	Agriculture	1159.2643	0.2865	Vinod Kumar, Sunil Kumar, Anil Kumar
				187	442	Private	Agriculture	1598.8677	0.3951	Vedprakash, Syreshpal
				133	434	Private	Agriculture	1793.2746	0.4431	Rachna Singh, Rajval Verma, etc
				53	431	Private	Agriculture	760.3324	0.1879	Kavarpal Singh, Rajkumar, Brij Kumar, etc
				8	429	Private	Farrow Land	428.8332	0.1060	Ashwini Kumar, Mahaveer, Nanku, etc
				260	472	Government	N.N	672.1574	0.1661	-
				157	473	Private	Farrow Land	832.0496	0.2056	Krishnapal, Sripal
				71	475	Private	Agriculture/ Abadhi	1326.3872	0.3277	Smt. Stahviri, Stayaprakash, Usharani, Rajeev Kumar, N.N, etc
				70, 71, 198	479	Private	Farrow Land	986.5702	0.2438	Jagdeesh, Jaswal
				171	580	Private	Farrow Land / Abadhi	383.4407	0.0947	Rajender Singh, Sunil Kumar, etc
				4	582	Private	Farrow Land	410.8631	0.1015	Dharamveer
				124	564	Private	Agriculture	511.3074	0.1263	Jay Prakash Mithal, Chandra Prakash Mithal
				216	555	Private	Farrow Land	345.113	0.0853	Arvind Kumar Mithal, etc
				218, 94	452	Private	Abadhi	382.2982	0.0945	Poonam Jaisval, Surender Singh, etc
				26	455	Private	Agriculture	257.1194	0.0635	Ompal Singh, etc
				52	458	Private	Agriculture	545.6546	0.1348	Ghasiram
				220	459	Private	Agriculture	199.6197	0.0493	Manoharlal, Mithalsen, etc
				119	461	Private	Agriculture	346.5347	0.0856	Ravishankar, Susheela Devi, Dr. Rachna Singh, Sindhu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				193	466	Private	Agriculture	379.997	0.0939	Dinesh Kumar, Ashok Kumar, etc
				8	467	Private	Farrow Land	47.1766	0.0117	Mahaveer, Nanku, Chamanlal Chavla
				67	468	Private	Farrow Land	114.7517	0.0284	Jay Kishan, Mahaveer, etc
				8	471	Private	Farrow Land	139.4001	0.0344	Mahaveer, Nanku, Chamanlal Chavla
				108	477	Private	Farrow Land	338.6405	0.0837	Mahaveer, Nanku, Chamanlal Chavla
				198	479	Private	Farrow Land	325.8175	0.0805	Jagdeesh, Jaswal
			(11) Nanglatashi Kasimpur	347	856	Private	Agriculture	1576.1211	0.3895	Rakesh Singh, Dinesh Singh, Chaman Singh, Ram Singh, C. L. Arya, etc
				145, 133, 82	845	Private	Farrow Land	600	0.1483	Jai Prakash, Kishan Pal, etc
				257	828	Private	Agriculture	1271.4465	0.3142	Mahavir Singh, etc
				211	827	Private	Farrow Land	1070.0361	0.2644	Badhan Singh
				394	825	Private	Farrow Land	220.5306	0.0545	Manju Agarwal, etc
				592	903	Government	Farrow Land	3095.4676	0.7649	MDA
				592	906	Government	Farrow Land	200	0.0494	MDA
				592	908	Government	Farrow Land	1220	0.3015	MDA
				592	950	Government	Farrow Land	1039.7306	0.2569	MDA
				592	951	Government	Farrow Land	420.4912	0.1039	MDA
				592	952	Government	Farrow Land	439.0146	0.1085	MDA
				592	953	Government	Farrow Land	462.046	0.1142	MDA
				592	258	Government	Farrow Land	1998.7582	0.4939	MDA
				592	254	Government	Farrow Land	1213.449	0.2998	MDA
				592	252	Government	Farrow Land	739.8777	0.1828	MDA
				592	243	Government	Farrow Land	2065.8446	0.5105	MDA
				592	242	Government	Farrow Land	4658.8706	1.1512	MDA
				353, 354	173	Private	Abadi, Cnld Storage	1200	0.2965	Manohar Cold Storage & General Mills, Bhagwat Singh, etc
				66, 356	185	Private	Farrow Land/Abadi	420.566	0.1039	Nareshpal, Dharam Singh, Rajkali, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100, 364, 347	856	Private	Agriculture	362.6922	0.0896	Rakesh Singh, Dinesh Singh, Chaman Singh, Ram Singh, C. L. Arya, etc
				309, 145	846	Private	Farrow Land	361.6899	0.0894	Jai Prakash, Dharampal Singh, Rubi Tomar, etc
				437, 42	844	Private	Abadhi, etc	354.867	0.0877	Suneetha, Sumithra Devi, Priyanka, Smt Bala
				257	828	Private	Agriculture	333.7339	0.0825	Mahavir Singh, etc
				211	827	Private	Farrow Land	200.2354	0.0495	Badhan Singh
				538, 519, 563	894	Private	Farrow Land	56.611	0.0140	Mangthe, Ompal, Rampal, Subrathi, Rani, etc
				316	902	Private	Agriculture	328.9728	0.0813	Ranjit Singh
				592	905	Government	Farrow Land	367.1764	0.0907	MDA
				592	908	Government	Farrow Land	282.868	0.0699	MDA
				592	950	Government	Farrow Land	170	0.0420	MDA
				592	951	Government	Farrow Land	180	0.0445	MDA
				592	952	Government	Farrow Land	200	0.0494	MDA
				592	953	Government	Farrow Land	269.113	0.0665	MDA
				592	954	Government	Farrow Land	129.3863	0.0320	MDA
				592	976	Government, N.N & Private	Farrow Land	79.1677	0.0196	Jay Dayal, MDA, Kabristhan
				592	258	Government	Farrow Land	404.4583	0.0999	MDA
				592	254	Government	Farrow Land	315.664	0.0780	MDA
				592	240	Government	Farrow Land	691.4544	0.1709	MDA
				419	187	Private & Government	Abadhi	319.7991	0.0790	Surender Kumar, etc
				66, 356	185	Private	Farrow Land/Abadi	910	0.2249	Nareshpal, Dharam Singh, Rajkali, etc
				596	184	Railway	Farrow Land	74.3194	0.0184	-
				262	183	Private	Farrow Land	1693.4503	0.4184	Naamchand, etc
			(12) Dantal	124, 139	3	Private	Agriculture	748.951	0.1851	Rakesh Kumar, Ved Prakash, etc
				162	1/1	Private	Abadi	761.6134	0.1882	Stender Singh, Vijay Kumar, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				118	11	Private	Agriculture	6.2726	0.0015	Harbir Singh, Malkhan Singh, Anil Kumar, Sunil Kumar, etc
				26, 131	13/1	Private	Abadi	781.61	0.1931	Kamarpal Singh, Vidyawati, etc
				182	14	Government	Siling	654.1915	0.1616	Siling
				198, 199	2	Private	Agriculture	117.5369	0.0290	Premwati, etc
				10	9	Government	Boundary Wall	150.7463	0.0372	Sardar Balabh Bahi Patel Krishi & Research Institute
				26, 131	13/1	Private	Abadi	202.3666	0.0500	Kamarpal Singh, Vidyawati, etc
				160, 131	12 / 2	Private	Agriculture	6.2726	0.0015	Sumender, Bhupender, etc
		Sardhana	(1)Jatauli	34, 141	376	Private	Agriculture	785.478	0.1941	Rajender, Krishan Kumar, Horam, etc
				34	377	Private	Agriculture	54	0.0133	Krishan Kumar, etc
				34	381	Private	Agriculture	669.8364	0.1655	Krishan Kumar, etc
				196	382	Private	Agriculture	641.8204	0.1586	Krishan Kumar, Horam, etc
				34, 118, 196, 214	385	Private	Agriculture	500	0.1235	Krishan Kumar, Tezpal, Horam, Kripal, Sukhbir Singh, etc
				201	394	Private	Agriculture	306.0504	0.0756	Horam, etc
				1, 70	389	Private	Agriculture	265.287	0.0656	Ajab Singh, Dahrampal, etc
				1, 70	388	Private	Agriculture	55.9735	0.0138	Ajab Singh, Dahrampal, etc
				1	390	Private	Agriculture	380	0.0939	Ajab Singh, etc
				1	411	Private	Agriculture	208.9084	0.0516	Ajab Singh, etc
				118	410	Private	Agriculture	271.878	0.0672	Tezpal, etc
				70, 118	409	Private	Agriculture	60	0.0148	Dharampal, Tezpal, etc
				142	417	Private	Agriculture	442.1153	0.1092	Rajender Singh, etc
				240	434	Private	Agriculture	90	0.0222	Jaypal, etc
				131	450	Private	Agriculture	279.7875	0.0691	Mahavir Singh, Brijvir Singh, etc
				193	451	Private	Agriculture	318.1639	0.0786	Anilmohan, etc
				2, 4	447	Private	Agriculture	772.2648	0.1908	Raj Kumar, Ashok Bhagga, Ruchi Jain, Kripal Singh, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				128	465	Private	Agriculture/ Factory	255.1172	0.0630	Munni Devi, M/s NALCO India Pvt. Ltd. Trough Adarsh Kumar Anand, etc
				178	472	Private	Agriculture	270	0.0667	Satyapal, etc
				108	470	Private	Agriculture	221.3079	0.0547	Rajender Kumar, Sharma, etc
				176	469	Private	Agriculture	412.8577	0.1020	Smt. Usha Mallik, etc
				5	477	Private	Agriculture	317.5003	0.0785	Sailender Kumar, Deepak Chowdhary, etc
				70	478	Private	Agriculture	440.5009	0.1088	Hari Kumar Tyagi, Anand Swarup, etc
				240	434	Private	Agriculture	571.7346	0.1413	Jaipal
				18	585	Private	Agriculture	376.533	0.0930	Sohan Pal, etc
				18	586	Private	Agriculture	252.7469	0.0625	Sohan Pal, etc
				18	587	Private	Agriculture	359.1651	0.0887	Sohan Pal, etc
				18	588	Private	Agriculture	238.7237	0.0590	Sohan Pal, etc
				18	574	Private	Agriculture	430.9664	0.1065	Sohan Pal, etc
				52	564	Private	Agriculture	380	0.0939	Rajender Pal, etc
				52, 78	556	Private	Agriculture	319.4778	0.0789	Akchay Singh, etc
				78	552	Private	Agriculture	507.743	0.1255	Rajender Singh, Nawab Singh, etc
				78	746	Private	Agriculture	444.0997	0.1097	Mahavir Singh, Brijvir, Rajender Singh, etc
				78	745	Private	Agriculture	380	0.0939	Mahavir Singh, Brijvir, etc
				156, 41	1106	Private	Agriculture	158.2381	0.0391	Satya Pal, Horam, etc
				42	1105	Private	Agriculture	956	0.2362	Jagmal, Swaraj, etc
				61	1100	Private	Agriculture	803.7681	0.1986	Jagmal, etc
				61	1099	Private	Agriculture	292.885	0.0724	Sukhviri Singh, Krishan Pal, Mahender Singh, Hukam Singh, Jagmal, etc
				164, 61	1048	Private	Agriculture	75	0.0185	Mahesh Kumar Mishra, Anil Kumar, Sachin Kumar, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				61	1052	Private	Agriculture	567.9048	0.1403	Jaypal, Kuri Devi, Prahlad Singh, Vijay Pal, Mahenderpal, Nepal, Krishanpal, Rishipal, Mehrishipal, etc
				85	1053	Private	Agriculture	702.7053	0.1736	Pritam, etc
				34	377	Private	Agriculture	181.4358	0.0448	Krishan Kumar, etc
				34	379	Private	Agriculture	99.8498	0.0247	Krishan Kumar, etc
				34,41	380	Private	Agriculture	174.9451	0.0432	Krishan Kumar, Kripal Singh, Sahansar Pal, Sohanvir, Jitender, Vir Singh, etc
				34,118	385	Private	Agriculture	107.4731	0.0266	Tezpal, Krishan Kumar, Kripal Singh, Sahansar Pal, Sohanvir, Jitender, Vir Singh, etc
				34	386	Private	Agriculture	341.5418	0.0844	Arun Kumar, Krishan Kumar, Sambhudayal, Shailender Kumar, Raman Prakash, etc
				170	388	Private	Agriculture	178.6034	0.0441	Ajab Singh, Dharampal, etc
				67	413	Private	Agriculture	167.7559	0.0415	Dharam Pal Singh, Sarala, Vijay Pratap, Ravi Pratap, etc
				181	414	Private	Agriculture	35.3955	0.0087	Vikash, etc
				117	423	Private	Agriculture	30	0.0074	Smt. Vina Bhutani, Harprashad Bhutani, etc
				117	422	Private	Agriculture	77.3978	0.0191	Yogesh, Rakesh, Vinod, Mata Rani, etc
				66	421	Private	Agriculture	114.1975	0.0282	Deepak Jain, etc
				169	442	Private	Agriculture	135.9441	0.0336	Anil kumar, Arvind Kumar, Sanjay kumar, etc
				162	467	Private	Agriculture	242.0331	0.0598	Kusum Jata, Ram Swarup, etc
				91	637	Private	Agriculture	118.6248	0.0293	Rajender, etc
				149	638	Private	Agriculture	22.3362	0.0055	Ranvir Singh, Kalawati, Malkhan Singh, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				61	639	Private	Agriculture	93.7005	0.0232	Smt. Krishana, Bhopal Singh, Jaipal, etc
				27	644	Private	Agriculture	65	0.0161	Smt. Krishna, Bhopal Singh, etc
				61	632	Private	Agriculture	102.5679	0.0253	Rajesh kumar, Jaipal, etc
				51	590	Private	Agriculture	130.109	0.0321	Sardar Singh, etc
				117	593	Private	Agriculture	70	0.0173	Dr. Satenderpal Singh, Maninderpal
				117	592	Private	Agriculture	84.2086	0.0208	Dr. Satenderpal Singh, Maninderpal
				78	571	Private	Agriculture	104.1659	0.0257	Akshay Singh, etc
				78	567	Private	Agriculture	2.3361	0.0006	Akshay Singh, etc
				78	554	Private	Agriculture	91.9844	0.0227	Akshay Singh, etc
				65	741	Private	Agriculture	148.4343	0.0367	Mahaveer, Brijveer, Rajender Singh, Brijpal, etc
				141	992	Private	Agriculture	180	0.0445	Rohit, Gajender, Kudidevi, etc
				61	1105	Private	Agriculture	356.0576	0.0880*	Jagmal, Swaraj, etc
				44	997	Private	Agriculture	64	0.0158	Charan Singh, etc
				44	996	Private	Agriculture	130.148	0.0322	Charan Singh, etc
				44	995	Private	Agriculture	100	0.0247	Charan Singh, etc
				61	1046	Private	Agriculture	60	0.0148	Jaipal, etc
				35	1735	Private	Factory	178.4985	0.0441	Guru Baksh lal Factory
				57	1737	Private	Agriculture	1054.7778	0.2606	Jaipal, etc
				57	1738	Private	Farrow Land	313.7167	0.0775	Kumari Anitha
				57	1739	Private	Agriculture	1794.218	0.4433	Jaipal, etc
				57	1740	Private	Agriculture	51.603	0.0128	Jaipal, etc
				57	1749	Private	Agriculture	801.2203	0.1980	Jaipal, Sumitha Maheshwari, Alka Maheshwari, Dushyanth Singh, Jitender Sharma, etc
				57	1748	Private	Agriculture	1198.0401	0.2960	Jaipal
				57	1747	Private	Agriculture	211.3626	0.0522	Jaipal
				118	1755	Private	Agriculture	1224.6298	0.3026	Tejpal, Mahender, etc
				57	1756	Private	Agriculture	862.598	0.2131	Jaipal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				119	1760	Private	Agriculture	2252.5546	0.5566	Mahender
				57	1757	Private	Agriculture	313.8464	0.0776	Jaipal
				57	1759	Private	Agriculture	1187.6652	0.2935	Mahender
				121	1634	Private	Agriculture	1187.5907	0.2934	Kripal Singh, etc
				121	1633	Private	Agriculture	1095.3018	0.2706	Mahender, etc
				119	1635	Private	Agriculture	16.8569	0.0042	Mahender, etc
				119	1768	Private	Agriculture	566.198	0.1399	Amerpal, Dharampal, Mahender, Baburam, etc
				33, 28	1769	Private	Agriculture	1193.6314	0.2949	Amarpal, etc & Rahul, etc
				121	1632	Private	Agriculture	929.2436	0.2296	Kirath Singh, etc
				33	1770	Private	Agriculture	251.2885	0.0621	Giriraj, etc, Rajveer Singh, etc, Ramveer, etc, Anil kumar, etc & Gaurav kumar, etc
				12, 18, 22	1502	Private	Agriculture	360	0.0890	Ajab Singh, Omprakash, Gile Singh, Jai bhagwan, Sevaram, Shyam singh, etc
				162	1503	Private	Agriculture	531.7078	0.1314	Ramswaroop, etc
				12	1498	Private	Agriculture	480.3874	0.1187	Ajab singh, etc
				1, 162	1504	Private	Agriculture	562.4492	0.1390	Ajab singh, Ramswaroop, etc
				1, 117	1497	Private	Agriculture	582.4561	0.1439	Yogesh kumar, etc & Ajab singh, etc
				1, 162	1505	Private	Agriculture	619.3649	0.1530	Ajab singh, Ramswaroop, etc
				1, 117	1495	Private	Agriculture	945.1189	0.2335	Yogesh kumar, etc & Ajab singh, etc
				1, 162	1510	Private	Agriculture	1947.1293	0.4811	Ajab singh, Ramswaroop, etc
				1	1494	Private	Agriculture	371.3575	0.0918	Ajab singh, etc
				1, 162	1511	Private	Agriculture	1999.7332	0.4941	Ajab singh, Ramswaroop, etc
				162	1516	Private	Agriculture	1352.1732	0.3341	Ramswaroop, etc
				106	1513	Private	Agriculture	1285.0491	0.3175	Ramchander, etc
				30	1514	Private	Agriculture	1010	0.2496	Bishanpal, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				30	1515	Private	Agriculture	620.1302	0.1532	Bishanpal, etc
				162	1517	Private	Agriculture	383.2047	0.0947	Bishanpal, etc
				17	1032	Private	Agriculture	1030.337	0.2546	Bishanpal, Ramswaroop, etc
				17	1033	Private	Agriculture	1195.186	0.2953	Eimna Kumar, etc
				17	1034	Private	Agriculture	14.4634	0.0036	Eimna Kumar, etc
				241, 153, 22	1058	Private	Agriculture	63.1623	0.0156	Ankith kumar, etc & Rajveer, etc & Jaipal, etc
				17	1057	Private	Agriculture	956.7716	0.2364	Eimna Kumar, etc
				17	1056	Private	Agriculture	2090.6354	0.5166	Eimna Kumar, etc
				17	1035	Private	Agriculture	121.1693	0.0299	Eimna Kumar, etc
				17, 79, 88	1069	Private	Agriculture	28.3313	0.0070	Eimna Kumar, etc, Devender kumar, etc, Thirsti Associates thru Pradeep kumar
				17	1055	Private	Agriculture	1129.5531	0.2791	Eimna Kumar, etc
				85	1053	Private	Agriculture	1000	0.2471	Pritam, etc
				85	1054	Private	Agriculture	940	0.2323	Preetham, etc
				189, 192	1052	Private	Agriculture	1098.5708	0.2715	Jaypal, Kuri Devi, Prahlad Singh, Vijay Pal, Mahenderpal, Nepal, Krishanpal, Rishipal, Mehrishipal, etc
			(2) Roshanpur Doril	2, 102, 132	149	Private	Farrow Land	81.0121	0.0200	City Development, Bharath Nagar complex Meerut thru Indrapal, etc
				10	60	Private	Agriculture	141.7439	0.0350	Akshayapuram Sehkari Avaas Samithi thru Suni kumar gupta, Snath Lal Guptha
				2	65	Private	Agriculture	56.9454	0.0141	Attha Singh, Tara Singh, etc
				2	63	Private	Agriculture	150	0.0371	Attha Singh, Tara Singh, etc
				2	62	Private	Agriculture	100	0.0247	Attha Singh, Tara Singh, etc
				2	61	Private	Agriculture	312.4876	0.0772	Attha Singh, Tara Singh, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				325	29	Private	Agriculture	254.7889	0.0630	Swaorop Singh, etc
				325	30	Private	Agriculture	30	0.0074	Vivek Chawan, Kushanpal, etc
				325, 215	28	Private	Agriculture	430.2213	0.1063	Raghuveer, etc
				215	27	Private	Agriculture	431.2679	0.1066	Raghuveer Singh
				215	26	Private	Agriculture	396.8275	0.0981	Raghuveer, etc
				324	13	Private	Agriculture	174.1334	0.0430	Sahadev, etc
				324	14	Private	Agriculture	118.3323	0.0292	GVC Hitech Limited
				18, 81	16	Private	Agriculture	930.8648	0.2300	Sahadev, Indu trivedi, GVC Hitech, etc
				8, 60, 330	221	Private	Agriculture	250	0.0618	Ajay Kumar, Krishna kumar, etc
				330	222	Private	Agriculture	583.9603	0.1443	Savitha, etc
				330	223	Private	Agriculture	121.0818	0.0299	Savitha, etc
				228, 422, 224	219	Private	Agriculture	404.023	0.0998	Roshanlal, etc
				224	189	Private	Agriculture	947.1292	0.2340	Roshanlal, etc
				224	191	Private	Agriculture	550	0.1359	Roshanlal, etc
				237, 248, 246	165	Private	Farrow Land	650	0.1606	Rajendra Kumar, Ranveer Singh, Smt Shanthi Devi, etc
				114, 260, 235	164	Private	Agriculture	202.5076	0.0500	Nardev, Ramdev, Vasudev, Somdev, Satyaprakash, etc
				102, 132, 325	149	Private	Farrow Land	631.8417	0.1561	City Development, Bharath Nagar complex Meerut thru Indrapal, etc
				2	68	Private	Agriculture	151.3398	0.0374	Balveer Kour, etc
				2	70	Private	Agriculture	174.9076	0.0432	Balveer Kour, etc
				215	23	Private	Agriculture	143.0108	0.0353	Raghuveer, etc
				215	22	Private	Agriculture	365.7724	0.0904	Sahadev, Raju veer, Harbhans, etc
				348, 58, 376, 378	21	Private	Agriculture	233.1343	0.0576	Baghwath singh, Raj kumar, Rajendra kumar, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29, 324, 103	20	Private	Agriculture	239.0985	0.0591	Usha gerah, Mahindrapal aman singh, Sahadev, etc
				29, 146, 183	19	Private	Agriculture	538.4929	0.1331	Usha gerah, Mahindrapal aman singh, Sahadev, etc
				128, 9, 329, 18	18	Private	Agriculture	655.8014	0.1620	Abdul Najeed, Indu Trivedi, Pradeep Kumar, Swastik lyal, etc
			(3) Siwaya Jamalullapur	217, 16	754	Private	Agriculture	253.0377	0.0625	Amar Singh, Sukhvir, Kuldeep, etc
				183	756	Private	Agriculture	146.3039	0.0366	Sanjeev Kumar, Sandeep Kumar
				451	837	Government	G.S	1245.1906	0.3077	-
				182	757	Private	Agriculture	152.5469	0.0377	Sanjeev Kumar, Pradeep Kumar, Jagdish, etc
				181	758	Private	Agriculture	53.2154	0.0131	Sanjeev, Pradeep, etc
				182	838	Private	Agriculture	1091.5531	0.2697	Vijay Pal Singh, Vishen Singh, etc
				109	759	Private	Agriculture	417.1657	0.1031	Satyapal Singh, Barampal Singh, etc
				231	839	Private	Agriculture	528.56	0.1306	Sukhveer Singh, Sunredrapal Singh, etc
				305	840	Private	Agriculture	108.137	0.0267	Bikari, etc
				159	841	Private	Agriculture	470	0.1161	Chatrapal Singh, Kiranpal Singh, etc
				103	842	Private	Agriculture	104.2794	0.0258	Nawab Singh, etc
				109	762	Private	Agriculture	115.7266	0.0286	Balvir Singh, etc
				452	763	Government	G.S / Shamshan Ghat	181.0642	0.0447	-
				305	843	Private	Agriculture	188.719	0.0466	Bikari, etc
				103	844	Private	Agriculture	640.3185	0.1582	Navasi, etc
				212	765	Private	Agriculture	103.0193	0.0255	Subhash, Vijaypal Singh, etc
				109	766	Private	Agriculture	166.6677	0.0412	Balveer Singh, etc
				133	724	Private	Agriculture	82.0428	0.0203	Mrs. Kavitha Steels Pvt Ltd
				133	723	Private	Agriculture	205.3177	0.0507	Mrs. Kavitha Steels Pvt Ltd
				48, 214	845	Private	Agriculture	1959.6626	0.4842	Jayvender Singh, Smt Hukmu, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				133	720	Private	Agriculture	38.5656	0.0095	Mrs. Kavitha Steels Pvt Ltd
				143, 59	719	Private	Agriculture	233.6045	0.0577	Globe lab Ltd thru Balkrishna
				48, 224	847	Government	Agriculture	48.2794	0.0119	Jayvender Singh, Sardar Singh, etc
				122	561	Private	Agriculture	250.9849	0.0620	Baroo, etc
				122	560	Private	Agriculture	72.8324	0.0180	Baroo, etc
				122	558	Private	Agriculture	390.3009	0.0964	Baroo, etc
				208	538	Private	Agriculture	2.8293	0.0007	Manoj Kumar, Gurudatt, etc
				85	922	Private	Agriculture	1199.1688	0.2963	Smt. Trivedi Devi, etc
				119	531	Private	Agriculture	252.2367	0.0623	Vasudev, etc
				343, 240, 239	938	Private	School / Banjar	525.3643	0.1298	Harveer, etc
				239, 240	939	Private	Agriculture	427.1478	0.1055	Harveer Singh, etc
				119	530	Private	Agriculture	142.0831	0.0351	Vasudev, Aklesh, etc
				196	529	Private	Agriculture	200.7782	0.0496	Vijay Pal Singh, Vishen Singh, etc
				12, 210	525	Private	Agriculture	24.3637	0.0060	Shakunthala Devi, Mrs Amardeep Steel Pvt Ltd
				12	527	Private	Abadhi	378.8493	0.0936	Amardeep Steel Pvt Ltd, etc
				70	941	Private	Agriculture	680.5121	0.1682	Gile Singh, etc
				70	942	Private	Agriculture	598.301	0.1478	Gile Singh, etc
				239, 240	939	Private	Agriculture	44.6118	0.0110	Harveer Singh, etc
				61	943	Private	Agriculture	758.7471	0.1875	Gulveer Singh, etc
				442	944	Private	Abadhi	558.203	0.1379	Village Abadhi
				29, 151	976	Private	Agriculture	800	0.1977	Omvceerpal Singh, Yogendrapal Singh, Anil Kumar, etc
				442	504	Private	Abadhi	870.2632	0.2150	Village Ahadhi
				21	1251	Private	Agriculture	296.9907	0.0734	Asho Kumar, Raj Kumar, etc
				20	1252	Private	Agriculture	163.2761	0.0403	Arvind Kumar, etc
				97	303	Private	Agriculture	1452.8331	0.3590	Naveen Agarwal, etc
				163, 198	302	Private	Farrow Land	855.7226	0.2114	Vidya Teehnoglass Pvt Ltd thru Smt Amratha
				360, 208	1406	Private	Agriculture	471.75	0.1166	Ramdath, Kirathram, Asharam, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				198, 55, 124	298	Private	Agriculture	2038.5559	0.5037	Kulveer Singh, Smt Vimla, Vidya Technoglass Pvt Ltd, etc
				55	297	Private	Agriculture	617.2553	0.1525	Kulveer Singh, etc
				29	262	Private	Agriculture	894.707	0.2211	Ompal Singh, etc
				174, 128	1404	Private	Agriculture	270.582	0.0669	Smt Brijesh kumari, Yogender Singh, etc
				29, 83	261	Private	Agriculture	412.297	0.1019	Titan Batteries Pvt Ltd thru Smt. Shashi Mithal, Abishek, etc
				83	260	Private	Agriculture	791.848	0.1957	Titan Batteries Pvt Ltd thru Smt. Shashi Mithal, etc
				19	259	Private	Agriculture	589.8996	0.1458	Anil Kumar, Ravinder Kumar, etc
				326	258	Private	Agriculture	289.5874	0.0716	Vedpal, momraj, etc
				122, 88	257	Private	Agriculture	904.6436	0.2235	Tajpal Singh, etc
				233	1415	Private	Agriculture	164.6647	0.0407	Sukpal Singh, C.Anand, etc
				233	1416	Private	Agriculture	142.7729	0.0353	Sukpal Singh, C.Anand, etc
				233	1417	Private	Agriculture	189.481	0.0468	Sukpal Singh, C.Anand, etc
				113	1418	Private	Farrow Land	15.3175	0.0038	Vijendra Kumar, Krishna Kumar, etc
				113	1419	Private	Farrow Land	47.6879	0.0118	Vijendra Kumar, Krishna Kumar, etc
				221, 115	1421	Private	Agriculture	96.5494	0.0239	Smt Santosh Kumari, etc
				46, 122	256	Private	Agriculture	579.2246	0.1431	Smt Kamlesh Chadda, etc
				222	254	Private	Agriculture	156.7106	0.0387	Sumdra Jain, etc
				222	253	Private	Agriculture	327.0554	0.0808	Sumdra Jain, etc
				222, 141	252	Private	Agriculture	1293.2063	0.3195	Sumdra Jain, etc
				17, 115	1422	Private	Agriculture	169.2284	0.0418	Anil Kumar, etc
				143, 17, 427	1495	Private	Agriculture	44.0294	0.0109	Anil Kumar, etc
				143, 126, 142, 190	1496	Private	Agriculture	374.5544	0.0926	Manish Kumar, Leftanaunt Vishwamithra, Smt Shobha Dhawan, Mahaveer Singh, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				143	1497	Private	Agriculture	124.7358	0.0308	Mahaveer Singh, Sukhveer Singh, etc
				143	1498	Private	Agriculture	60.4052	0.0149	Mahaveer Singh, Sukhveer Singh, etc
				84, 21	251	Private	Agriculture	581.5827	0.1437	Delight Rangers Pvt Ltd, Ashok Kumar, etc
				105, 149, 21	250	Private	Agriculture	990.7517	0.2448	Neeraj Goel, Dhiraj Goel, etc
				170	247	Private	Agriculture	640.5847	0.1583	Ranveer Singh, Jagveer Singh, etc
				148	245	Private	Agriculture	440.3648	0.1088	Roopesh Kumar, Hareesh Kumar, etc
				227	244	Private	Agriculture	1598.6219	0.3950	Sensorpal, Indrapal, etc
				28	1499	Private	Agriculture	313.2882	0.0774	Omprakash, etc
				134	1501	Private	Agriculture	219.8962	0.0543	Mahaveer Singh, etc
				134	1502	Private	Agriculture	132.7886	0.0328	Mahaveer Singh, etc
				134, 21	1503	Private	Agriculture	298.0151	0.0736	Mahaveer Singh, etc
				70	243	Private	Agriculture	1121.3334	0.2771	Gile Singh, etc
				1	239	Government	Agriculture	2882.2077	0.7122	Agriculture Department
				134	1504	Private	Agriculture	166.981	0.0413	Mahaveer Singh, etc
				26	1510	Private	Agriculture	111.2696	0.0275	Eshwar Dayal, etc
				26	1511	Private	Agriculture	45.9052	0.0113	Eshwar Dayal, etc
				26, 197	1512	Private	Agriculture	52.6531	0.0130	Eshwar Dayal, etc & Vijay Kumar, etc
				197, 214, 186	1513	Private	Agriculture	142.8946	0.0353	Rahul Kumar, Vijay Kumar, Salekhchand, etc
				1	238	Government	Agriculture	769.1846	0.1901	Agriculture Department
				1	237	Government	Agriculture	615.0266	0.1520	Agriculture Department
				186, 162, 197	1514	Private	Agriculture	99.1193	0.0245	Smt. Rajarani, Rahul Kumar, Vijay Kumar, etc
				161, 136, 162, 215	1515	Private	Agriculture	212.6179	0.0525	Manoj Kumar, Smt Rajarani, Manju Guptha, Sanjay Agarwal, etc
			(4) Muqarrabpur Phalera	91, 51	85	Private	Farrow Land	393.12	0.0971	Deepak Housing Society, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				207, 208	79	Private	Abadhi	88.62	0.0219	Vinod, Harful, Modi Rubber Industries
				92, 149	59	Private	Farrow Land	163.2	0.0403	Devkaran, Mahindrapal Sharma, etc
				4	58	Private	Agriculture	120.22	0.0297	Ather Singh, Thara Singh, etc
				58, 177	55	Private	Agriculture	31.54	0.0078	Smt Chameli, Ravi Kumar Singhal, etc
				59, 73	54	Private	Agriculture	298.02	0.0736	Channo Devi, Jawaharlal, etc & Modi Rubber Industries Pvt Ltd
				108	461	Private	Agriculture / Abadhi	251.69	0.0622	Nirmala nath, etc & MDA
				312	459	Government	Farrow Land	141.51	0.0350	-
				312	361	Government	Farrow Land	410.48	0.1014	MDA
				312	360	Government	Farrow Land	11.45	0.0028	MDA
			(5) Daurala	573	2002	Private	Agriculture	1122.5	0.2774	Ram Mahar Singh, etc
				284	1999	Private	Agriculture	378.78	0.0936	Harkishor Gupta, Atul kumar, etc
				42	1996	Private	Agriculture	497.1	0.1228	Satyapal Singh, Vijay Kumar, etc
				738	1991	Private	Agriculture	428.33	0.1058	Sunil Kumar, etc
				189	1990	Private	Agriculture	466.91	0.1154	Chatarpal Singh, Maharpal Singh, etc
				739	1989	Private	Agriculture	447.17	0.1105	Suraj Mal, etc
				555	1987	Private	Agriculture	296.88	0.0734	Ramesh Singh, Rajnarayan Singh, etc
				522	1986	Private	Agriculture	258.82	0.0640	Mandhata, Balram Singh, etc
				554	1985	Private	Agriculture	330.57	0.0817	Smt, Durga Verma, etc
				634	1972	Private	Agriculture	349.87	0.0865	Harmit Singh, Smt. Sunita Gupta, Vineet, etc
				634	1970	Private	Agriculture	536.06	0.1325	Vineet, etc
				345	1969	Private	Agriculture	827.61	0.2045	Harmit Singh, etc
				670	1967	Private	Agriculture	1298.42	0.3208	Pramod Kumari, etc
				23	1917	Private	Agriculture	475.54	0.1175	Anil kumar, Dipa Agarwal, Anita Gupta, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				139	1916	Private	Agriculture	256.97	0.0635	Sunil Kumar, etc
				189	1912	Private	Agriculture	551.01	0.1362	Chatarpal Singh, etc
				54	1911	Private	Agriculture	223.39	0.0552	Inderpal Singh, Vijander Singh, etc
				587	1909	Private	Agriculture	445.37	0.1100	Rajender Singh, Janak Singh, etc
				585	1908	Private	Agriculture	220.47	0.0545	Raj Kumar Singh, etc
				430	1897	Private	Agriculture	603.22	0.1491	Ajender Singh, Yogender Singh, etc
				430	1895	Private	Agriculture	692.15	0.1710	Bhopal Singh, Ompal Singh, etc
				247	1741	Private	Agriculture	190.4	0.0470	Jasveer Singh, Satyaveer Singh, etc
				816	1739	Private	Agriculture	223.54	0.0552	Harvansh, etc
				795	1738	Private	Farrow Land	34.09	0.0084	Brajpal Singh, Maipal Singh, etc
				795, 817	1737	Private	Agriculture	172.53	0.0426	Brajpal Singh, Maipal Singh, etc
				224	1760	Private	Agriculture	253.53	0.0626	Jitendernath Goel, etc
				549	1735	Private	Agriculture	481.1	0.1189	Ramcharan, Tilakram, etc
				549	1734	Private	Agriculture	169.14	0.0418	Ramcharan, Tilakram, etc
				161,303, 114, 306, 328, 395, 396, 688	1733	Private	Agriculture	803.41	0.1985	Dharamveer Singh, Ashok Kumar, etc
				161,303, 114, 307	1733	Private	Agriculture	561.32	0.1387	Dharamveer Singh, Ashok Kumar, etc
				10, 8, 3,709, 710	1727	Private	Abadhi	68.58	0.0169	Anil Kumar, Aravind Kumar, Aman Singh, etc
				10	1726	Private	Abadhi	90	0.0222	Arvind Kumar, etc
				10	1724	Private	Abadhi	160	0.0395	Arvind Kumar, etc
				9	1723	Private	Abadhi	130	0.0321	Ashok Kumar, Etc
				10	1722	Private	Abadhi	180	0.0445	Arvind Kumar, etc
				980	1721	Private	Abadhi	108	0.0267	Sugar Mill
				987	1713	Government	G.S	262.4368	0.0648	-
				14	1712	Government	G.S	290	0.0717	School
				989	1711	Government	G.S	177.1276	0.0438	-
				973	1708	Private	Abadhi	67.07	0.0166	Village Abadhi
				995	1705	Private	Abadhi	26.41	0.0065	Kisan Sahkari Samiti
				704	1702	Private	Abadhi	21.85	0.0054	Swaraj Singh, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				704,487.4 64	1701	Private	Abadhi	39.63	0.0098	Mustakh Ahmed, Nisar Ali, Vimal Engineering Collage, etc
				602	1697	Private	Abadhi	24.3	0.0060	Sugar Mill
				985	1429	Government	Farrow Land	35.85	0.0089	-
				98	1432	Private	Abadhi	151.12	0.0373	Diwan Industries trough Vidya Sagar
				735, 214	1435	Private	Abadhi	91.94	0.0227	Diwan Industries trough Vidya Sagar
				458	1444	Private	Abadhi	188.2	0.0465	Diwan Industries trough Vidya Sagar
				340	1445	Private	Agriculture	178.14	0.0440	Udayvir Verma, etc
				241	1446	Private	Agriculture	143.19	0.0354	Jayvir Verma, etc
				49	1449	Private	Agriculture	55.12	0.0136	Smt. Sarika Sekhar, etc
				717	1450	Private	Agriculture	63.56	0.0157	Satyavir, etc
				59	1451	Private	Agriculture	136.8	0.0338	Nitin, etc
				616	1452	Private	Agriculture	370.58	0.0916	Ramcharan, etc
				703	1453	Private	Agriculture	186.58	0.0461	Shivcharan, etc
				120	1454	Private	Agriculture	79.89	0.0197	Krit Singh, etc
				343	1480	Private	Agriculture	84.1	0.0208	Nishant, Vikrant, etc
				607, 343	1481	Private	Abadhi	76.28	0.0188	Nishant, Vikrant, Hotel management trough Ajay Shanker, etc
				589, 607	1482	Private	Abadhi	86.01	0.0213	Ramkripal, etc
				250	1484	Private	Abadhi	130.95	0.0324	Hotel management trough Ajay Shanker, etc
				236	1485	Private	Abadhi	120.37	0.0297	M/s Indian Corporation Ltd. trough Company
				662	1505	Private	Agriculture	282.35	0.0698	Surender Gupta, M/s kailash Dairy Ltd. trough M. D. Vijender Kumar, etc
				604, 583	1506	Private	Agriculture	541.2	0.1337	Kishanlal, Bhardwaj, Rajender, Sunil, etc
				43, 760	1509	Private	Agriculture	230.59	0.0570	Satyapal, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				764, 721. 470	1517	Private	Agriculture	282.15	0.0697	Ajay Kumar, Gajender Singh, etc
				80	1519	Private	Agriculture/ Abadhi	305.39	0.0755	Dinesh Kumar, etc
				538	1535	Private	Agriculture	121.73	0.0301	Sehdev, etc
				718	1536	Private	Agriculture/ Abadhi	148.44	0.0367	Sehdev, etc
				223	1537	Private	Agriculture	185.92	0.0459	Nakul Singh, etc
				470	1538	Private	Agriculture	113.65	0.0281	Mahender Singh, etc
				818	1539	Private	Abadhi	85.69	0.0212	Vir Singh, etc
				818	1556	Private	Agriculture	280.65	0.0693	Jitender Singh, Rajpal, etc
				976	1559	Private	Abadhi	186.91	0.0462	Sunehra, etc
				28	1560	Private	Agriculture	76.09	0.0188	Ajab Singh, etc
				474	1561	Private	Farrow Land	125.87	0.0311	Varun kumar, etc
				372	1562	Private	Bagh	134.03	0.0331	Badan Singh, etc
				372	1563	Private	Agriculture	94.03	0.0232	Badan Singh, etc
				191	1583	Private	Agriculture	37.79	0.0093	Jagpal Singh, etc
				348	1606	Private	Agriculture/ Abadhi	137.18	0.0339	Pawan Kumar, Dharamvir, etc
				223	1656	Private	Agriculture	122.06	0.0302	Jagcir Singh, etc
				46	1657	Private	Agriculture/ Abadhi	162.79	0.0402	Charanvir Singh, etc
				162	1658	Private	Agriculture/ Abadhi	179.74	0.0444	Ravinder Singh, etc
				185	1661	Private	Abadhi	68.4	0.0169	Jabar Singh, etc
				90	1667	Private	Abadhi	83.37	0.0206	Jitender, Satender, etc
				657	1672	Private	Abadhi	144	0.0356	Sanjiv Chawdhary, Rajiv Chawdhary, Smt. Vimala Devi, etc
				196	1673	Private	Abadhi	80	0.0198	Jagveer, Harveer, etc
				655, 27, 388, 636	1668	Private	Abadhi	431.51	0.1066	Abdul hakeem, Brahm Singh, Vijaypal, etc
			(6) Mataur	105	959	Private	Agriculture	100.28	0.0248	Jile Singh, Rajkumar, Rajeshwari, Harbir, etc
				576	945	Government	Police Station	159.34	0.0394	
				560	944	Private	Abadhi	94.34	0.0233	Village Abadhi
				260	943	Private	Agriculture	283.55	0.0701	Anand Prasad, Kishore Kumar, Madanpal, Vijender Singh, madan sen, Satveer, etc
				260	942	Private	Agriculture	157.26	0.0389	Bhrampal, Moofchand, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				567	940	Government	Veternary Hospital	110.21	0.0272	-
				155	902	Private	Agriculture	393.49	0.0972	Karan Singh, etc
				269	900	Private	Agriculture	107.75	0.0266	Bal Singh, Harpal Singh, etc
				141	894	Private	Agriculture	370.9	0.0916	Tejpal, Jagveer, etc
				82	893	Private	Agriculture	412.35	0.1019	Gomthi, etc
				57	890	Private	Agriculture	228.23	0.0564	Lokesh, Vickesh, Smt Santosh, etc
				75	866	Private	Agriculture	533.12	0.1317	Sanjay Kumar, Naveen Kumar, Avinash, Rajpal Singh, etc
				219	863	Private	Agriculture	198.59	0.0491	Pushkar Singh, etc
				69	864	Private	Agriculture	474	0.1171	Rishpal Singh, Omprakash, A.C.Aurora, etc
				451	820	Private	Agriculture	98.33	0.0243	Sharad Kumar, etc
				405	817	Private	Agriculture	40.84	0.0101	Rajender Singh, etc.
				99	816	Private	Agriculture	31.79	0.0079	Baleshwar, Narender Kumar, Virender Kumar, Sudhesh Kumar, etc
				85	815	Private	Agriculture	30.36	0.0075	Subhash, Rajveer, Jeshwanth Singh, Shanthi, etc
				257	809	Private	Agriculture	259.49	0.0641	Bhavar Singh, Chottelal, Rajkumar, Shiv Kumar, Moorthy Devi, etc
				550	807	Government	Panchayat Office	80.53	0.0199	-
				578	806	Government	Godown	97.94	0.0242	-
				560	803	Private	Abadhi	1492	0.3687	Village Abadhi
				560	792	Private	Abadhi	94.29	0.0233	Village Abadhi
				560	788	Private	Abadhi	648.69	0.1603	Village Abadhi
				481	772	Private	Farrow Land	874.34	0.2160	Sardar Singh, etc
				169	771	Private	Agriculture	1113.68	0.2752	Dharampal, Bhoopsingh, Ransingh, Brijbhushan, Jabarsingh, Pushpendra, Chouhal Singh, etc
				461	1366	Private	Abadhi	97.51	0.0241	Shiv kumar, Krishnapal, Bhojveer, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				560	1365	Private	Abadhi	46.34	0.0115	Village Abadhi
				574	1364	Government	Guest House	183.19	0.0453	
				178	1363	Private	Abadhi	95.36	0.0236	Dharampal, Jayarani, Ramswaroop, etc
				231	1318	Private	Agriculture	1255.17	0.3101	Pradeep, Kuldeep, Shivarani, Jeet Singh, etc
				299	1317	Private	Agriculture	400.98	0.0991	Mahipal singh, etc
				303	1315	Private	Agriculture	429.08	0.1060	Mukesh, etc
				466	1314	Private	Agriculture	1091.53	0.2697	Sathveer Singh, Satish, etc
				63	1264	Private	Abadhi	457.14	0.1130	Parvesh Kumar, Vijay Kumar, etc
				2	1262	Private & Government	Agriculture / Power Grid	1676.55	0.4143	Dhanvanthi, Verender Singh, Power Grid, etc
				2, 326	1255	Private	Agriculture	788.36	0.1948	Chottelal, Mahinder Singh, etc
				2, 102	1254	Government	Power Grid	450	0.1112	Power Grid, etc
				2, 372	1253	Private	Agriculture	999.28	0.2469	Gajendrapal Singh, Smt Vidya, etc
				176	1252	Private	Agriculture	726.85	0.1796	Dharampal, etc
				562	1159	Government	Primary School	660.29	0.1632	-
				411	1158	Private	Rest House	146.81	0.0363	Administrator Ram daye
				133	1153	Private	Abadhi	24.89	0.0062	Sukhveer Singh, etc
				564	1151	Private	Temple	70.09	0.0173	G.S
				411	1143	Private	Agriculture	95.31	0.0236	Ramratan, Ramgopal, Amar Singh, Dharam Singh, Pushkar Singh, etc
				155	1117	Private	Abadhi	21.8	0.0054	Than singh, etc
				520	1114	Government	Road	14.46	0.0036	-
				207	1112	Private	Agriculture	85.27	0.0211	Prakash, etc
				560	1111	Private	Abadhi	405.5	0.1002	Village Abadhi
				36	1107	Private	Agriculture	53.92	0.0133	Ompal, Maiank singh, Susheel, etc
				554	969	Government	Panchayat Office / Thalab	204.72	0.0506	-
				580	968	Government	Road	32	0.0079	-
				144	961	Private	Agriculture	174.96	0.0432	Rajsingh, vedveersingh, Susheel Kumar, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				145	960	Private	Agriculture	180.1009	0.0445	Mahipal, Dhjarampal, Virender Singh, Satyaveer, etc
				105	959	Private	Agriculture	117.39	0.0290	Gile Singh, Rajkumar, Rajeshwari, Harveer, etc
				480	953	Private	Agriculture	201.7	0.0498	Sukveer, etc
				37	952	Private	Agriculture	152.28	0.0376	Ompal, etc
			(7) Walidpur	223	231	Private	Agriculture	1341.2	0.3314	Shivpal, etc
				7	222	Private	Agriculture	2372.84	0.5863	Anup Singh, etc
				6	201	Private	Agriculture	997.96	0.2466	Ajaypal, Gajender Singh, Jagat Singh, Gajraj Singh, etc
				199	200	Private	Agriculture	246.75	0.0610	Lajpal Singh, etc
				164	199	Private	Agriculture	285.39	0.0705	Yogenderpal, etc
				205	183	Private	Agriculture	223.64	0.0553	Virenderpal, etc
				229	177	Private	Agriculture	426.24	0.1053	Satvir, etc
				224	179	Private	Agriculture	100	0.0247	Saranvir, etc
				224	176	Private	Agriculture	537.73	0.1329	Saranvir, etc
				224	174	Private	Abadhi	237.83	0.0588	Saranvir, etc
				263	173	Private	Abadhi	739.7	0.1828	Hasim, Samsuddin, Ravinder Singh, Yogender Singh, Gourav, Prashant, etc
				65	160	Private	Abadhi	818.58	0.2023	Jagdish, etc
				55	159	Private	Agriculture	677.14	0.1673	Chaman Singh, Harvansh, Mahender Singh, etc
				55	156	Private	Agriculture/ Abadhi	540.73	0.1336	Chaman Singh, Rajvir, Rajkumar, Pawan, Sunil Kumar, Anil Kumar, Amit Kumar, Sushil Kumar, Mukesh kumar, Manoj Kumar, etc
				270	155	Private	Abadhi	668.33	0.1651	Village Abadhi
				165	146	Private	Agriculture	1969.77	0.4867	Yasvir, Ashwani Kumar, etc
				97	143	Private	Agriculture	759.29	0.1876	Devender, Narender, Sushant, Snehlata, etc

3617G/06-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69	141	Private	Agriculture	1838.44	0.4543	Ravinder Singh, Yogender Singh, Idrish, Jitender Pal, etc
				135	139	Private	Agriculture	1771.72	0.4378	Gourav, Prashant Kumar, Arjun, Anshul, Akchay Kumar, etc
				73	131	Private	Agriculture	1118.26	0.2763	Jafar Akhter, Kamar Akhter, etc
				73	130	Private	Agriculture	269.89	0.0667	Jafar Akhter, Kamar Akhter, etc
				15	129	Private	Agriculture	372.86	0.0921	Irshad, etc
				15	128	Private	Agriculture	334.78	0.0827	Irshad, etc
				73	127	Private	Agriculture	767.83	0.1897	Jafar Akhter, Kamar Akhter, etc
				83, 46, 133	541	Private	Agriculture	150.82	0.0373	Kiran Singh, Hukam Singh, Vir Singh, Jay Singh, Brahm Singh, Mohan Lal, Surender, etc
				12	539	Private	Agriculture	60.54	0.0150	Amar Das, etc
				134	538	Private	Agriculture	39.93	0.0099	Bahadur, Naresh, etc
				142	537	Private	Agriculture	144.09	0.0356	Jilay Singh, etc
				96	536	Private	Agriculture	24.22	0.0060	Devender, Narender, Yashvir, Sathvir, Ashwini Kumar, Sushant, Snehlata, etc
				128	534	Private	Agriculture	123.58	0.0305	Vikram, etc
				50	533	Private	Agriculture	37.95	0.0094	Gajender Singh, etc
				198	525	Private	Farrow Land	48.17	0.0119	Tezvir, etc
				163	524	Private	Farrow Land	36.91	0.0091	Balzor, etc
				125	523	Private	Agriculture	38.06	0.0094	Nepal, Raju, Govind, etc
				133	522	Private	Abadhi	68.41	0.0169	Brahm Singh, Mohan Lal, Surendra, etc
				227	521	Private	Agriculture	205.2	0.0507	Lakhendra Singh, Mu. Laxmi Devi, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				257	513	Private	Abadhi	105.98	0.0262	Anup Singh, Udayvir Singh, Harvir, Sukhvcer, Satish, Sarvesh Kumar, Mohd. Sarif, Ganga Das, etc
				270	512	Private	Abadhi	311.93	0.0771	Village Abadhi
				270, 281	305	Private	Abadhi/G.S	1169.51	0.2890	Village Abadhi
				270	300	Private	Abadhi	182.04	0.0450	Village Abadhi
				15	299	Private	Abadhi	197.02	0.0487	Irshad, etc
				14	297	Private	Farrow Land	744.77	0.1840	Mohd. Arif, etc
				71	267	Private	Farrow Land	533.09	0.1317	Jafar Akhter, etc
				269	266	Government	Nali	95.4	0.0236	Nali
				219	264	Private	Farrow Land	55.27	0.0137	Sabbir Ali, etc
				1	259	Private	Farrow Land	42.87	0.0106	Akbar Ali, etc
				37	252	Private	Farrow Land	35.86	0.0089	Keshar Jaan, etc
				38	251	Private	Farrow Land	24.7	0.0061	Kishori Lal, etc
				2	250	Private	Farrow Land	18.94	0.0047	Alma Begum, etc
				15	249	Private	Farrow Land	18.02	0.0045	Irshad, etc
				73	248	Private	Farrow Land	20.91	0.0052	Jaffar Akhter, Kamar Akhter, etc
				73	246	Private	Grave Yard	21.86	0.0054	Jaffar Akhter, Kamar Akhter, etc
				73	244	Private	Idgah	2.9	0.0007	Jaffar Akhter, Kamar Akhter, etc
				236	238	Private	Farrow Land	639.72	0.1581	Sushma Kumari, etc
			(8) Kanora	161	316	Private	Agriculture	1852.34	0.4577	Rameshwar, Kanaro, Vikrant, Omprakash, etc
				158	317	Private	Agriculture	847.79	0.2095	Raj Kumar, Surendra, etc
				127	318	Private	Agriculture / Abadhi / Farrow Land	716.27	0.1770	Mahaveer, etc
				15	319	Private	Agriculture	746.45	0.1844	Mohd. Idreesh, etc
				188	322	Private	Agriculture	2050.25	0.5066	Sathyapal Singh
				24	309	Private	Agriculture	610.13	0.1508	Usha, Umadevi, etc
				20	307	Private	Agriculture	496.08	0.1226	Usha, etc
				20	306	Private	Agriculture	674.16	0.1666	Usha, etc
				20	305	Private	Agriculture	1259.98	0.3113	Usha, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76	304	Private	Farrow Land	370	0.0914	Nyadher Singh, etc
				58	293	Private	Agriculture	377.33	0.0932	Jayprakash, Hilori, etc
				52	292	Private	Agriculture	664.63	0.1642	Chandraprakash, etc
				34	289	Private	Agriculture	297.59	0.0735	Krishnapal, etc
				140	288	Private	Agriculture	284.25	0.0702	Raghuval Dayal, etc
				167	287	Private	Agriculture	466.76	0.1153	Sharamjeet, etc
				53	286	Private	Agriculture	709	0.1752	Chandan Singh, etc
				59	284	Private	Agriculture	1200	0.2965	Jayprakash, Hilori, etc
				211, 210, 212	279	Private	G.S	1431.83	0.3538	Gaseeta, Meher Singh, Shyamlal, etc
				136	276	Private	Agriculture	316.23	0.0781	Vishpal Singh, Balwanth, etc
				54	275	Private	Agriculture	1466.48	0.3624	Chahal Singh, Dharampal, etc
				28	269	Private	Agriculture	1548.78	0.3827	Ompal, etc
				23	358	Private	Agriculture	361.6	0.0894	Smt Uma Devi, Smt Shusma, etc
				23	357	Private	Agriculture	316.38	0.0782	Smt Uma Devi, Smt Shusma, etc
				23	356	Private	Agriculture	242.46	0.0599	Smt Uma Devi, Smt Shusma, etc
				23	355	Private	Agriculture	253.37	0.0626	Smt Uma Devi, Smt Shusma, etc
				23	354	Private	Agriculture	259.47	0.0641	Smt Uma Devi, Smt Shusma, Jaspal, etc
				22	347	Private	Agriculture	111.15	0.0275	Smt Uma Devi, etc
				142	346	Private	Agriculture	183.99	0.0455	Smt Raguveeri Devi, etc
				143	345	Private	Agriculture	166.46	0.0411	Smt Raguveeri Devi, etc
				65	344	Private	Abadhi	153.35	0.0379	Bramday, Smt Raj Bala, etc
				218	343	Government	Road	38	0.0094	-
				221	340	Government	G.S	123.21	0.0304	-
				217	332	Government	G.S	83.99	0.0208	-
				217	330	Government	G.S	209.19	0.0517	-
				217	329	Government	Abadhi	170.72	0.0422	Village Abadhi
				217	327	Private	Abadhi	67.81	0.0168	Village Abadhi
			(9) Jasrathpur	9	254	Private	Agriculture	3087.03	0.7628	Omprakash, etc
				83, 52, 53, 171	257	Private	Agriculture	3578.72	0.8843	Mukesh kumar, Siddharth, Harneeth, Harender Singh, Vijaypal Singh, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3	258	Private	Agriculture	2837.16	0.7011	Chandveer, Anil Kumar, etc
				23	225	Private	Agriculture	1263.19	0.3121	Chandveer Singh, Shailender Chowdhary, etc
				178	222	Private	Abadhi	160.56	0.0397	Village Abadhi
				170	221	Private	Agriculture	187.4	0.0463	Dinesh Kumar Jain, etc
				170	220	Private	Agriculture	985.16	0.2434	Dinesh Kumar Jain, etc
				107	214	Private	Agriculture	2135.52	0.5277	Ramnivas, Ramvillas, etc
				109	209	Private	Agriculture	713.35	0.1763	Raguveer, etc
				60	206	Private	Agriculture	586.16	0.1448	Brampal Singh, etc
				43	204	Private	Agriculture	462.62	0.1143	Dharampal Singh, etc
				118	202	Private	Agriculture	802.41	0.1983	Ramnand, Ciyand, etc
				65	201	Private	Agriculture	376.35	0.0930	Bramsingh, Satish Kumar, etc
				116	199	Private	Agriculture	1975.38	0.4881	Ramnand, Ciyand, etc
				77	185	Private	Agriculture	856.63	0.2117	Bavarali, Shaheed Hussain, etc
				1	183	Private	Agriculture	931.21	0.2301	Hemchand, etc
				11	182	Private	Agriculture	471.45	0.1165	Yogender Kumar, Devender Kumar, etc
				129	181	Private	Agriculture	655.21	0.1619	Sharanveer Singh, Shiv Kumar, etc
				152	178	Private	Agriculture	155.87	0.0385	Prempal, Sudheshpal, etc
				152	176	Private	Agriculture	154.7	0.0382	Prempal, Sudheshpal, etc
				152	175	Private	Agriculture	100.91	0.0249	Prempal, Sudheshpal, etc
				152	173	Private	Agriculture	97.66	0.0241	Prempal, Sudheshpal, etc
				162, 168	262	Private	Agriculture	387.93	0.0959	Smt Meenakshi, Smt. Mehervathi, Jalsingh, etc
				15	263	Private	Agriculture	450.01	0.1112	Kalicharan, etc
				70	265	Private	Agriculture	155.37	0.0384	Bhavar Singh, etc
				70	269	Private	Agriculture	165.86	0.0410	Bhavar Singh, etc
				29	270	Private	Agriculture	207.25	0.0512	Jagpal Singh, etc
				26	271	Private	Agriculture	250.93	0.0620	Jayprakash, Ramprakash, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18	275	Private	Agriculture	320.01	0.0791	Smt. Anumal, etc
				10	277	Private	Agriculture	54.05	0.0134	Omprakash, etc
				193	278	Government	UP Electricity Board	535.98	0.1324	-
				42	100	Private	Agriculture	669.11	0.1653	Arjun Singh, Elam Singh, etc
				59	99	Private	Agriculture	276.47	0.0683	Brijesh, etc
				14	98	Private	Agriculture	119.01	0.0294	Kalidas, etc
			(10) Sakoti	1	448	Private	Abadhi	1002.58	0.2477	Hitkari Kisan Vidyalaya, etc
				68	446	Private	Agriculture	195.55	0.0483	Shivraj Singh, Yogendra, etc
				313	443	Private	Agriculture	58.43	0.0144	Indrani Devi, etc
				349	440	Private	Agriculture / Abadhi	307.41	0.0760	Prem Pal, Balwan, etc
				208	438	Private	Agriculture	64.08	0.0158	Mamraj, etc
				350	437	Private	Agriculture	37.43	0.0092	Sameh Singh, etc
				12	436	Private	Agriculture	39.58	0.0098	Amar Singh, etc
				394	435	Private	Agriculture	48.5	0.0120	Kawal, Sahendra, Surendra, etc
				6	434	Private	Agriculture	393.38	0.0972	Atar Singh, etc
				18	433	Private	Abadhi	369.6	0.0913	Imraz, Naqli Singh, etc
				4	340/861	Government	Road / Railway	372.73	0.0921	-
				329	426	Private	Abadhi	531.19	0.1313	Sanjeev Kumar, Vineeth Jain, Arun Kumar, etc
				1	427	Government	Nalli	91.55	0.0226	-
				296	412	Private	Agriculture	124.1	0.0307	Rampal Singh, Satyapal, Arun, Manoj Kumar, Gogender Kumar, Omprakash, etc
				284	411	Private	Farrow Land	48.44	0.0120	Rampal Singh, Satyapal Singh, etc
				284	410	Private	Farrow Land	60	0.0148	Rampal Singh, Satyapal Singh, etc
				374	409	Private	Farrow Land	56.04	0.0138	Sukvir Singh, Udayvir, etc
				223	406	Private	Abadhi	71.62	0.0177	Munna, Rajeeth Singh, etc
				45	408	Private	Farrow Land	71.62	0.0177	Udayveer Singh, Ragveer, etc
				289	404	Private	Agriculture	615.23	0.1520	Raveen Kumar, Nitin, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				246	403	Private	Agriculture	383.13	0.0947	Raj Kumar, etc
				433	401	Government	Hospital	613.42	0.1516	Veterinary Hospital
				195	400	Private	Abadhi	627.25	0.1550	Radhesham, Ramesh, Rajendra, etc
				280	399	Private	Agriculture	553.5	0.1368	Raghveer Singh, Omkar Singh, etc
				388	392	Private	Agriculture	400.83	0.0990	Hoshyaar Singh, etc
				42	390	Private	Abadhi	765.88	0.1892	CANE Development Society Sakauthi
				245	389	Private	Agriculture	696.56	0.1721	Krishna Avatar, Pervendra Omvathi, etc
				148	380	Private	Agriculture	901.11	0.2227	Vikram Singh, etc
				377	379	Private	Agriculture	408.44	0.1009	Saroj, etc
			(11) Dadri	245	895	Private	Agriculture	971.44	0.2400	Eshwar Singh, Jay Kumar, Devendra Kumar, etc
				458	894	Private	Agriculture	385.14	0.0952	Satyapal Singh, etc
				307	893	Private	Agriculture	762.36	0.1884	Yeshpal Singh, etc
				481	892	Private	Agriculture	1456.47	0.3599	Yeshpal Singh, etc
				173	832	Private	Agriculture	525.21	0.1298	Satyapal, Yashpal, Richpal Singh, etc
				157	831	Private	Agriculture	496.85	0.1228	Smt Pravesh Kumari, etc
				316	827	Private	Agriculture	2636.4	0.6514	Ravinder, Kumari Brij Singh, Ajab Singh, etc
				501, 10	774	Private	Agriculture	2480.51	0.6129	Er. Sriram Memorial Society thru Adyaksh Sri. Ram Prasad, Smt Bagli, etc
				316	462	Private	Abadhi	130	0.0321	Ravinder Kumar, Brij Singh, Ajab Singh, etc
				208	461	Private	Farrow Land	69.66	0.0172	Buddhu, Chatru, etc
				442	459	Private	Abadhi	151.39	0.0374	Shiv Charan, etc
				183	458	Private	Abadhi	269.94	0.0667	Phool Singh, Shiv Charan, Nakli, etc
				385	455	Private	Agriculture	422.06	0.1043	Raj Singh, Bal Madan, Ram Avatar, etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				57	454	Private	Farrow Land	250	0.0618	Kam Singh, Sunder, Shiv Kumar, etc
				41	450	Private	Abadhi	331.98	0.0820	Kaliram, Ramveer, etc
				550	283	Private	Abadhi	611.93	0.1512	Village Abadhi
				454	275	Private	Agriculture	765.4	0.1891	Sibban, Jumma, Buddhu, etc
				544	921	Government	Thalab	297.8	0.0736	G.S
				550	939	Private	Abadhi	740.32	0.1829	Village Abadhi
				251	940	Private	Abadhi	235.09	0.0581	Omprakash, etc
				550	949	Private	Abadhi	265.57	0.0656	Village Abadhi
				376	274	Private	Abadhi	304.22	0.0752	Ravinder Singh, Maharaj Singh, Rajender, etc
				273	273	Private	Agriculture	347.45	0.0859	Hari Ram Singh, Vishwaram Singh, Mahkar Singh, etc
				115	270	Private	Agriculture	1148.03	0.2837	Thikaram, etc
				89	265	Private	Agriculture	2547.66	0.6295	Ramratan, etc
				279	257	Private	Agriculture	2400.6	0.5932	Malkhan, etc
				445	255	Private	Agriculture	1109.51	0.2742	Sheetal, etc
				363	227	Private	Agriculture	1945.03	0.4806	Rampal Singh, etc
				169	226	Private	Agriculture	785.06	0.1940	Jagdeesh prasad, Ajab Singh, Rakam Singh, Anush Kumar, etc
				421	221	Private	Agriculture	736.69	0.1820	Brahm Singh, etc
				485	219	Private	Agriculture	2796.14	0.6909	Satyaveer, Mahesh, Jaghveer, etc

[F. No. NHA/BOT/11013/7/2004]

PRABHAKAR, Dy. Secy.